

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 नवम्बर 2014—कार्तिक 16, शक 1936

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

ग्राम पंचायत :
परिशिष्ट-5 (अ)

खरगोन, दिनांक 8 मई 2014

क्र. 13367-पंचा. निर्वाचन-2014-15.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्रामस्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता है, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्र.	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	अहिरखेडा	1	1 रमेश से 17 खजान	अजा	1
2	अहिरखेडा	2	18 रामा से 38क झुमाराम	अजजा	10
3	अहिरखेडा	3	39 सुन्दरबाई से 64ख अशोक	अन्य पि. वर्ग	4
4	अहिरखेडा	4	65 मानसिंह से 80 भागोबाई	अनारक्षित	5
5	अहिरखेडा	5	81 कालु से 109 पाण्डुदांस	महिला अजा	1
6	अहिरखेडा	6	112 हरीनारायण से 131/3 सुरजबाई	महिला अजजा	5
7	अहिरखेडा	7	132 कालू से 146 मंजुबाई	महिला अन्य पि. वर्ग	2
8	अहिरखेडा	8	147 रामा से 164/1 सायबाई	महिला अनारक्षित	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	अहिरखेडा	9	165 देवीसिंह से 177 नरेन्द्र		
10	अहिरखेडा	10	179 वसीम से 202 कन्हैया		
11	अहिरखेडा	11	203 आनन्दीबाई से 226 सीमाबाई		
12	अहिरखेडा	12	227 रामलाल से 250 सुनिताबाई		
13	अहिरखेडा	13	251 भागीरथ से 279 संगीताबाई		
14	अहिरखेडा	14	282 सीताराम से म/3 दिनेश		
15	डोंगरगांव	15	1 झलु से 13/2 सुरमाबाई		
16	डोंगरगांव	16	14 धोधरीबाई से 31 रेखाबाई		
17	कालबरड	17	1 अजोध्याबाई से 19 प्रकाश		
18	कालबरड	18	21 इकबाल से 32 मुरली		
19	कालबरड	19	33 ताराचन्द से 48 ममता		
20	कालबरड	20	49 डेन्दू से 66 सुमनबाई		

सारणी

अनु- क्र.	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	अमनखेडी	1	1 जगदीश से 27 मुकेश	अजा	1
2	अमनखेडी	2	28 सोहनलाल से 46 विरेन्द्र	अजजा	6
3	अमनखेडी	3	47 पूजा से 60 धमेन्द्र	अन्य पि. वर्ग	2
4	अमनखेडी	4	61 दयाराम से 75 प्रेमचन्द	अनारक्षित	3
5	अमनखेडी	5	76 नत्थु से 92 पौमडिया	महिला अजा	1
6	अमनखेडी	6	93 बिहारी से 110 दयाराम	महिला अजजा	3
7	अमनखेडी	7	111 टूलन से 126 चम्पालाल	महिला अन्य पि. वर्ग	1
8	अमनखेडी	8	129 घनश्याम से 150/1 भाईराम	महिला अनारक्षित	1
9	अमनखेडी	9	152 रामलाल से 190 गंगाधर		
10	लखापुर	10	2 रविन्द्र से 24 क दरियाव		
11	लखापुर	11	24 ख कडवा से 48 नथीबाई		
12	लखापुर, बंजारी	12	49 भारत से 80 कैलाश एवं 1 से 8		

सारणी

अनु- क्र.	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	अंदड	1	1 सुखिया बिशन से 26 ममता तुलसीराम	अजा	1
2	अंदड	2	27 मदन से 66 शर्मिला मोहन	अजजा	10
3	अंदड	3	68 मंगती से 119 रामप्यारी	अन्य पि. वर्ग	4
4	अंदड	4	120 लक्ष्मीनारायण से 142 चन्द्रशेखर	अनारक्षित	5
5	अंदड	5	143 पन्नालाल से 166 क राधा नन्नु	महिला अजा	1
6	अंदड	6	167 अनिल कुमार से 191 पंढरी	महिला अजजा	5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	अंदड	7	193 रामु मंगल्या से 215 ममता भारूड	महिला अन्य पि. वर्ग	2
8	अंदड	8	216 गेंदाबाई से 237 सुनिताबाई लवकुश	महिला अनारक्षित	2
9	अंदड	9	238 सुभानी अजित 262 से बिन्दूबाई		
10	अंदड	10	263 लक्ष्मणसिंह से 289 शकुन्तला		
11	अंदड	11	290 बाबूराव माधव से 321 मंजूला सुरेश		
12	अंदड	12	322 रमेशचन्द्र से 359 सुनिल दिनेश		
13	जामन्या	13	1 नबीबाई से 25/2 संतोषी		
14	जामन्या	14	28 लीला से 48/2 नूरजा		
15	जामन्या	15	51 डावरसिंह से 70 सुभाषचन्द्र		
16	जामन्या	16	71 तोताराम से 95 गायत्री		
17	जामन्या	17	96 कालु से 122 मुन्नी किशोर		
18	जामन्या	18	124 शिवराम से 152 अम्बाराम		
19	जामन्या	19	154 अनारसिंह से 173 क रूखमणी		
20	जामन्या	20	174 देवराम से 214 ए अर्जुन		

सारणी

अनु- क्र.	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	अंजनगांव	1	1 कावेरीबाई से 31 रामलाल	अजा	3
2	अंजनगांव	2	32 क अनारबाई से 61 क कन्हैया	अजजा	10
3	अंजनगांव	3	62 औंकारलाल से 108 कैलाश	अन्य पि. वर्ग	2
4	अंजनगांव	4	110 तुलाबाई से 143 क केशरीलाल	अनारक्षित	5
5	अंजनगांव	5	144 कपूरचन्द मीणा से 178 क मोहन	महिला अजा	2
6	अंजनगांव	6	179 सुल्तान से 210 रमेश	महिला अजजा	5
7	अंजनगांव	7	211 कौरजी से 231 नन्तू	महिला अन्य पि. वर्ग	1
8	अंजनगांव	8	231 घ कनसिंह से 280 औंकार	महिला अनारक्षित	2
9	अंजनगांव	9	285क तापीराम से 301 ग आत्माराम		
10	पिपल्या	10	01 रतन से 328 हुकूमचन्द		
11	पिपल्या	11	329 देवीसिंह से 365 गुलाबबाई		
12	पिपल्या	12	366 जातीबाई से 396 प्रतापसिंह		
13	पिपल्या	13	396 (1) तकतसिंह से 428 क भागीरथ		
14	पिपल्या	14	429 अनारसिंह से 466 (2) हुकूमचन्द		
15	औरंगपुरा	15	1 कलाबाई से 29 रेवाराम		
16	औरंगपुरा	16	30 तुकाराम से 51 क शिवराम		
17	औरंगपुरा	17	51 ख गंगाराम से 81 नानकराम		
18	औरंगपुरा	18	82 गिरजाबाई से 109 परसराम		
19	औरंगपुरा	19	110 हुकूमचन्द से 133 कैलाश		
20	औरंगपुरा	20	134 चन्दलीबाई से 167 मांगीलाल		

सारणी

अनु- क्र.	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	बडिया	1	1 मीठाराम से 21/1 आनन्दराम	अजा	3
2	बडिया	2	23 कैलाश से 42 मोतीया	अजजा	7
3	बडिया	3	43 श्रीराम से 69 चयनबाई	अन्य पि. वर्ग	1
4	बडिया	4	70 काशीराम से 80 बिरोजबाई	अनारक्षित	3
5	बडिया	5	83 अमोलबाई से 102 बाबू	महिला अजा	2
6	बडिया	6	105 शंकर से 122 भागीरथ	महिला अजजा	4
7	सहेजला	7	1 मीठाराम से 19 बाबूलाल	महिला अन्य पि. वर्ग	1
8	सहेजला	8	20 रामलाल से 38 परसराम	महिला अनारक्षित	1
9	सहेजला	9	39 हिरालाल से 56 नानीबाई		
10	सहेजला	10	57 छिताबाई से 67 मांगीलाल		
11	सहेजला	11	69 मोतीराम से 85 राजाराम		
12	सहेजला	12	86 राधेश्याम से 102 पूनमचन्द्र		
13	सहेजला	13	103 रामकुंवरबाई से 121 छिताबाई		
14	सहेजला	14	122 तुलसीबाई से 147 बूधा		

सारणी

अनु- क्र.	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	बडिया	1	1 मयाराम से 17 हिन्नोबाई	अजा	0
2	बडिया	2	19 राजाराम से 35 सेकडिबाई मोहन	अजजा	20
3	बडिया	3	36 मदन हरेसिंह से 49 कालु धनिया	अन्य पि. वर्ग	0
4	बडिया	4	50 लाडकीबाई से 60 झीनाबाई	अनारक्षित	0
5	बडिया	5	61 औंकार से 71 मंशाराम	महिला अजा	0
6	बडिया	6	72 दलसिंह से 81 दगडिया भावसिंह	महिला अजजा	10
7	बडिया	7	82 रघुनाथ भूरा से 89 सागर मालया	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	बडिया	8	90 नवलसिंह से 101 रूपसिंह रामला	महिला अनारक्षित	0
9	बडिया	9	102 दशरथ से 220 कुंवरसिंह गुलाब		
10	गोविन्दपुरा	10	1 वेराग भूचर से 8 भावसिंह मेघला		
11	गोविन्दपुरा	11	9 रीछाबाई से 31 शंकर गजा		
12	गोविन्दपुरा	12	33 रमकूबाई से 112 सुशीलाबाई		
13	सुल्तानपुरा	13	1 नानसिंह से 12 बद्री जयराम		
14	सुल्तानपुरा	14	13 धूमसिंह धूंधरीबाई से 23 क सुरपाल		
15	सुल्तानपुरा	15	24 बंस्या दौला से 33 थावलिया रूपसिंह		
16	सुल्तानपुरा	16	34 गन्नु से 46 झेतरीबाई		
17	सुल्तानपुरा	17	47 वालसिंह भाचरिया से 58 रामसिंह		
18	सुल्तानपुरा	18	59 तेरसिंह गारडिया से 69 का मिश्रीलाल		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19	सुल्तानपुरा	19	70 गेंदरसिंह खुमान से 88 रूखडिया		
20	सुल्तानपुरा	20	89 मानकर वेस्ता से 100 महेन्द्र केशरिया		

सारणी

अनु- क्र.	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बलखडिया	1	1 बद्री से 16 किशन तक	अजा	2
2	बलखडिया	2	17 किशन चुन्नीलाल से 29 हुकुम तक	अजजा	10
3	बलखडिया	3	30 लक्ष्मीनारायण से 45 शिवराम तक	अन्य पि. वर्ग	3
4	बलखडिया	4	46 भुवानीराम से 62 भागीरथ तक	अनारक्षित	5
5	बलखडिया	5	63 तुलसीराम बाबू से 77 मीठाराम तक	महिला अजा	1
6	बलखडिया	6	78 रणझोड से 92 बलीराम तक	महिला अजजा	5
7	बलखडिया	7	93 सोम्मर से 112 बलीराम तक	महिला अन्य पि. वर्ग	1
8	बलखडिया	8	113 रेवाराम से 122 भगू तक	महिला अनारक्षित	3
9	बलखडिया	9	123 परसराम से 138 तुलसीराम तक		
10	बलखडिया	10	139 काशीराम से 153 छगन तक		
11	बलखडिया	11	154 कडवा से 174 गेंदीलाल तक		
12	सिरलाय	12	1 राधेश्याम मोतीराम से 14 चम्पालाल		
13	सिरलाय	13	15 केशव से 30 थावरसिंह तक		
14	सिरलाय	14	31 बादाम से 45 कमल सिंह तक		
15	सिरलाय	15	256 रामाबाई से 62/ग सुखलाल गोविन्द		
16	सिरलाय	16	64 सकुबाई से 89 मांगीलाल रघुनाथ		
17	सिरलाय	17	90 पुनीबाई मयाराम से 113 दयाराम		
18	सिरलाय	18	114 औंकार से 133/ग अमरसिंह तक		
19	सिरलाय	19	134 बालु गोपाल से 149/क श्याम अंतर तक		
20	सिरलाय	20	150 मीठाराम फत्तु से 181 इकराम तक		

सारणी

अनु- क्र.	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बमनाला	1	1 विजयलक्ष्मी से 24/2 प्रदीपकुमार	अजा	1
2	बमनाला	2	25 कुसुमबाई से 64/2 मानसिंह	अजजा	10
3	बमनाला	3	65 भगवानसिंह से 108 दरियावसिंह	अन्य पि. वर्ग	4
4	बमनाला	4	109 महाकुंवरबाई से 178 बोंदरसिंह	अनारक्षित	5
5	बमनाला	5	180 सविना मिरबान से 239 फिरोज	महिला अजा	1
6	बमनाला	6	230 बिहारीलाल से 283 चम्पालाल	महिला अजजा	5
7	बमनाला	7	284 पुनमचन्द से 327 ग बाबूलाल	महिला अन्य पि. वर्ग	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	बमनाला	8	328 शंताबाई से 387 गेंदालाल	महिला अनारक्षित	2
9	बमनाला	9	389 नन्नु से 447 मालुराम		
10	बमनाला	10	448 अनोखीलाल से 494 पुनिया		
11	बमनाला	11	495 राधेश्याम से 563 अनार		
12	बमनाला	12	565 बलीराम से 619 कन्हैया		
13	बमनाला	13	621 अनारबाई से 703/2 नत्थु		
14	बमनाला	14	705 पुनमचन्द से 819 नन्दू		
15	बमनाला	15	820 धनसिंह से 884 दरियाव		
16	बमनाला	16	885 प्रितमसिंह से 931 बाबूसिंह		
17	बमनाला	17	932/1 बालकृष्ण से 964 जयसिंह		
18	बमनाला	18	967 कैलाश से 992/1 अनोक		
19	बमनाला	19	993 कैलाशचन्द्र से 1003/37 बीकाजी		
20	बमनाला	20	1021 देवचन्द से 1257 अंतरसिंह		

सारणी

अनु- क्र.	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बंझर	1	1 जयपालसिंह से 18 क फुन्दाबाई	अजा	2
2	बंझर	2	19 सजनसिंह से 32 राधेश्याम	अजजा	10
3	बंझर	3	33 धनसिंह से 49 कमलाबाई	अन्य पि. वर्ग	3
4	बंझर	4	50 गणपतसिंह से 67 क चन्द्रकला	अनारक्षित	5
5	बंझर	5	68 विक्रमसिंह से 87 सीताबाई	महिला अजा	1
6	बंझर	6	88 सदाशिव से 115 सजनसिंह	महिला अजजा	5
7	बंझर	7	116 प्रेमबाई से 150 बसंतीबाई	महिला अन्य पि. वर्ग	1
8	बंझर	8	151 भारतसिंह से 175 क गोविन्द	महिला अनारक्षित	3
9	बंझर	9	178 ललीताबाई से 197 उमाबाई		
10	बंझर	10	198 सुशीलचन्द से 232 मुंशीखां		
11	बंझर	11	233 चिन्ताबाई से 254 कृष्णाबाई		
12	बंझर	12	255 हरेसिंह से 270 सुरजबाई		
13	बंझर	13	271 खुमानसिंह से 284 क रामु		
14	बंझर	14	285 रामेश्वर से 310 जसवंतसिंह		
15	बंझर	15	313 अनारबाई से 329 धूलचन्द		
16	बंझर	16	330 दुर्गाबाई से 348 नन्दू		
17	बंझर	17	349 कडवा से 374 रमेश		
18	बंझर	18	375 कैलाश से 395 नत्थु		
19	बंझर	19	396 शंकरलाल से 423 भंवरबाई		
20	बंझर	20	424 शौभाराम से 446 लक्ष्मण		

सारणी

अनु- क्र.	ग्राम का नाम	वाडों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वाडों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	भगवानपुरा	1	1 लछीराम से 14 चम्पालाल	अजा	2
2	भगवानपुरा	2	15 भोलु से 26 बावरा धमरापी	अजजा	9
3	भगवानपुरा	3	28 हिरालाल से 46 सुनिता	अन्य पि. वर्ग	3
4	भगवानपुरा	4	48 राधेश्याम से 59 नन्दराम	अनारक्षित	4
5	भगवानपुरा	5	60 धनाजी से 71 मांगीलाल	महिला अजा	1
6	भगवानपुरा	6	73 मोतीराम से 92 यशोदा	महिला अजजा	5
7	भगवानपुरा	7	93 टिकाराम से 107 बाबूलाल	महिला अन्य पि. वर्ग	2
8	भगवानपुरा	8	108 हिरालाल से 132/1 गुलाबसिंह	महिला अनारक्षित	2
9	भगवानपुरा	9	103 श्यामाबाई से 146 शंकर		
10	पिपलई खुर्द	10	1 कालुबाई से 14 चंदा		
11	पिपलई खुर्द	11	16 देवीसिंह से 36 बालकिशन		
12	पिपलई खुर्द	12	39 हिरा से 48 नागा तोताराम		
13	पिपलई खुर्द	13	50 मंदोर से 69 बली श्रवण		
14	पिपलई खुर्द	14	70 मोजीलाल से 84/1 सावित्री		
15	पिपलई खुर्द	15	85 सावित्री से 103 औंकार बकस्या		
16	पिपलई खुर्द	16	104 केशर बाबू से 116 कवल्या बालू		
17	पिपलई खुर्द	17	118 अनार तेजा से 131 जगराम		
18	पिपलई खुर्द	18	132 दिदार मकराम से 159 दूलीचन्द		

सारणी

अनु- क्र.	ग्राम का नाम	वाडों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वाडों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	बिलखेड खुर्द	1	2 काशीराम किशन से 17 रामलाल	अजा	2
2	बिलखेड खुर्द	2	18 छगन लक्ष्मण से 31 भगवान फल्लु	अजजा	10
3	बिलखेड खुर्द	3	32 देवीसिंह मंत्रीलाल से 51 भंवरसिंह	अन्य पि. वर्ग	3
4	बिलखेड खुर्द	4	53 केशव भोलु से 76 राधेश्याम छीतु	अनारक्षित	5
5	बिलखेड खुर्द	5	77 खातुन जुम्मा से 91 ननू सुखराम	महिला अजा	1
6	अदलपुरा	6	1 रमेशचन्द्र राजाराम से 16 सफी इब्राहिम	महिला अजजा	5
7	अदलपुरा	7	17 हमीद बाबू से 31 कल्लु दिलावर	महिला अन्य पि. वर्ग	1
8	अदलपुरा	8	33 मोहन राजाराम से 46 शैरोबी वकील	महिला अनारक्षित	3
9	अदलपुरा	9	47 रजीया रसीद से 67 मोहबाई सरदार		
10	अदलपुरा	10	68 शांतीबाई बाबूलाल से 82 मोहम्मद		
11	अदलपुरा	11	85 शांतिबाई तेजकरण से 104 कमल		
12	अदलपुरा	12	106 ओमप्रकाश रामकिशन से 117 इकबाल		
13	अदलपुरा	13	118 लियाकत आलाबेली से 134 गुलाबबाई		
14	अदलपुरा	14	135 जानकीबाई से 148/8 चिंतामण		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	अदलपुरा	15	149 नजमा चांद खां से 169 वैरसिंह		
16	अदलपुरा	16	170 कल्लु सकुर से 190 जगदीश		
17	अदलपुरा	17	193 रूकमणी भगवान से 207 उस्मान		
18	अदलपुरा	18	208 आबिज मुस्तफा से 228 रमेश		
19	अदलपुरा	19	228/2 खलील गुलामीर से 246/2 बाबू		
20	अदलपुरा	20	246/3 तुकाराम फकीरा से 274 नासीर		

सारणी

अनु- क्र.	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बिरूल	1	1 बहादरसिंह भोलुसिंह से 13 क इंदरसिंह	अजा	0
2	बिरूल	2	14 बिनाबाई कैलाश से 26 रामदास	अजजा	16
3	बिरूल	3	27 सजनसिंह प्यारसिंह से 41/1 भागीरथ	अन्य पि. वर्ग	0
4	बिरूल	4	42 सागरसिंह से 58 क कैलाशचन्द्र	अनारक्षित	4
5	बिरूल	5	69 जगदीश पुन्जीलाल से 76 कालुसिंह	महिला अजा	0
6	बिरूल	6	78 बेबीबाई केशरसिंह से 99 राधेश्याम	महिला अजजा	8
7	बिरूल	7	100 झुमकाबाई से 114 क मदनलाल	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	बिरूल	8	116 गडबड से 136 सुखराम भाईराम	महिला अनारक्षित	2
9	बिरूल	9	138 गंगु नत्थु से 156 जमुनाबाई गुसाई		
10	बिरूल	10	157 कडवीबाई मांगीलाल से 179 श्रीराम		
11	बिरूल	11	180 नथीबाई कन्हैया से 194/1 हरीओम		
12	बिरूल	12	195 लूला गारदिया से 216 क मुन्ना		
13	बिरूल	13	217 वेरागसिंह 229 ख से कालुसिंह		
14	बिरूल	14	230 नूरला केरिया से 239 ध्यानसिंह		
15	लछौरा	15	1 मेहताबबाई खुमानसिंह से 9 इरभान		
16	लछौरा	16	10 औरजुबाई रामसिंह से 24 किशन		
17	लछौरा	17	27 रामा गुलाबसिंह से 43 क रीछु मला		
18	लछौरा	18	44 नत्थु धनसिंह से 58 लालसिंह घिस्या		
19	लछौरा	19	60 रूपसिंह भावसिंह से 74 सखाराम		
20	लछौरा	20	77 जोगीलाल अलमिया से 369 ए सिगदार		

सारणी

अनु- क्र.	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बिटनेरा	1	1 राघोराम से 16 सरस्वती	अजा	2
2	बिटनेरा	2	17 चम्पालाल से 30 रेवाराम	अजजा	10
3	बिटनेरा	3	31 रमाबाई से 45 रामकुंवर	अन्य पि. वर्ग	3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	बिटनेरा	4	46 मरूबाई से 64 कडवा	अनारक्षित	5
5	बिटनेरा	5	65 सुन्दरबाई से 82 ग्यारसीबाई	महिला अजा	1
6	बिटनेरा	6	83 किरणबाई से 100 संतोष	महिला अजजा	5
7	बिटनेरा	7	101 महादेव से 119 रामचन्द्र	महिला अन्य पि. वर्ग	1
8	बिटनेरा	8	120 शारदाबाई से 142 अमरसिंह	महिला अनारक्षित	3
9	बिटनेरा	9	143 लीलाबाई से 156 सुरजबाई		
10	बिटनेरा	10	157 पंढरीनाथ से 174 शांताबाई		
11	बिटनेरा	11	175 माधवसिंह से 193 दूर्गाबाई		
12	बिटनेरा	12	194 भानुप्रसाद से 210 नरेन्द्र		
13	बिटनेरा	13	211 बागसिंह से 225 दरियाव		
14	बिटनेरा	14	226 रेवाबाई से 240 छतरसिंह		
15	बिटनेरा	15	241 रूमसिंह से 254 लालू		
16	बिटनेरा	16	255 नवलसिंह से 265 रेवाराम		
17	बिटनेरा	17	266 भागचन्द से 285 जानूबाई		
18	बिटनेरा	18	286 गोविन्द से 295 जानुबाई		
19	बिटनेरा	19	296 जीताबाई से 309 किशन		
20	बिटनेरा	20	310 शांतिलाल से 322 जेठा		

सारणी

अनु- क्र.	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बोरगांव	1	1 कैलाश से 15 गोपाल नथु	अजा	1
2	बोरगांव	2	16 सरवण से 34 दया	अजजा	11
3	बोरगांव	3	35 हरकू काशीराम से 54 तकतसिंह	अन्य पि. वर्ग	3
4	बोरगांव	4	55 महेन्द्र से 66 राजाराम	अनारक्षित	5
5	बोरगांव	5	67 रामा किशन से 85 माया रामेश्वर	महिला अजा	1
6	बोरगांव	6	87 भूपेन्द्र सिंह से 100 लोभेन्द्रसिंह	महिला अजजा	5
7	बोरगांव	7	101 प्रहलादसिंह से 112 देवराम	महिला अन्य पि. वर्ग	2
8	बोरगांव	8	113 चन्दूलाल से 138 मंशाराम	महिला अनारक्षित	2
9	बोरगांव	9	139 कमलसिंह से 155 कौशल्याबाई		
10	बोरगांव	10	156 रूखमणीबाई से 171 देवराम सीताराम		
11	बोरगांव	11	172 सुमन भाईराम से 199 सेवकराम		
12	पछाया	12	1 लछीबाई से 16 चम्पालाल छिपरी		
13	पछाया	13	17 धन्नालला बुदु 29 से सजनबाई		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	पछाया	14	30 रघुनाथ से 43 गोदावरी मोतीराम		
15	पछाया	15	44 केशव छगन से 58 गोपीचन्द मागीलाल		
16	पछाया	16	59 दगडीबाई छज्जू से 71 श्यामलाल		
17	पछाया	17	72 सुबिया बिशन से 84 बालकराम		
18	पछाया	18	85 जीवनबाई राजाराम से 99 कडवा		
19	पछाया	19	100 श्रीराम से 109 कडवा		
20	पछाया	20	110 मथुराबाई से 119 गेंदाराम		

सारणी

अनु- क्र.	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बोरूट	1	01 रामलाल से 18 रमेश छगन	अजा	1
2	बोरूट	2	19 राधोराम से 32 मोतीराम गुलबा	अजजा	11
3	बोरूट	3	33 रामेशवर से 49 रामकरण छज्जू	अन्य पि. वर्ग	3
4	बोरूट	4	50 छन्दुबाई से 67 शोभाराम प्रजापत	अनारक्षित	5
5	बोरूट	5	68 मंगल्या से 87 शिवराम छज्जू	महिला अजा	1
6	बोरूट	6	88 तिलोक से 99 ख डुंडीबाई गंजी	महिला अजजा	6
7	बोरूट	7	100 भावला से 112 शंकर दरिया	महिला अन्य पि. वर्ग	1
8	बोरूट	8	113 लखन से 128 चम्पालाल चैतराम	महिला अनारक्षित	2
9	बोरूट	9	129 चैतराम से 146 क नीला दगडु		
10	बोरूट	10	147 आनन्दराम से 164 बोंदर छोटिया		
11	बोरूट	11	165 छितर से 179 चंदाबाई		
12	बोरूट	12	180 भाईराम से 192 शिवराम कालु		
13	बोरूट	13	193 इसराम से 211 एवं 234 मनीष		
14	घोड़वा	14	1 बद्रीलाल से 17 नहारसिंह		
15	घोड़वा	15	18 तुलसीराम से 40 गोंविद		
16	घोड़वा	16	41 कमलाबाई सेन से 57 सुंदरलाल		
17	घोड़वा	17	58 पन्नालाल से 73 देवकीलाल		
18	खारवी	18	1 भगवान से 19 रामचन्द्र		
19	खारवी	19	20 रघुनाथ से 38 गोपीकिशन पंडित		
20	मनोहरपुरा	20	01 नरसिंग से 27 नागु दौला		

सारणी

अनु- क्र.	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	छिर्वा	1	1 नत्थु दयाराम से 12 ख मांगी	अजा	1
2	छिर्वा	2	13 मायाबाई से 23 गोरेलाल	अजजा	14

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	छिर्वा	3	24 तेजलबाई से 45 गीरजाबाई	अन्य पि. वर्ग	0
4	छिर्वा	4	46 चम्पाबाई से 58 रंजीताबाई	अनारक्षित	5
5	छिर्वा	5	59 शारदाबाई से 71 सावन	महिला अजा	1
6	छिर्वा	6	73 गंगाबाई से 93 ग सखाराम	महिला अजजा	7
7	छिर्वा	7	94 हुकुम से 112 रानुबाई	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	छिर्वा	8	113 टुटला से 126 प्रदीप	महिला अनारक्षित	2
9	छिर्वा	9	127 कल्याण से 140 रेखाबाई		
10	छिर्वा	10	141 बलीराम से 156 कु. मनीषा		
11	छिर्वा	11	158 मरूबाई से 176 सुनीताबाई		
12	छिर्वा	12	177 देवराम से 195 रेशमबाई		
13	छिर्वा	13	196 रूघनाथ से 209 आनंद		
14	छिर्वा	14	210 आनंदराम से 222 अभिषेक		
15	छिर्वा	15	223 हिरूबाई से 241 गंगाबाई		
16	छिर्वा	16	242 मांगीलाल से 257 रानु		
17	छिर्वा	17	258 दित्या से 275 महेन्द्र		
18	छिर्वा	18	277 कड़वाजी से 293 रिना		
19	छिर्वा	19	294 घनसिंह से 303 दुर्गाबाई		
20	छिर्वा	20	304 झिगली से 359 किरण		

सारणी

अनु- क्र.	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	चिरागपुरा	1	1 नन्नु से 17 शांतिलाल दगडिया	अजा	4
2	चिरागपुरा	2	18 हिरालाल से 35 गोकुल दमा	अजजा	10
3	चिरागपुरा	3	36 लटुबाई से 50 तुकाराम छगन	अन्य पि. वर्ग	1
4	चिरागपुरा	4	51 श्यामलाल से 70 रहिम खान	अनारक्षित	4
5	चिरागपुरा	5	71 जुम्मा काशम से 82 लक्ष्मीनारायण	महिला अजा	2
6	चिरागपुरा	6	84 हिरालाल से 103 मंशाराम	महिला अजजा	5
7	चिरागपुरा	7	104 भाईराम से 122 सावित्रीबाई	महिला अन्य पि. वर्ग	1
8	चिरागपुरा	8	123 कड़वा से 132 तुलसीराम	महिला अनारक्षित	2
9	चिरागपुरा	9	133 पन्नालाल से 207 राजेन्द्र		
10	भातलपुरा	10	1 मंगुसिंह से 20 तेजु बाबु		
11	भातलपुरा	11	21 मनोहर से 37 नन्नु चम्पीया		
12	भातलपुरा	12	38 श्याणीबाई से 58 कड़वा		
13	भातलपुरा	13	59 शांताबाई से 75 रामलाल		
14	भातलपुरा	14	76 उमराव से 92 बिहारी		
15	भातलपुरा	15	93 बाबु से 108 लोकेन्द्र		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16	भातलपुरा	16	109 भारतसिंह से 126 दरियाव		
17	भातलपुरा	17	127 प्रलादसिंह से 145 इंदुबाई		
18	भातलपुरा	18	146 लक्ष्मीबाई से 163 रूखड़ीबाई		
19	भातलपुरा	19	165 सीताबाई से 187 प्यारा		

सारणी

अनु- क्र.	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	चौण्डी अंदड	1	1 तुकाराम बालु से 10 गीताबाई सीताराम	अजा	1
2	चौण्डी अंदड	2	14 मदन घिसीया से 28 माताबाई केशव	अजजा	11
3	चौण्डी अंदड	3	29 मंगल्या रायसिंग से 44 नन्दू रणछोड	अन्य पि. वर्ग	0
4	चौण्डी अंदड	4	46 लक्ष्मी रणछोड से 57 रामकौरबाई	अनारक्षित	4
5	चौण्डी अंदड	5	58 पप्पू ज्ञानसिंह से 71 मंगत फलतु	महिला अजा	1
6	चौण्डी अंदड	6	72 नहारू फलतु से 81 भगवान राजाराम	महिला अजजा	5
7	चौण्डी अंदड	7	82 भंगडीबाई जुवानसिंह से 93 सरदार	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	चौण्डी अंदड	8	94 रघुनाथ रामसिंह से 105 नरसिंह मोत्या	महिला अनारक्षित	2
9	चौण्डी अंदड	9	106 मोत्याबाई गणपत से 116 फुंदाबाई		
10	चौण्डी अंदड	10	117 मांग्या नरसिंह से 125 सुभान हतु		
11	चौण्डी अंदड	11	126 जयराम लखडिया से 137 डोंगरसिंह		
12	चौण्डी अंदड	12	138 नहारसिंग तात्या से 147 जुमनाबाई		
13	चौण्डी अंदड	13	149 सुरजबाई फुलसिंह से 156 फुलसिंह		
14	चौण्डी अंदड	14	157 श्याणीबाई वेलजी से 165 झलुबाई		
15	चौण्डी अंदड	15	167 हरसिंग केकडिया से 177 सुमला		
16	चौण्डी अंदड	16	178 रेमला हगरिया से 190 ग्यारसीबाई		

सारणी

अनु- क्र.	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	मुहाली	1	1 प्रेमसिंह से 18 बदनसिंह	अजा	0
2	मुहाली	2	19 लोकेन्द्रसिंह से 45 बाबरा	अजजा	20
3	मुहाली	3	46 वेस्तीबाई से 59 शौभाराम	अन्य पि. वर्ग	0
4	मुहाली	4	60 सुरसिंह से 69 कुन्तीबाई	अनारक्षित	0
5	मुहाली	5	72 खजरीबाई 80 अमरसिंह	महिला अजा	0
6	मुहाली	6	81 नूरजी से 99 धूलीबाई	महिला अजजा	10
7	मुहाली	7	100 भाटू से 109 ललीता	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	मुहाली	8	110 मोती से 123 सुखमाबाई	महिला अनारक्षित	0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	मुहाली	9	124 पूनीबाई से 132 सुकमाबाई		
10	मुहाली	10	133 जुवानसिंह से 145 मीराबाई		
11	मुहाली	11	146 सुखलाल से 160 सीमाबाई		
12	चौण्डी	12	1 भूरा से 18 जानकी		
13	चौण्डी	13	20 डूडी से 32 भूरी		
14	चौण्डी	14	33 रणछोड से 52 सावित्री		
15	चौण्डी	15	54 बिशन से 68 सुनिता		
16	चौण्डी	16	70 रघु से 104 ग्यारूबाई		
17	गवल	17	1 शंकर से 17 कविता		
18	गवल	18	20 हुकूम से 35 वेस्ती		
19	गवल	19	37 तेरसिंह से 56 मोहन		
20	गवल	20	56 शांताबाई से 116 सेवन्ती		

सारणी

अनु- क्र.	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	देवला	1	1 रेवाराम बाला से 26 केशरसिंह	अजा	3
2	देवला	2	28 जमुनाबाई राजु से 57 अ रूपसिंह	अजजा	10
3	देवला	3	58 तुलाराम नरसिंह से 79 तुलसाबाई	अन्य पि. वर्ग	2
4	देवला	4	80 सुरेन्द्रसिंह झबरसिंह से 101 गेंदालाल	अनारक्षित	5
5	देवला	5	102 कैलाश घिसीलाल से 126 जीवन	महिला अजा	1
6	देवला	6	127 शिवकरण मोतीराम से 139 लक्ष्मण	महिला अजजा	5
7	देवला	7	142 नथी मंशाराम से 157 नानूराम	महिला अन्य पि. वर्ग	1
8	देवला	8	158 समोती शंकर से 176 हरीराम	महिला अनारक्षित	3
9	देवला	9	177 रमुबाई शंकर से 195 बाबू फत्तु		
10	देवला	10	196 रामेश्वर सीताराम से 219 घिसीबाई		
11	देवला	11	220 अमराजी समखाराम से 261 हंसराज		
12	देवला	12	262 गजराज टन्डू से 285 दयाराम		
13	देवला	13	286 कडवी नत्थु से 310 मोतन		
14	देवला	14	311 सीताराम गंगाराम से 343 राजाराम		
15	देवला	15	344 लखन जामसिंह से 376 झेतरिया		
16	आंवल्या	16	1 तुल्या हमीर से 23 लीलाबाई		
17	आंवल्या	17	24 महूबाई बदिया से 43 निहाली गणपत		
18	आंवल्या	18	44 सागरबाई श्रवण से 62 रोडिया छजू		
19	आंवल्या	19	64 सरदार गिरवर से 75 चमारिया		
20	आंवल्या	20	76 रामसिंह रीछु से 93 दिनेश मिशन.		

सारणी

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	दौडवां	1	1 खानबी से 35 अ रानी राजाराम	अ.जा.	1
2	दौडवां	2	37 नारायण पूना से 76 रसीद	अ.ज.जा.	10
3	दौडवां	3	85 फतिमा से 108 कमलसिंह	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
4	दौडवां	4	109 रूखडुसिंह से 140 लक्ष्मीबाई	अनारक्षित	5
5	दौडवां	5	141 लाडकीबाई से 169 शेख हबीब	महिला अ.जा.	1
6	दौडवां	6	170 कमरतल से 205 भुवानीराम	महिला अ.ज.जा.	5
7	दौडवां	7	206 राजाराम से 235 क छन्दू कैलाश	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
8	दौडवां	8	237 डाकोरसिंह से 265 बनारसबाई	महिला अनारक्षित	2
9	दौडवां	9	267 बाबूसिंह से 293 भोलाराम		
10	दौडवां	10	244 सेवन्तीबाई से 318 क सुखलाल		
11	दौडवां	11	319 खुमसिंह से 348 मेहरू निशा		
12	दौडवां	12	349 जरदार से 293 शेख तामील		
13	दौडवां	13	394 गंगाबाई से 431 लक्ष्मीनारायण		
14	दौडवां	14	433 किशनलाल से 460 प्रेमलाल		
15	दौडवां	15	462 शंकर से 499 सजनबाई		
16	दौडवां	16	500 रूखमाबाई से 535 सुभाष		
17	दौडवां	17	536 रेवाबाई से 576 जिरला मंगल्या		
18	दौडवां	18	577 हिरला मंगल्या से 598 मालसिंह		
19	दौडवां	19	599 सिलदार से 610 बलीराम देवीसिंह		
20	दौडवां	20	611 भायसिंग से 922 पिंकीबाई		

सारणी

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	एकतासा	1	2 नानकुंवरबाई से 21/1 मंगतसिंह झापू	अ.जा.	1
2	एकतासा	2	22 अंतरसिंह से 47 विरेन्द्र	अ.ज.जा.	14
3	एकतासा	3	48 मोजीलाल नैनसिंह से 76 रूखमणी	अन्य पिछड़ा वर्ग	5
4	एकतासा	4	77 शिवलाल बृजलाल से 105 सुमित्रा	अनारक्षित	0
5	एकतासा	5	106 रूपेन्द्र भोपालसिंह से 131 पेमलबाई	महिला अ.जा.	1
6	एकतासा	6	132 रामईबाई तुकाराम से 154 गंगाराम	महिला अ.ज.जा.	7
7	एकतासा	7	155 खुमानसिंह डेबरा से 168 विजय	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
8	मछलगांव	8	2 दुर्गाराम मंशाराम से 21/3 दुर्गा	महिला अनारक्षित	2
9	मछलगांव	9	11 भैयालाल किशन से 52 रेखाबाई मुकेश		
10	मछलगांव	10	53 बल्लूसिंह मांगीलाल से 77 पूजा संजय		
11	मछलगांव	11	77/2 नन्नु हिरालाल से 95 कोमल		
12	मछलगांव	12	96 अमराजी केशव से 117 मोतीराम		
13	मछलगांव	13	119 रामसिंह से 139 क कलाबाई		
14	मछलगांव	14	140 राधीबाई मदन से 140 छ काशीराम		
15	मालखेडा	15	1 तारूबाई गणस्या से 17 ख दूर्गाबाई		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16	मालखेडा	16	18 सुखीबाई नन्दराम से 36 घ महेश		
17	मालखेडा	17	37 ममताबाई राधेश्याम से 53 राजकुमारी		
18	मालखेडा	18	54 इन्द्रसिंह नरसिंह से 70 सुमनबाई		
19	मालखेडा	19	71 हरचन्द हिरालाल से 87 सुभाष		
20	मालखेडा	20	88 मयाराम नत्थु से 104 सुमेर आशाराम		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	गोराडिया	1	1 रामलाल से 9/1 गजेन्द्र	अ.जा.	1
2	गोराडिया	2	10 लीलाबाई से 21 कमलाबाई	अ.ज.जा.	10
3	गोराडिया	3	22 मोतीकुंवर से 28 मनीषा	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
4	गोराडिया	4	29 बनूबाई से 48/2 जितेन्द्र	अनारक्षित	5
5	गोराडिया	5	49 शांताबाई से 61 रेखा	महिला अ.जा.	1
6	गोराडिया	6	63 बसन्तीबाई से 77/1 सचिन मनोहर	महिला अ.ज.जा.	5
7	गोराडिया	7	77/2 मंशाराम से 95 शुभम अमर	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
8	गोराडिया	8	95/1 देवेन्द्र से 110 बनु दयालसिंह	महिला अनारक्षित	2
9	गोराडिया	9	111 गीता 124/1 से अर्जून		
10	गोराडिया	10	126 राधाबाई से 140/1 गोपाल रामचन्द्र		
11	गोराडिया	11	141 प्रभूलाल से 157 मोनीका राजेश		
12	गोराडिया	12	158 फुन्दाबाई से 170 लक्ष्मी		
13	गोराडिया	13	171 राजलीबाई से 201 अजोध्याबाई		
14	गोराडिया	14	202 नानईबाई से 215 गणेश जगदीश		
15	गोराडिया	15	216/1 विनोद से 227 निशा जगदीश		
16	गोराडिया	16	229 नानईबाई से 244 रेवा रविन्द्र		
17	गोराडिया	17	245 मेजला से 259/1 गीताबाई		
18	गोराडिया	18	260 मांगीबाई से 279 अनिता राजु		
19	गोराडिया	19	282 यासिन खां से 289/5 धर्मेन्द्र		
20	गोराडिया	20	289/6 पारूबाई से 314/2 नीलेश		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ईगरिया	1	1 जंगू से 22 मदन	अ.जा.	1
2	ईगरिया	2	23 नन्दू से 39 आकाश	अ.ज.जा.	8
3	ईगरिया	3	41 गजानन्द से 58 अरविन्द्र	अन्य पिछड़ा वर्ग	2
4	ईगरिया	4	59 नत्थुसिंह से 68 राहुल	अनारक्षित	4
5	ईगरिया	5	69 शेरसिंह से 86 पियूष	महिला अ.जा.	1
6	ईगरिया	6	87 गोपाल से 99 कविताबाई	महिला अ.ज.जा.	4
7	ईगरिया	7	100 भगवान से 120 हिरकुबाई	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	1
8	ईगरिया	8	121 रघुनाथ से 138 सरजुबाई	महिला अनारक्षित	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	ईगरिया	9	139 गोपाल से 185 नीतुबाई		
10	छिल्लीया	10	1 रघुनाथ से 14 रानु		
11	छिल्लीया	11	15 मनोहर से 29 मायाबाई		
12	छिल्लीया	12	30 नन्नीबाई से 45 जितेन्द्र		
13	छिल्लीया	13	46 एजुसी से 56 चांदनी		
14	छिल्लीया	14	57 खेमराज से 73 सुनिताबाई		
15	छिल्लीया	15	75 सुभान से 233 मनीषा		

सारणी

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	ककड़गांव	1	1 ध्रुव गंगाराम से 27 केशव भूरा	अ.जा.	2
2	ककड़गांव	2	28 मधुरालाल से 44 पुनीया किशन	अ.ज.जा.	10
3	ककड़गांव	3	45 पारूबाई से 59 कृष्णा	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4	ककड़गांव	4	60 गजानन्द से 75 कैलाश	अनारक्षित	5
5	ककड़गांव	5	77 हिरदाराम से 99 सालकराम	महिला अ.जा.	1
6	ककड़गांव	6	100 हुकुम से 120 रूखमणी	महिला अ.ज.जा.	5
7	ककड़गांव	7	121 राजेन्द्र से 147 भगवान	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	1
8	ककड़गांव	8	148 रामलाल से 170 मोतीराम	महिला अनारक्षित	3
9	ककड़गांव	9	171/1 मुरली से 185 गेंदीलाल		
10	ककड़गांव	10	187 महेश से 225 तिलोक		
11	रतनपुर	11	1 मुमताज से 11 अजगरअली		
12	रतनपुर	12	12 सब्बीर से 24 गुलामअली		
13	रतनपुर	13	26 कमल अली से 35/1 सकु		
14	सतवाडी	14	1 सलूबाई से 10 लक्ष्मीबाई		
15	सतवाडी	15	11 मोहन से 24 प्यारा		
16	सतवाडी	16	25 क हिरालाल से 34 क महेश		
17	सतवाडी	17	35 रमेश से 49 तोताराम		
18	सतवाडी	18	50 आनन्दराम से 63 रामेश्वर		
19	सतवाडी	19	64 मंशाराम से 84 नन्नु		
20	सतवाडी	20	85 बाबू से 106 बंटी		

सारणी

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	कालधा	1	1 रामलाल से 9 टीपू	अ.जा.	1
2	कालधा	2	10 ठाकुर से 23 हुकूम कडवजी	अ.ज.जा.	7
3	कालधा	3	25 दूर्गाराम से 42 स्वरूपचन्द	अन्य पिछड़ा वर्ग	2
4	कालधा	4	43 देवराम से 49 योगिता	अनारक्षित	3
5	कालधा	5	60 पारूबाई से 74 क तिलोकचन्द	महिला अ.जा.	1
6	कालधा	6	76 देवराम से 90 हरीबालाजी	महिला अ.ज.जा.	4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	कालधा	7	91 गेंदालाल से 108 दयाराम	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	1
8	कालधा	8	109 सेवकराम से 120 तोताराम	महिला अनारक्षित	1
9	कालधा	9	121 बालकराम से 129 दूलीचन्द		
10	कालधा	10	130 भागवतीबाई से 148 गजानन्द		
11	कालधा	11	149 लक्ष्मण टिकाराम से 167 अशोक		
12	कालधा	12	168 किशोर से 188 निर्मला		
13	कालधा	13	190 कचरू से 290 रीना कालु		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कल्याखेडी	1	1 सुमनबाई चम्पालाल से 14 बंशीबाई	अ.जा.	0
2	कल्याखेडी	2	15 नन्सिंह से 30/1 मीराबाई	अ.ज.जा.	17
3	कल्याखेडी	3	32 पार्वतीबाई से 53 सुमनबाई	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
4	कल्याखेडी	4	54 रेशमबाई से 69 मंगतीबाई	अनारक्षित	3
5	कल्याखेडी	5	70 सावन से 84 शितलबाई	महिला अ.जा.	0
6	कल्याखेडी	6	85 फुलबाई से 99 चांदनी	महिला अ.ज.जा.	8
7	कल्याखेडी	7	100 गिलदार से 110 पारो	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
8	कल्याखेडी	8	111 राजाराम से 128/1 सोनू	महिला अनारक्षित	2
9	उमरदड	9	1 हजारि से 10 मौसमीबाई		
10	उमरदड	10	11 कलाबाई से 23 श्यापीबाई		
11	उमरदड	11	24 जिरभान से 38 धर्मेन्द्र		
12	उमरदड	12	39 गीताबाई से 63 वर्षा		
13	मोहनखेडी	13	1 मयाराम से 12 मंशाराम		
14	मोहनखेडी	14	13 ग्यारूबाई से 30 ज्योति		
15	मोहनखेडी	15	31 रजनीबाई से 40 जीवंती		
16	मोहनखेडी	16	41 हमदा से 57/1 सलीम		
17	मोहनखेडी	17	58 अमरसिंह से 69 अशोक		
18	मोहनखेडी	18	71 दयाराम से 87 माया		
19	मोहनखेडी	19	88 देवराम से 107/2 बस्करबाई		
20	मोहनखेडी	20	108 रमेश से 129 नयटीबाई		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कांझर	1	1 कमलसिंह किशोर से 19 लालसिंग	अ.जा.	1
2	कांझर	2	20 कैलाश रघुनाथ से 49 भैयालाल छनदू	अ.ज.जा.	13
3	कांझर	3	50 मंशाराम चम्पालाल से 68 आनन्दराम	अन्य पिछड़ा वर्ग	1
4	कांझर	4	69 रामलाल चम्पालाल से 99 क रामसिंह	अनारक्षित	5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	कांझर	5	100 दूलेसिंह भगवान से 128 भारत	महिला अ.जा.	1
6	कांझर	6	129 नहारसिंह नैनसिंह से 163 जोगीलाल	महिला अ.ज.जा.	7
7	रामपुरा	7	1 संगीता महेश से 30 नन्दकिशोर	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
8	रामपुरा	8	31 मोजीलाल दयाराम से 57 पाण्डू श्यामा	महिला अनारक्षित	2
9	रामपुरा	9	58 भावलिया दल्लू से 91 सोहन भोला		
10	कुण्डिया	10	1 रेमसिंह खुमसिंह से 27 मेहताबसिंह		
11	कुण्डिया	11	28 छतरसिंह छगन से 60 गल्या नहार		
12	बामनडोकरी	12	1 गोरेलाल बालू से 58 सोनारिया छोटू		
13	बाडी	13	1 केशव मांगीलाल से 32 याकूब		
14	बाडी	14	33 शब्बीर रखां फतू से 66 दयालसिंग		
15	बाडी	15	67 भारत मुरार से 104 अनोखीलाल		
16	बाडी	16	105 जसवंत रामसिंह से 136 कनीशाबी		
17	नागझिरी	17	1 नन्दराम चन्दर से 32 हरीकरण छोल्या		
18	नागझिरी	18	33 कन्हैया गडबड से 62 कालु श्यामलाल		
19	हाण्डीकुण्डी	19	1 भावला सालम से 29 नत्थू सोमला		
20	हाण्डीकुण्डी	20	30 वालु केकडिया से 67 क कबलसिंग		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	केदवां	1	1 गेंदालाल से 20 केशलाल	अ.जा.	1
2	केदवां	2	22 फुलचन्द से 35घ देवीलाल	अ.ज.जा.	9
3	केदवां	3	36 राम बहादुर से 51 गजानन्द	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
4	केदवां	4	52 छोगालाल से 65 कालुराम	अनारक्षित	4
5	केदवां	5	66 गेंदालाल से 84 रेवाराम	महिला अ.जा.	1
6	केदवां	6	85 मोहन से 111 प्रकाश	महिला अ.ज.जा.	5
7	केदवां	7	113 रामेश्वर से 130 अनोखीलाल	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
8	केदवां	8	132 जगदीश से 145 रामप्यारीबाई	महिला अनारक्षित	2
9	केदवां	9	146 कडवा से 163 समोतीबाई		
10	केदवां	10	165 कन्हैया से 186 राजु		
11	केदवां	11	187 सोम्मार से 203 रणछोड		
12	केदवां	12	104 सरदार से 223 अंगूर		
13	केदवां	13	224 तखीया से 235 घ औंकार		
14	केदवां	14	236 गेंदाबाई से 259 धन्नालाल		
15	केदवां	15	260 टुकडिया से 274 लालसिंह		
16	केदवां	16	279 जेमा से 293 एराग		
17	केदवां	17	294 नानसिंह से 304 शंकर		
18	केदवां	18	305 जगन से 914 प्रेरणा		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	खेरदा	1	1 तुकाराम भीकाजी से 17 मुजीदखां	अ.जा.	1
2	खेरदा	2	18 मुकीम खां दाउदखां से 35 महिकाल	अ.ज.जा.	13
3	खेरदा	3	36 शोभाराम से 57 दूलीचन्द	अन्य पिछड़ा वर्ग	1
4	खेरदा	4	58 नन्दू शोभाराम से 77 नन्नु	अनारक्षित	5
5	खेरदा	5	78 पंचम बाबू से 97 ताराचन्द	महिला अ.जा.	1
6	खेरदा	6	98 श्याणीबाई पंचम से 119 राधाबाई	महिला अ.ज.जा.	7
7	खेरदा	7	120 दशरथ रूपसिंह से 136 गोविन्द	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
8	खेरदा	8	137 नाजा भाया से 150 हमीर	महिला अनारक्षित	2
9	खेरदा	9	151 देवसुर दाया से 167 लखुबाई		
10	खेरदा	10	168 राधीबाई से 186 देवा अमरा		
11	खेरदा	11	186 पुनमचन्द देवा से 203 बूटासिंह		
12	खेरदा	12	204 सोहुबाई फूलसिंह से 220 नरसिंह		
13	खेरदा	13	220/2 रूपसिंह से 231 गमसिंह		
14	खेरदा	14	232 लाला सामंत से 288 राधीबाई भूरेसिंह		
15	रोशिया	15	1 गेंदुबाई गिरवर से 18 हिम्मत		
16	रोशिया	16	19 लाडकीबाई लक्ष्मण से 35 दलपत		
17	रोशिया	17	36 बाबू गणपत से 50 सुमनबाई		
18	रोशिया	18	51 नवलसिंह तेजसिंह से 62 कमालसिंह		
19	रोशिया	19	63 नवलसिंह बदनसिंह से 81 बापूसिंह		
20	रोशिया	20	82 कमलाबाई भैरसिंह से 100 रमाबाई		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	खुडगांव	1	2 बद्रीप्रसाद से 15 अनोकचन्द	अ.जा.	2
2	खुडगांव	2	20 क तुलसीराम से 41 देवराम	अ.ज.जा.	8
3	खुडगांव	3	42 रेखाबाई से 58 नानुराम	अन्य पिछड़ा वर्ग	2
4	खुडगांव	4	60 राधेश्याम से 80 कन्हैया	अनारक्षित	4
5	खुडगांव	5	82 रामलाल से 102 फतीबाई	महिला अ.जा.	1
6	खुडगांव	6	103 कालीबाई से 122 घ बनारसबाई	महिला अ.ज.जा.	4
7	खुडगांव	7	125 कुसुमबाई से 146 ग चम्पालाल	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	1
8	खुडगांव	8	149 बंशीधर से 178 क रामुबाई	महिला अनारक्षित	2
9	खुडगांव	9	181 नत्थू से 209 शोभाराम		
10	बड़गांव	10	1 शांतिलाल से 21 घ गुलाबबाई		
11	बड़गांव	11	29 शांताबाई से 50क शारदाबाई		
12	बड़गांव	12	51 नानुराम से 67 भूरी बाई		
13	खेडा जागीर	13	2 बाहरय से 25 डोंगरसिंह		
14	शेहनाजपुरा	14	1 गेंदालाल से 25 लीलाबाई		
15	शेहनाजपुरा	15	26 नानसिंह से 46 क रामलाल		
16	शेहनाजपुरा	16	47 कलाबाई से 57 म प्यारा		

सारणी

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	कोदला जागीर	1	1 दिलीप रामचन्द्र से 11 रेशमबाई	अ.जा.	0
2	कोदला जागीर	2	12 छोगालाल गप्पू से 20 कालु छोटिया	अ.ज.जा.	11
3	कोदला जागीर	3	21 चम्पालाल छोटिया से 32 रमेश छितर	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
4	कोदला जागीर	4	32 सुशीलाबाई हरीराम से 38 मंगत्या	अनारक्षित	4
5	कोदला जागीर	5	39 कालु मयाराम से 43 रामसिंह किशोर	महिला अ.जा.	0
6	कोदला जागीर	6	44 जगन्नाथ माधवसिंह से 55 चैनसिंह	महिला अ.ज.जा.	6
7	कोदला जागीर	7	56 बुधिया गंगाराम से 71 किशन कालु	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
8	कोदला जागीर	8	72 अबेसिंह मोतीराम से 80 काशीराम	महिला अनारक्षित	2
9	कोदला जागीर	9	81 शंकर घिसाजी मंगत से 94 रामचन्द्र		
10	कोदला जागीर	10	95 गोपीबाई भगवान से 115 घिसीलाल		
11	कोदला जागीर	11	116 नत्थु दल्लू से 126 राधा		
12	कोदला जागीर	12	128 अनार पुनिया से 142 बावरिया सुरज्या		
13	कोदला जागीर	13	143 रमणीबाई हरेसिंह से 150 मेहताब		
14	कोदला खालसा	14	1 शांता रामचन्द्र से 13 शंकर मंशाराम		
15	कोदला खालसा	15	15 शिवराम मंशाराम से 30 धुपीबाई फाटा		
16	कोदला खालसा	16	31 किशन से 45 भगवान मांगीलाल		
17	कोदला खालसा	17	46 देवेसिंह से 52 क रीछु मडिया		
18	कोदला खालसा	18	52 ख श्यामु केदू से 61 मोहन बनजी		
19	कोदला खालसा	19	63 गोरखीया नेवेसिंह से 75 ओमप्रकाश		

सारणी

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	लालखेडा	1	1 कमलाबाई रामकृष्ण से 17 मोतीराम	अ.जा.	2
2	लालखेडा	2	19 कन्हैया रतन से 31 कलाबाई	अ.ज.जा.	10
3	लालखेडा	3	33 प्रेमलाल से 41घ दयाराम	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4	लालखेडा	4	43 अनोखीलाल से 55 रामदास	अनारक्षित	4
5	लालखेडा	5	56 बसंतीबाई से 69 कलबाई सजन	महिला अ.जा.	1
6	लालखेडा	6	70 मोहम्मद सोएब शेख से 89 रामलाल	महिला अ.ज.जा.	5
7	लालखेडा	7	90 मयाराम खुशीलाल से 104 हुकूम	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
8	लालखेडा	8	105 कडवा नत्थुलाल से 116 बलीराम	महिला अनारक्षित	2
9	लालखेडा	9	117 रूपजी माधव से 132 पार्वती दयाराम		
10	लालखेडा	10	133 द्वारकाबाई रामदास से 152 क मेहबूब		
11	लालखेडा	11	152 ख मोहम्मद सिकंदर से 166 क		
12	लालखेडा	12	168 नत्थु शंभू से 177 शौभाराम		
13	लालखेडा	13	178 क मोहन से 193 अनोखीलाल		
14	लालखेडा	14	194 अमिनाबाई सिकंदर से 212 वसूबाई		
15	लालखेडा	15	213 सलूबाई दौला से 232 हरी झण्डू		
16	लालखेडा	16	234 ईलारीबाई झण्डु से 251 रामुबाई		
17	लालखेडा	17	253 पूनमचन्द राजाराम से 226 बावरा		
18	लालखेडा	18	268 दूरपताबाई बाबूलाल से 287 मोहन		
19	लालखेडा	19	293 टुटीबाई कुवरबाई से 358 रमेश		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	मछलगांव	1	1 जगदिश से 20 औंकार	अ.जा.	2
2	मछलगांव	2	21 लच्छु से 40 डाकुर	अ.ज.जा.	9
3	मछलगांव	3	42 दयाराम से 67 कमल	अन्य पिछड़ा वर्ग	2
4	मछलगांव	4	68 सावित्रीबाई से 89 भुवानी शंकर	अनारक्षित	4
5	मछलगांव	5	90 दयाराम से 111 राकेश	महिला अ.जा.	1
6	मछलगांव	6	112 रूखमणीबाई से 133 कपूरचंद	महिला अ.ज.जा.	5
7	मछलगांव	7	134 बुधीया से 149 अमर	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	1
8	मछलगांव	8	150 पाण्डु से 170 विनोद	महिला अनारक्षित	2
9	मछलगांव	9	171 मंगत से 190 दिनेश		
10	मछलगांव	10	191 छगन से 213 मोहन		
11	मछलगांव	11	214 गंगाराम से 238 संतोष		
12	मछलगांव	12	240 नानकराम से 253 दिनेश		
13	मछलगांव	13	254 मदनलाल से 274 रामदास		
14	मछलगांव	14	275 हुकुम से 290 अरूण		
15	मछलगांव	15	292 संजय से 308 नन्दू		
16	मछलगांव	16	309 राधेश्याम से 335 शंकर		
17	मछलगांव	17	336 कपूरसिंह से 359 कड़वा		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नरगांव	1	1 सजनसिंह से 14/2 भीमसिंह	अ.जा.	0
2	नरगांव	2	15/1 नारायण से 35 भाईराम	अ.ज.जा.	7
3	नरगांव	3	36 दगडीबाई से 64 नक्सीबाई	अन्य पिछड़ा वर्ग	2
4	नरगांव	4	67 श्यामुबाई से 85 बनारसीबाई	अनारक्षित	3
5	नरगांव	5	86 इन्दरसिंह से 100 अनुसया	महिला अ.जा.	0
6	नरगांव	6	101 कौशल्याबाई से 121 भापड़ीबाई	महिला अ.ज.जा.	4
7	नरगांव	7	122 मीराबाई से 134 कल्लु टन्टु	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	1
8	नरगांव	8	135 किशोरीचन्द से 161 श्रीनिवास	महिला अनारक्षित	1
9	नरगांव	9	162 राजकुमार से 185 अंतर चैना		
10	नरगांव	10	186 गन्तु चैना से 212 राधेश्याम		
11	नरगांव	11	213 रामईबाई से 230 लाड़कीबाई		
12	नरगांव	12	231 गोविंद दयाराम से 255 नकुल		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	निमोनी	1	1 प्रताप जोगड़िया से 9 लक्ष्मण	अ.जा.	2
2	निमोनी	2	10 तेसराम से 17 चैनसिंह भीमसिंह	अ.ज.जा.	17
3	निमोनी	3	18 सेंदाबाई से 25 मुन्नालाल जुवानसिंह	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
4	निमोनी	4	26 डेडु जवानसिंह से 34 जतन धुधरिया	अनारक्षित	1
5	निमोनी	5	36 रामसिंह भोंगडा से 47 धनसिंह सडु	महिला अ.जा.	1
6	निमोनी	6	48 अंतुबाई से 56 प्रेमसिंह चन्दरिया	महिला अ.ज.जा.	9
7	निमोनी	7	58 रतन चंदरिया से 70 सुंभान फटलिया	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
8	निमोनी	8	71 चमारिया से 81 जामसिंह जुखला	महिला अनारक्षित	0
9	निमोनी	9	82 मुशा खुमसिंह से 92 जिरिया भुरा		
10	निमोनी	10	93 हरलाल भुरा से 105 अनोपसिंह		
11	निमोनी	11	106 वेस्ता रिछु से 119 प्रेमसिंह गुलसिंह		
12	निमोनी	12	120 जमसिंह गमरसिंह से 129 प्रेमसिंह		
13	बिजासनी	13	1 अमरसिंह रिछु से 17 हिरालाल नुरा		
14	बिजासनी	14	18 मलकीबाई भुवान से 31 तेरसिंह		
15	बिजासनी	15	32 लालसिंह रिछु से 45 खेमा धन्ना		
16	बिजासनी	16	46 माधव धन्ना से 55 अनारसिंह		
17	बिजासनी	17	56 कलसिंह पातलिया से 79 किशोर		
18	साला	18	1 नक्सीबाई धना से 20 राधेश्याम भारत		
19	साला	19	21 मानसिंह रामा से 39 बिजन धन्नालाल		
20	साला	20	40 हिरालाल मोतीराम से 65 लटुबाई		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नुरियाखेडी	1	1 मिश्रीलाल से 21 नहारू देवराम	अ.जा.	0
2	नुरियाखेडी	2	22 तिलोकचंद भारतसिंह से 42 अमरसिंह	अ.ज.जा.	9
3	नुरियाखेडी	3	44 दददूसिंह बल्लसिंह से 62 वासुदेव	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
4	नुरियाखेडी	4	63 चम्पाबाई पर्वतसिंह से 77 बाबूसिंह	अनारक्षित	3
5	नुरियाखेडी	5	78 कलाबाई जसंवत से 92 भगवतीबाई	महिला अ.जा.	0
6	नुरियाखेडी	6	93 बाघसिंह दलपतसिंह से 106 शेरसिंह	महिला अ.ज.जा.	5
7	नुरियाखेडी	7	107 उधवसिंह से 120 से कमलाबाई	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
8	नुरियाखेडी	8	123 कैलाशसिंह मांगीलालसे छायाबाई	महिला अनारक्षित	1
9	महेत्याखेडी	9	1 मनोहर बूधन से 15 कमल सबल		
10	महेत्याखेडी	10	16 रकेश टिकाराम से 34 महावीर		
11	महेत्याखेडी	11	35 रूखडु सुखिया से 51 देवकीबाई		
12	महेत्याखेडी	12	52 चम्पालाल से 71 गिरधारीलाल		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	पाडल्या ग.	1	1 सजन दगडिया से 9 ग गोकुल हारी	अ.जा.	1
2	पाडल्या ग.	2	10 डोंगरसिंह से 24 बोंदर टुकडिया	अ.ज.जा.	10
3	पाडल्या ग.	3	25 अनारसिंह से 36 ख बेनीराम	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
4	पाडल्या ग.	4	37 दूजीबाई से 48 अर्जून मंशाराम	अनारक्षित	4
5	पाडल्या ग.	5	49 भागीरथ से 60 रविन्द्र	महिला अ.जा.	1
6	पाडल्या ग.	6	61 करतार से 72 कविता	महिला अ.ज.जा.	5
7	पाडल्या ग.	7	73 देवकीबाई से 86 धनकौरबाई	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
8	पाडल्या ग.	8	87 श्याणीबाई से 105 ममता बाई	महिला अनारक्षित	2
9	पाडल्या ग.	9	106 बंशीबाई से 117 तुलसीराम		
10	पाडल्या ग.	10	118 लाडकीबाई 134 मुकेश पटेल		
11	पाडल्या ग.	11	135 अमरबाई से 148 कलाबाई यादव		
12	पाडल्या ग.	12	150 मोताबाई से 164 सपना		
13	पाडल्या ग.	13	165 गुलाबबाई से 176/2 सतनाबाई		
14	पाडल्या ग.	14	178 क कमल से 195 ख मोहन गेंदालाल		
15	पाडल्या ग.	15	196 पिंकी से 208 छायाबाई रूपसिंह		
16	पाडल्या ग.	16	211 नानसिंह से 219 सीमा जितेन्द्र		
17	पाडल्या ग.	17	220 फुन्दाबाई से 224 मंगलीबाई		
18	पाडल्या ग.	18	225 छगन से 316 निहालसिंह		
19	घोघनाथ	19	1 देवकीबाई से 10/15 पिंटू रामलाल		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	पाडल्या बाबाजी	1	1 शालु बलीराम से 16 ज्योति तुकाराम	अ.जा.	2
2	पाडल्या बाबाजी	2	17 भूरी मंशाराम से 31 शितल दारासिंह	अ.ज.जा.	8
3	पाडल्या बाबाजी	3	32 गुलाबचन्द से 44 संगीता कैलाश	अन्य पिछड़ा वर्ग	2
4	पाडल्या बाबाजी	4	45 सुरेश झबर से 62 शिला चंपालाल	अनारक्षित	3
5	पाडल्या बाबाजी	5	63 लट्टु से 77 डोंगरसिंह देवीसिंह	महिला अ.जा.	1
6	पाडल्या बाबाजी	6	78 दशरथ बारकी से 87 कमल	महिला अ.ज.जा.	4
7	पाडल्या बाबाजी	7	88 धनसिंह गणपत से 104 गेंदा शिवराम	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	1
8	केशवपुरा	8	1 मांगीलाल गबरू से 8 ललीता दयाराम	महिला अनारक्षित	2
9	खोलवा	9	1 इरफान लुकमान से 14 जैतुनबी		
10	खोलवा	10	15 नब्बू खां से 28/1 वाजित हमीद		
11	खोलवा	11	29 तार्ईर खां से 41 जफर खां मौलान		
12	खोलवा	12	43 समसु खां से 51 शायद हुसैन		
13	खोलवा	13	52 एहमद खां से 64 मेहबान इशाक		
14	खोलवा	14	65 हमीद खां से 79 रूखसाना कुरबान		
15	खोलवा	15	80 बनाबी इब्राहिम से 415 हब्बू रफीक		

सारणी

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	पलासी	1	1 देवेसिंह फलु से 12 रूखडु	अ.जा.	1
2	पलासी	2	13 सुकाजी हावसिंग से 26 पुन्नालाल	अ.ज.जा.	14
3	पलासी	3	27 संतोषबाई नन्नु से 56 रमेश भाईराम	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
4	पलासी	4	57 भाईराम नन्नु से 83 रामसिंह मोतेसिंह	अनारक्षित	5
5	पलासी	5	84 दयालसिंह से 97 गडबड नाना	महिला अ.जा.	1
6	पलासी	6	98 कैलाश जगन्नाथ से 122 पागलीबाई	महिला अ.ज.जा.	7
7	पलासी	7	123 सिंगा रूसनिया से 133/4 रामलाल	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
8	पलासी	8	135/5 श्यामलाल से 146 ग्यारसीबाई	महिला अनारक्षित	2
9	पलासी	9	147 रूमालसिंह से 161 खुमानसिंह		
10	चिकलवास	10	1 शिवराम वाला से 16 सुरज शेरसिंह		
11	चिकलवास	11	17 भगवान रामसिंह से 35 बनसिंह		
12	चिकलवास	12	36 कांता प्रसाद से 52 लालसिंह भैरू		
13	चिकलवास	13	55 ग्यानुबाई किशोर से 74 भाईराम		
14	चिकलवास	14	76 नत्थु कालु से 96 सिगदार जयराम		
15	चिकलवास	15	97 कडवा जयराम से 114 रघुनाथ		
16	चिकलवास	16	115 शिवराम बिसन से 131 छगन		
17	चिकलवास	17	131 क बदा छगन से 144 लालसिंह		
18	चिकलवास	18	145 भूरीबाई नाकु से 162 भुवानसिंह		
19	चिकलवास	19	164 रतन भंगडा से 184 मालसिंह लटू		
20	चिकलवास	20	185 सातलीबाई चमारिया से 200 भिकली		

सारणी

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	पत्थरवाडा	1	1 बनीबाई से 28 भोंगडा	अ.जा.	1
2	पत्थरवाडा	2	29 नहारसिंह से 42 अनसिंह	अ.ज.जा.	16
3	पत्थरवाडा	3	43 बुधीबाई से 58 भारत	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
4	पत्थरवाडा	4	59 रूपसिंह से 80 नवलसिंह	अनारक्षित	0
5	पत्थरवाडा	5	81 धनसिंह से 96 गुलसिंह	महिला अ.जा.	1
6	पत्थरवाडा	6	97 फूलसिंह से 105 गेंदाबाई	महिला अ.ज.जा.	8
7	पत्थरवाडा	7	110 ध्यानसिंह से 121 रामसिंह	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
8	पत्थरवाडा	8	123 पेसनिया से 138/2 रामसिंग	महिला अनारक्षित	0
9	पत्थरवाडा	9	139 सुकमा से 161 राल्या		
10	पत्थरवाडा	10	162 राधु से 179 सखाराम		
11	पत्थरवाडा	11	180 चूरी से 195 नहाला		
12	पत्थरवाडा	12	198 रेमसिंह से 208 सुरपाल		
13	पत्थरवाडा	13	210 रामा से 219 राधु		
14	बसंतपुरा	14	1 रेमसिंह से 14 रमेश		
15	बसंतपुरा	15	16 बगला से 28 क जामसिंह		
16	बसंतपुरा	16	29 सुखलाल से 41 चैनसिंह		
17	बसंतपुरा	17	43 पहाडसिंग से 70 सोनीबाई		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	पोई	1	1 तेजु गुलाब से 15 श्रीराम गंगाराम	अ.जा.	0
2	पोई	2	16 रूकमणी से 27 रेवाराम गंगाराम	अ.ज.जा.	15
3	पोई	3	28 गीता भग्या से 46 किशोर	अन्य पि. वर्ग	0
4	पोई	4	47 रणछोड शंकर से 56 संजय तिलोक	अनारक्षित	5
5	पोई	5	57 दयलुबाई से 65 प्रेमलाल रेवल्या	महिला अ.जा.	0
6	पोई	6	66 चुन्नीलाल से 74 फुलसिंग	महिला अ.ज.जा.	8
7	पोई	7	75 रामा से 86 दरबार	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	पोई	8	87 बहादुर से 101 सरदार	महिला अनारक्षित	2
9	ललनी	9	1 विट्टल से 17 हरचंद		
10	ललनी	10	18 सेवकराम से 50 पुनमचंद		
11	ललनी	11	51 पुरणबाई से 73 काल्या		
12	ललनी	12	74 तेजल से 93 संतोष		
13	ललनी	13	94 रामकुवर से 109 सुका		
14	ललनी	14	110 भजन से 361 अमोती		
15	सोनवाडा	15	1 बुध्या से 21 सुकलिया		
16	सोनवाडा	16	22 दयाराम से 24 जगन		
17	सोनवाडा	17	45 जवानसिंग से 64 नीला		
18	सोनवाडा	18	65 राधेश्याम से 81 राजाराम		
19	सोनवाडा	19	82 भगवान से 103 नन्दू		
20	सोनवाडा	20	104 रामलाल से 310 धनुबाई		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	पोखर बुजुर्ग	1	1 विरेन्द्र से 13 कालू	अ.जा.	1
2	पोखर बुजुर्ग	2	15 चन्दबाई से 34 दौलतबाई	अ.ज.जा.	11
3	पोखर बुजुर्ग	3	36 सरदारसिंह से 54 बाबूसिंह	अन्य पि. वर्ग	3
4	पोखर बुजुर्ग	4	58 लोभेसिंग से 73 दशरथसिंह	अनारक्षित	5
5	पोखर बुजुर्ग	5	74 रामसिंह से 91 जसवंतसिंह	महिला अ.जा.	1
6	पोखर बुजुर्ग	6	92 सरदारसिंह से 111 तुकाराम	महिला अ.ज.जा.	6
7	पोखर बुजुर्ग	7	112 स्याणीबाई से 140 सुन्दरबाई	महिला अन्य पि. वर्ग	1
8	पोखर बुजुर्ग	8	142 नीलाबाई से 159 नटवरसिंह	महिला अनारक्षित	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	पोखर बुजुर्ग	9	160 बाबूसिंह से 176 कल्याण		
10	पोखर बुजुर्ग	10	177 रमेश से 202 रामदास		
11	पोखर बुजुर्ग	11	203 रूमसिंह से 216 नहारसिंह		
12	ऊंटखेडा	12	1 अनिताबाई से 13 बदीबाई		
13	ऊंटखेडा	13	14 भुवानसिंह से 20 नटडिया		
14	ऊंटखेडा	14	21 टेडू से 32 रणसिंह		
15	भोपातपुरा	15	1 ओंकार से 10 सागरीबाई		
16	भोपातपुरा	16	11 सुरपाल से 21 गुलाबसिंह		
17	भोपातपुरा	17	22 कालीबाई से 32 मढिया		
18	पालडी	18	1 मनसिंह से 06 बच्चू		
19	पालडी	19	7 रम्भा से 17 जानकी		
20	पालडी	20	18 लाडकीबाई से 309क लालसिंह		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	पोखर खुर्द	1	1 शोभाराम होल्या से 10 अजय चम्पालाल	अ.जा.	0
2	पोखर खुर्द	2	11 रेवाराम कालू से 27 माया कालू	अ.ज.जा.	18
3	पोखर खुर्द	3	28 जसवंत शिवराम से 43 रेशम चम्पालाल	अन्य पि. वर्ग	0
4	पोखर खुर्द	4	44 भुवानसिंह नानका से 57 लवकुश रेमा	अनारक्षित	1
5	पोखर खुर्द	5	58 विश्राम गुलाब से 63 मेहताब थानसिंह	महिला अ.जा.	0
6	पोखर खुर्द	6	66 जानकी मुन्ना से 71 रेखाबाई रायसिंह	महिला अ.ज.जा.	9
7	पोखर खुर्द	7	72 अनार भावसिंह से 80 बारकी विश्राम	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	पोखर खुर्द	8	81 तिता दवलसिंह से 92 सीमा कनसिंह	महिला अनारक्षित	1
9	पोखर खुर्द	9	93 भारत तिताराम से 99 हिरा सुरेश		
10	पोखर खुर्द	10	100 कनु काका से 116 शोभाराम मेहताब		
11	आखापुरा	11	1 माधव खुमसिंह से 10 दिनेश		
12	आखापुरा	12	11 बिलेरसिंह माचरिया से 26 रितु दिनेश		
13	आखापुरा	13	27 शंकर भोल्या से 45 शिवकन्या मुन्ना		
14	आखापुरा	14	46 प्यारसिंह से 57 रेशम कैलाश		
15	आखापुरा	15	58 टेटिया लुधिया से 73 रामसिंह		
16	आखापुरा	16	74 शंकर डुन्डा से 82 थानसिंह		
17	आखापुरा	17	83 सायबा सदिया से 93 रेशम फकरा		
18	आखापुरा	18	94 डेडू कनसिंह से 105 ममता गुलाबसिंह		
19	आखापुरा	19	106 सायबा रेमसिंह से 134 रेखा लालू		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
1	पोखराबाद	1	1 इंदर से 12 सतीष	अ.जा.	0
2	पोखराबाद	2	13 उमराव से 32 गोदावरीबाई	अ.ज.जा.	8
3	पोखराबाद	3	33 मैनाबाई से 54 अर्जुन	अन्य पि. वर्ग	4
4	पोखराबाद	4	55 सुरज्या से 69 श्रवण रोडिया	अनारक्षित	3
5	पोखराबाद	5	70 नीलाबाई से 80 मुकेश अंतर	महिला अ.जा.	0
6	पोखराबाद	6	81 श्रवण लालू से 95 उमराव बजेसिंह	महिला अ.ज.जा.	4
7	पोखराबाद	7	96 नारायण छज्जु से 113 विक्रम उमराव	महिला अन्य पि. वर्ग	2
8	पोखराबाद	8	114 टोगी मेवालाल से 135 मोरसिंह	महिला अनारक्षित	2
9	पोखराबाद	9	136 रामसिंह से 153 जगदीश बालू		
10	पोखराबाद	10	154 राजु रणछोड से 167 अर्जुन		
11	पोखराबाद	11	168 इंदर से 189 रघुनाथ		
12	पोखराबाद	12	190 नन्या से 215 मंशाराम नन्दराम		
13	पोखराबाद	13	218 बोंदरबाई से 234 जगदीश शंकर		
14	पोखराबाद	14	235 मोहन तोताराम से 257 भावला		
15	पोखराबाद	15	258 बना दलसिंह से 298 इंदरसिंह		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
1	रामपुरा	1	2 शोभाराम से 16 शिवराम	अ.जा.	1
2	रामपुरा	2	17 मंशाराम से 31 नीलाबाई	अ.ज.जा.	12
3	रामपुरा	3	33 रनुबाई से 45 गजरात	अन्य पि. वर्ग	0
4	रामपुरा	4	46 अनारबाई से 59 धनसिंह	अनारक्षित	3
5	रामपुरा	5	60 उमेनसिंह से 72 जसवंत	महिला अ.जा.	1
6	रामपुरा	6	73 नारायण से 79 प्रेमसिंह	महिला अ.ज.जा.	6
7	रामपुरा	7	90 जीवन से 106 अंतरसिंह	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	रामपुरा	8	107 बरजोर से 117 दिलावर	महिला अनारक्षित	1
9	रामपुरा	9	118 घिसीराम से 134 दयाबाई		
10	रामपुरा	10	135 नन्दराम से 149 नहालू		
11	सोमला	11	1 हुकुमसिंह से 18 प्रेमसिंह		
12	सोमला	12	9 जयपाल से 22 खुमानसिंह		
13	सोमला	13	23 सेतुलबाई से 39 सुमेरसिंह		
14	सोमला	14	41 कडवा से 54 अनोखीबाई		
15	सोमला	15	55 जशोदाबाई से 70 लक्ष्मण		
16	सोमला	16	71 छितर से 87 दिनेशचन्द्र		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	रेहगांव	1	1 रामकुवर से 22/ग आशोक	अ.जा.	2
2	रेहगांव	2	23 गेंदर नत्थू से 43 गीता महादेव	अ.ज.जा.	10
3	रेहगांव	3	44 रमी शिवराम से 63 कुन्ती सुन्दरलाल	अन्य पि. वर्ग	3
4	रेहगांव	4	64 लोभौराम से 82 दुर्गा राधेश्याम	अनारक्षित	4
5	रेहगांव	5	83 मीठाराम रामा से 97 सकु कैलाश	महिला अ.जा.	1
6	रेहगांव	6	98 गोपीकिशन से 112 शंकरलाल	महिला अ.ज.जा.	5
7	रेहगांव	7	113 सीताराम दयाराम से 126 मांगीलाल	महिला अन्य पि. वर्ग	2
8	रेहगांव	8	127 गोविन्द से 139 रामचन्द्र बाबूलाल	महिला अनारक्षित	2
9	रेहगांव	9	142 खण्डू भोलू से 155 देवराम बाड		
10	रेहगांव	10	156 द्वारकी बाड से 174 भगवान नारायण		
11	रेहगांव	11	175 मंगती नारायण से 194 शिव गोपाल		
12	रेहगांव	12	195 घिसी से 207 गंगाराम सीताराम		
13	रेहगांव	13	208 बिरोज से 227 रमेश सीताराम		
14	रेहगांव	14	235 चम्पालाल से 254 कालू चिन्ताराम		
15	रेहगांव	15	255 नन्नु शंकर से 272 शिवराम अमरा		
16	रेहगांव	16	273 फुंदा गंगाराम से 295 गुलाबचंद		
17	रेहगांव	17	296 लाला छगन से 320 पुरुषोत्तम फत्थू		
18	रेहगांव	18	321 दिनेश बालकृष्ण से 345 बुध्या गोविन्द		
19	रेहगांव	19	346 सकु धनिया से 367 घिसी सुकलाल		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	रोडिया	1	1 छोगालाल से 14 संतोष	अ.जा.	1
2	रोडिया	2	15 फुंदा से 28 बालाराम	अ.ज.जा.	10
3	रोडिया	3	28/1 बसंतीबाई से 42/1 भलाजी	अन्य पि. वर्ग	2
4	रोडिया	4	44 स्याणीबाई से 55 कमलसिंह	अनारक्षित	3
5	रोडिया	5	57 तोताराम से 70 बानोबाई	महिला अ.जा.	1
6	रोडिया	6	71 सतोतीबाई से 83/1 गणेश	महिला अ.ज.जा.	5
7	रोडिया	7	87 ईस्माईखा से 102 मोहन	महिला अन्य पि. वर्ग	1
8	रोडिया	8	103 सोनाबाई से 124 सुशीला बाई	महिला अनारक्षित	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	रोडिया	9	128 द्वारकीबाई से 154 नानकराम		
10	रोडिया	10	155 सनवरखा से 165 जलाल		
11	रोडिया	11	166 मदन से 192 ठाकुर		
12	रोडिया	12	193 जातीबाई से 208 गमलसिंह		
13	रोडिया	13	208/1 नवसीबाई से 222/1 तुकाराम		
14	रोडिया	14	223 कालूसिंह से 239 रामसिंह		
15	रोडिया	15	240 सीताराम से 250 मंशाराम		
16	रोडिया	16	252 सुकीबाई से 261 नवीनप्रसाद		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सगुर	1	1 रामकुमारी से 29 पन्नालाल	अ.जा.	2
2	सगुर	2	30 मदुसुधन से 51 चम्पालाल	अ.ज.जा.	10
3	सगुर	3	52 सीताराम से 71 छोगालाल	अन्य पि. वर्ग	3
4	सगुर	4	72 रणसिंह से 104 कमला	अनारक्षित	5
5	सगुर	5	106 कुसुम से 128 गंगाराम	महिला अ.जा.	1
6	सगुर	6	130 शिवराम से 157 घिसी	महिला अ.ज.जा.	5
7	सगुर	7	158 शिवराम से 185 चम्पालाल	महिला अन्य पि. वर्ग	1
8	सगुर	8	186 कुसुम से 221 धन्नालाल	महिला अनारक्षित	3
9	सगुर	9	121/1 बलीराम से 231 कमल		
10	सगुर	10	232 बसंत से 260 पूर्णानन्द		
11	सगुर	11	261 हिरालाल से 298 छब्बू		
12	सगुर	12	299 आनन्दराम से 338 मालसिंह		
13	भगुर	13	1 दशरथ से 35 अ पन्नालाल		
14	पिपरी	14	1 पण्डरी से 23 सकुबाई		
15	पिपरी	15	24 गंगाराम से 38 धनुबाई		
16	पिपरी	16	39/1 हुकुमचंद से 52 कडवी मोतीराम		
17	पिपरी	17	53 कडवा से 69 दिनेश		
18	पिपरी	18	70/1 कमला से 89/1 किशन		
19	पिपरी	19	89/2 कमल से 135/10 संतोष		
20	पिपरी	20	135/11 कृष्णलाल से 138 रामचन्द्र		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	साईंखेडी	1	1 चमेली तापीराम से 27 नरेन्द्र मीठाराम	अ.जा.	1
2	साईंखेडी	2	28 कडवीबाई से 62/3 धीरज सीताराम	अ.ज.जा.	10
3	साईंखेडी	3	63 गणेश शंकर से 96 दिगम्बर	अन्य पि. वर्ग	4
4	साईंखेडी	4	98 छितर मोहन से 113 अनुपम ताराचंद	अनारक्षित	5
5	साईंखेडी	5	114 रुखमाबाई से 136 प्रकाश भावसार	महिला अ.जा.	1
6	साईंखेडी	6	139 गणू शिवजी से 158 हंसा तुलसीराम	महिला अ.ज.जा.	5
7	साईंखेडी	7	159 बिरोज नन्दू से 177 आनन्दा नत्थू	महिला अन्य पि. वर्ग	2
8	साईंखेडी	8	178 हिरालाल से 202 संजय श्रीराम	महिला अनारक्षित	2
9	साईंखेडी	9	203/1 दयाराम से 224 संगीता		
10	साईंखेडी	10	225 मांगीलाल से 247 जयश्री कैलाश		
11	साईंखेडी	11	248 राधेश्याम से 270 सचिन दिनेश		
12	साईंखेडी	12	271 अजोदया से 293 रवि कस्तुर		
13	साईंखेडी	13	295 अमान से 313 कला परसराम		
14	साईंखेडी	14	316 शंकर गोविन्द से 339 रेखा गोलेश		
15	साईंखेडी	15	340 विनय से 354/1 समोती मंशाराम		
16	साईंखेडी	16	355 सुगना प्रेमलाल से 375 लोमेश		
17	साईंखेडी	17	378 राधेश्याम से 404 सारिका योगिन		
18	साईंखेडी	18	405 कावेरी से 434/2 माखन जगन		
19	साईंखेडी	19	435 कैलाश रूखडू से 464/1 कैलाश		
20	साईंखेडी	20	465 जगदीश से 481 विनयकुमार		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सांगवी	1	1 नहारसिंह से 13 इडलिया	अ.जा.	0
2	सांगवी	2	16 घिस्या से 27 ममता	अ.ज.जा.	19
3	सांगवी	3	28 छगन से 35 लीलाबाई	अन्य पि. वर्ग	0
4	सांगवी	4	37 भावसिंह से 46 पिंकी	अनारक्षित	0
5	सांगवी	5	47 प्रताप से 63 दिनेश	महिला अ.जा.	0
6	सांगवी	6	64 रामसिंह से 76 गुमानसिंह	महिला अ.ज.जा.	10
7	सांगवी	7	77 भीमसिंह से 87 कालीबाई	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	सांगवी	8	88 प्यारसिंह से 97 सुरलीबाई	महिला अनारक्षित	0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	सांगवी	9	98 मसरीबाई से 108 ममताबाई		
10	सांगवी	10	109 चन्दरीबाई से 123 गोविन्द		
11	सांगवी	11	123/ख जवानसिंह से 131 चन्दा		
12	सांगवी	12	133 दर्जी से 142 बिनबाई		
13	सांगवी	13	143 रालु से 152 पानुबाई		
14	सांगवी	14	153 सुभाष से 163क अम्बाराम		
15	सांगवी	15	164 सकाराम से 177क अनिता		
16	सांगवी	16	178 खुमसिंह से 192 सागरबाई		
17	ढाकबैडी	17	1 थानसिंह से 19 मेदलीबाई		
18	ढाकबैडी	18	19क पप्पु से 33/1 सोनूबाई		
19	ढाकबैडी	19	37 जवानसिंह से 60 सोनू		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम का नाम	वाडों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वाडों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सतवाडा	1	1 गीलदार से 16 सपना	अ.जा.	1
2	सतवाडा	2	17 पन्नालाल से 36/2 ताराबाई	अ.ज.जा.	8
3	सतवाडा	3	37 सागरबाई से 58 ईलाबाई	अन्य पि. वर्ग	3
4	सतवाडा	4	59 सरदार से 78 प्रमीला	अनारक्षित	4
5	सतवाडा	5	79 दिनेश से 100 प्रकाश	महिला अ.जा.	1
6	सतवाडा	6	101 भाईसिंग से 124 महेश	महिला अ.ज.जा.	4
7	सतवाडा	7	125 सेठाणीबाई से 141 रेखाबाई	महिला अन्य पि. वर्ग	1
8	सतवाडा	8	142 रेखासिंह से 163 रीना	महिला अनारक्षित	2
9	सतवाडा	9	164 कालू से 179 कलुबाई		
10	सतवाडा	10	181 झापडीबाई से 198 गौराबाई		
11	सतवाडा	11	199 रतन से 213 जितेन्द्र		
12	सतवाडा	12	214 नन्दलाल से 232 नाजोबाई		
13	सतवाडा	13	234 मीराबाई से 248 सुमत		
14	सतवाडा	14	249 बमनीबाई से 262 कविता		
15	सतवाडा	15	265 चम्पाबाई से 277 पप्पी		
16	सतवाडा	16	278 विजय से 309 पन्नालाल		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सेल्दा	1	1 सोबरतसिंह से 45 लथीबाई	अ.जा.	2
2	सेल्दा	2	46 मथरालाल से 75 लक्ष्मण	अ.ज.जा.	10
3	सेल्दा	3	76 आशाराम से 107 शोभाराम	अन्य पि. वर्ग	3
4	सेल्दा	4	108 राजकुवर से 148 मंशाराम	अनारक्षित	5
5	सेल्दा	5	149 मयाराम से 185 नारायण	महिला अ.जा.	1
6	सेल्दा	6	188 दगडू से 216 द्वारकीबाई	महिला अ.ज.जा.	5
7	सेल्दा	7	217 दयालू से 247 लक्ष्मण	महिला अन्य पि. वर्ग	1
8	सेल्दा	8	249 किशन से 227 रेवाराम	महिला अनारक्षित	3
9	सेल्दा	9	278 केशर से 308 हरीराम		
10	सेल्दा	10	309 पण्डरी से 350/1 बसंती		
11	सेल्दा	11	351 निर्मल कुमार से 384 संतोष		
12	सेल्दा	12	385 गणपत से 422 घीसीबाई		
13	सेल्दा	13	423 मिसरबाई से 463 गटू		
14	सेल्दा	14	464 बट्टीनारायण से 512 शिवकोर		
15	सेल्दा	15	513 पूजा से 607 तुलसीराम		
16	शकरखेडी	16	1 गेंदालाल से 25 जयराम		
17	शकरखेडी	17	30 लक्ष्मीनारायण से 40 नानकराम		
18	शकरखेडी	18	44 रामलाल से 67 ऐडिया		
19	शकरखेडी	19	68 रामकुवर से 139 कृष्णलाल		
20	दगड़खेड़ी	20	1 फुटीबाई से 19 तापीराम		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	शकरगांव	1	1 महेश से 14 अनोकचंद	अ.जा.	4
2	शकरगांव	2	15 दिनेश से 45 टनू सिंह	अ.ज.जा.	10
3	शकरगांव	3	46 कमलसिंह से 64 संतोष मीणा	अन्य पि. वर्ग	1
4	शकरगांव	4	65 जगदीश मीणा से 82 रामालाल	अनारक्षित	5
5	शकरगांव	5	83 स्यामु से 105 हबला	महिला अ.जा.	2
6	शकरगांव	6	107 देवीसिंह से 129 सदाशिव	महिला अ.ज.जा.	5
7	शकरगांव	7	131 कपूरचंद से 150 लखन	महिला अन्य पि. वर्ग	1
8	शकरगांव	8	152 राजू से 167/1 मुन्ना	महिला अनारक्षित	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	शकरगांव	9	169 गुलाबचंद से 181/2 भीलू		
10	शकरगांव	10	181/3 देवराम से 193 माणकचंद		
11	शकरगांव	11	197 मोतीराम से 227 पुनमचंद		
12	शकरगांव	12	228 मुन्नु से 254 अशोक		
13	शकरगांव	13	256 छितर से 296/ख रमेश		
14	मालखेड़ा	14	1 विक्रम से 15 रमेश		
15	मालखेड़ा	15	16 धनसिंह से 29 कालूसिंह		
16	मालखेड़ा	16	30 मंशाराम से 43 जयजयराम		
17	मालखेड़ा	17	45 अनारसिंह से 61 राधेश्याम		
18	मालखेड़ा	18	62 छगन से 74 लंकेश		
19	मालखेड़ा	19	75 हरेसिंह से 92 राजाराम		
20	मालखेड़ा	20	93 रामलाल से 108 शंकर		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सिराली	1	1 कडवा सीताराम से 16 विक्रमसिंह	अ.जा.	2
2	सिराली	2	17 अमरसिंह से 38 श्रवण	अ.ज.जा.	9
3	सिराली	3	39 हिरुबाई से 56 डाकोरसिंह	अन्य पि. वर्ग	1
4	सिराली	4	57 गंगाराम रूपचंद से 73 तिलोकचंद	अनारक्षित	4
5	सिराली	5	74 तुकाराम से 89 कडवा	महिला अ.जा.	1
6	सिराली	6	90 भैयालाल से 101/4 औंकारसिंह	महिला अ.ज.जा.	5
7	सिराली	7	102 ठाकुर से 128 क राजाराम	महिला अन्य पि. वर्ग	1
8	सिराली	8	129 नत्थू से 141 छोगालाल	महिला अनारक्षित	1
9	सिराली	9	142 बस्करबाई से 157 कन्हैया		
10	सिराली	10	158 टीकाराम से 172 झुरमुलबाई		
11	सिराली	11	173 रामलाल से 186 बलीराम		
12	सिराली	12	187 संतोषबाई से 210 कमलेश		
13	नवलपुरा	13	1 जगदेवसिंह से 12 अनारसिंह		
14	नवलपुरा	14	13 अनारबाई से 29 कडवा नन्नु		
15	नवलपुरा	15	30 शांताबाई से 41 जसवंतसिंह		
16	नवलपुरा	16	42 मदन से 66 सालकगराम		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सुन्देल	1	1 सोहनलाल मोतीलाल से 33 श्रीराम	अ.जा.	1
2	सुन्देल	2	35 शंकर टुटा से 61 सबल्या नाग्या	अ.ज.जा.	14
3	सुन्देल	3	61/क सोनीलाल नाग्या से 89 अनार	अन्य पि. वर्ग	0
4	सुन्देल	4	91 गंगाराम फत्थू से 114 भारत रामलाल	अनारक्षित	5
5	सुन्देल	5	115 चम्पू से 130 सीताराम माथाराम	महिला अ.जा.	1
6	सुन्देल	6	131 टीकाराम से 159 हरीराम सखाराम	महिला अ.ज.जा.	7
7	सुन्देल	7	161 नथीबाई पुनाजी से 180 मदन शंकर	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	सुन्देल	8	181 क किशोर से 208/2 केशरबाई	महिला अनारक्षित	2
9	सुन्देल	9	209 चम्पालाल गोविन्द से 229 गोपाल		
10	सुन्देल	10	231 शांताबाई कन्हैया से 257 सुखलाल		
11	सुन्देल	11	258 बरमीबाई से 285 मदन दगडू		
12	सुन्देल	12	286 प्रेमचंद दयाराम से 307 रेवला		
13	सुन्देल	13	308 दशरथ नाना से 376 शांताबाई		
14	सुन्देल	14	315 भारत गुलाब से 330 भूरेलाल बद्री		
15	सुन्देल	15	331 भुवान बद्री से 345 गुलाब कन्हैया		
16	सुन्देल	16	345/1 नुरू से 359/4 सखाराम		
17	सुन्देल	17	359/5 हिरालाल टुटा से 372 रामसिंह		
18	कोडियाखाल	18	1 ध्यानसिंह चमार से 15/1 सोमला		
19	कोडियाखाल	19	16 वेस्तीबाई बुटला से 30क सायमल		
20	कोडियाखाल	20	31 रतन सेकडिया से 45 रामसिंह दरबार		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सुर्वा	1	1 गोपाल से 17 धर्मेन्द्र जगन्नाथ	अ.जा.	2
2	सुर्वा	2	18 नर्मदा से 45 चन्दु शेखर	अ.ज.जा.	9
3	सुर्वा	3	47 घनश्याम से 63 क गणेश	अन्य पि. वर्ग	3
4	सुर्वा	4	68 चिन्ताराम से 88 गजानन्द	अनारक्षित	4
5	सुर्वा	5	89 हुकुमचंद से 110 गुला	महिला अ.जा.	1
6	सुर्वा	6	112 गोकुल से 132 कृष्णलाल	महिला अ.ज.जा.	5
7	सुर्वा	7	133 मथुरालाल से 159 अनोखीलाल	महिला अन्य पि. वर्ग	1
8	सुर्वा	8	159 क सरस्वती से 189 पुन्या	महिला अनारक्षित	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	सुर्वा	9	190 रामकुवर से 207 मोतीराम		
10	सुर्वा	10	208 धनसिंह से 225 नानकराम		
11	सुर्वा	11	226 रामेश्वर से 242 क मंशाराम		
12	सुर्वा	12	243 औंकार से 256 ख मनु मंशाराम		
13	सुर्वा	13	257 नाना कन्हैया से 276 मंगलू		
14	सुर्वा	14	277 पण्डरी झापु से 295 लाडकी		
15	सुर्वा	15	296 चम्पालाल से 313 क रामकरण		
16	दोंदवाडा	16	1 गंगाराम से 11 कन्हैया		
17	दोंदवाडा	17	12 गणपत से 26 सौदान		
18	दोंदवाडा	18	27 जितेन्द्र से 64 शंकर		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सुर्वा कोयडा	1	1 चुन्नीलाल से 12 छजू	अ.जा.	0
2	सुर्वा कोयडा	2	13 नन्दू से 24 रामलाल	अ.ज.जा.	16
3	सुर्वा कोयडा	3	25 बोंदर से 33 कैलाश	अन्य पि. वर्ग	0
4	सुर्वा कोयडा	4	34 अमरसिंह से 45 बाउ	अनारक्षित	3
5	रोयदड	5	1 देवलीबाई से 9 पिदा गादरिया	महिला अ.जा.	0
6	रोयदड	6	10 से लक्ष्मण से 14 अमरसिंह	महिला अ.ज.जा.	8
7	रोयदड	7	17 नानसिंह से 24 पहाडसिंह	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	रोयदड	8	25 दिपला से 38 हुसैन	महिला अनारक्षित	2
9	रोयदड	9	40 रुखमा से 55 गिलदार		
10	रोयदड	10	56 किशन से 66 रामसिंह		
11	रोयदड	11	67 बाबू से 76 खजान		
12	रोयदड	12	77 जादिया से 88 रूखडिया		
13	रोयदड	13	90 चिडिया से 104 ख रामसिंह		
14	रोयदड	14	105 क लालसिंह से 114 गोविन्द		
15	गवतखेडी	15	1 से आला से 16 दिनेश		
16	गवतखेडी	16	17 कविता मीठाराम से 30 झिंगली		
17	गवतखेडी	17	31 समदाबाई से 62 राजेश		
18	मोहनदड	18	1 से बाथू से 15 औंकार		
19	मोहनदड	19	16 सहादर से 32 कैलाश		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	टेमला	1	1 जगदीश से 18/1 मनीषा	अ.जा.	0
2	टेमला	2	19 बोंदरबाई से 32/1 पुना	अ.ज.जा.	8
3	टेमला	3	33 समोतीबाई से 50 राधेश्याम	अन्य पि. वर्ग	3
4	टेमला	4	51 नत्थूलाल से 72 गजानन्द	अनारक्षित	4
5	टेमला	5	73 शिवशंकर से 88 जमनाबाई	महिला अ.जा.	0
6	टेमला	6	88/क किरणबाई से 102 नन्नु	महिला अ.ज.जा.	4
7	टेमला	7	103 बलीराम से 117 शंकर	महिला अन्य पि. वर्ग	2
8	टेमला	8	118 नानीबाई से 131 देवचंद	महिला अनारक्षित	2
9	टेमला	9	132 मांगीलाल से 143 जशोदा		
10	टेमला	10	144 नबुबाई से 160 सागरबाई		
11	टेमला	11	161 खुमानसिंह से 178 प्रहलाद		
12	टेमला	12	180 वेरसिंह से 185क गेंदालाल		
13	जेतगढ	13	1 फत्थरसिंह से 12 गना		
14	जेतगढ	14	12/1 सुरज से 30/5 जगन		
15	पचम्बा	15	31 चमारिया से 44 गोरेलाल		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	उमरिया	1	2 फत्तुजी रामचन्द्र से 21 तुकाराम	अ.जा.	1
2	उमरिया	2	22 रामकरण छोगालाल से 39 श्रीराम	अ.ज.जा.	8
3	उमरिया	3	40 गुलाबचन्द से 59 देवराम दयाराम	अन्य पि. वर्ग	3
4	उमरिया	4	60 सीताराम दयाराम से 72 प्रेमलाल	अनारक्षित	3
5	उमरिया	5	73 अरमचन्द से 91 गंगाबाई मंगत	महिला अ.जा.	1
6	उमरिया	6	92 रमेश मंगत से 109 केशरीलाल लक्ष्मण	महिला अ.ज.जा.	4
7	उमरिया	7	110 नानीबाई से 125 भलाजी	महिला अन्य पि. वर्ग	1
8	उमरिया	8	126 दिनेश रामसिंह से 142 महेश	महिला अनारक्षित	2
9	उमरिया	9	143 गुलाबचन्द से 165 बालकराम देवराम		
10	उमरिया	10	166 आनन्दराम से 192 देवराम सीताराम		
11	उमरिया	11	193 भिग्या से 212 रमेश फत्तु		
12	उमरिया	12	213 पन्नालाल से 226 सेवकराम		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	उमरिया	13	227 मिश्रीलाल से 249 दयाराम		
14	उमरिया	14	250 छतरसिंह से 280 फुलसिंह		
15	उमरिया	15	281 अरमसिंह से 337 भुवानीराम		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	भोपाडा	1	1 अमरसिंह से 9 नारायण तक	अ.जा.	1
2	भोपाडा	2	11 गेंदालाल से 28 निलेश भाई तक	अ.ज.जा.	7
3	भोपाडा	3	30 अमरसिंह से सुभ्रदाबाई तक	अन्य पि. वर्ग	1
4	भोपाडा	4	53 गोकुल से 74 चंदन तक	अनारक्षित	3
5	भोपाडा	5	75 ताराबाई से 94 वर्षाबाई तक	महिला अ.जा.	1
6	भोपाडा	6	95 रेखाबाई से 112 अनसिंह तक	महिला अ.ज.जा.	4
7	भोपाडा	7	113 राजाराम से 130 मुन्नीबाई तक	महिला अन्य पि. वर्ग	1
8	भोपाडा	8	131 गुलाब से 144 गुलाबबाई तक	महिला अनारक्षित	1
9	भोपाडा	9	145 नान्दला से 156 पार्वतीबाई तक		
10	भोपाडा	10	156/1 नीरू से 165 सुनिताबाई तक		
11	भोपाडा	11	168 मदन से 183 विकास तक		
12	भोपाडा	12	184 रोशन से 207/3 सजनबाई तक		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	वल्का	1	1 बालाराम से 14 आशाराम	अ.जा.	0
2	वल्का	2	15 सरदार से 25 कालु	अ.ज.जा.	6
3	वल्का	3	26 जगदीश से 42 सोमलाल	अन्य पि. वर्ग	2
4	वल्का	4	43 शांताबाई से 60 पुनमचन्द	अनारक्षित	3
5	वल्का	5	61 भूरा से 80 ग्यारसीबाई	महिला अ.जा.	0
6	वल्का	6	81 बाबूलाल से 114 गुमानसिंह	महिला अ.ज.जा.	3
7	सिंगारचोरी	7	1 मंगतीबाई से 19 हबेसिंह	महिला अन्य पि. वर्ग	1
8	सिंगारचोरी	8	20 बाबूलाल से 37 श्रीचन्द	महिला अनारक्षित	2
9	सिंगारचोरी	9	38 नन्दू से 58 झबरसिंह		
10	सिंगारचोरी	10	59 सुर्या से 77 रामा		
11	सिंगारचोरी	11	78 नैनसिंह से 100 तारासिंह		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
1	जामन्या बुजुर्ग	1	1 कैलाश से 16 धर्मेन्द्र	अ.जा.	0
2	जामन्या बुजुर्ग	2	17 नवल से 37 सीमा	अ.ज.जा.	6
3	जामन्या बुजुर्ग	3	38 गणपत से 55 पंकी	अन्य पि. वर्ग	2
4	जामन्या बुजुर्ग	4	56 फत्तु से 71 प्रमोद	अनारक्षित	4
5	जामन्या बुजुर्ग	5	73 सईराम से 88 राधा	महिला अ.जा.	0
6	जामन्या बुजुर्ग	6	89 गोगलीबाई से 111 चमू	महिला अ.ज.जा.	3
7	जामन्या बुजुर्ग	7	112 सोनू से 126 रिंकी	महिला अन्य पि. वर्ग	1
8	जामन्या बुजुर्ग	8	127 श्याणीबाई से 147 मुकेश	महिला अनारक्षित	2
9	जामन्या बुजुर्ग	9	148 बसुबाई से 164 उर्मिला		
10	जामन्या बुजुर्ग	10	166 पूरा से 184 इन्द्रपाल		
11	जामन्या बुजुर्ग	11	185 बालू से 201 रमेश		
12	जामन्या बुजुर्ग	12	200 रूमाल से 229 मोहन		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
(1)	(2)	(3)	(4)		
1	पिपराड	1	1 नारायण नन्दराम से 15 नरेन्द्र बालकृष्ण	अ.जा.	1
2	पिपराड	2	16 कैलाश तुकाराम से 33 पुनम छगन	अ.ज.जा.	10
3	पिपराड	3	34 धूमसिंह गरिबा से 42क भागीरथ	अन्य पि. वर्ग	4
4	पिपराड	4	43 गोविन्द रघुनाथ से 54क दगडू	अनारक्षित	5
5	पिपराड	5	55 इन्द्र डोंगर से 63क लक्ष्मी बनसिंह	महिला अ.जा.	1
6	पिपराड	6	65 कन्हैया दयाराम से 79 बाबू रतन	महिला अ.ज.जा.	5
7	पिपराड	7	80 गोपाल विश्राम से 89 कमला रामलाल	महिला अन्य पि. वर्ग	2
8	पिपराड	8	90 सावित्री कल्लू से 99 कडवा देवराम	महिला अनारक्षित	2
9	पिपराड	9	100 काशीराम नारायण से 122क पारू		
10	पिपराड	10	123 सीताराम बनवट से 148 गजानन्द		
11	पिपराड	11	149 गजानन्द फत्तु से 160क डिग्रीलाल		
12	पिपराड	12	161 नन्नु नत्थु से 171ख आनन्दराम		
13	पिपराड	13	172 रामचन्द्र भाईराम से 188 पारूबाई		
14	पिपराड	14	189 मुरार चम्पालाल से 207 लखन		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	पिपराड	15	208 उमराव गणपत से 225 चमारिया		
16	पिपराड	16	226 अनसिंह गोमा से 292क सरदार		
17	पिपराड (धोबीखोदरा)	17	50 प्रवीण हुकूम से 242क रूलसिंग		
18	पिपराड (धोबीखोदरा)	18	246 गुलाब तेरसिंह से 259 बहादर		
19	पिपराड (धोबीखोदरा)	19	260 सोमली भावसिंह से 272क सुखलाल		
20	पिपराड (धोबीखोदरा)	20	273 कमला गुलाब से 293 धन्नालाल		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	पिपल्या बुजुर्ग	1	1 रामप्रकाश से 15 बांछा मांग्या	अ.जा.	1
2	पिपल्या बुजुर्ग	2	16 सुदलीबाई से 27 धन्नाजी	अ.ज.जा.	14
3	पिपल्या बुजुर्ग	3	28 काशीराम से 38 आशाराम	अन्य पि. वर्ग	0
4	पिपल्या बुजुर्ग	4	39 सुबी पोपट से 52 सीताराम	अनारक्षित	5
5	पिपल्या बुजुर्ग	5	53 रमतीबाई छगन से 75 यशवंत	महिला अ.जा.	1
6	पिपल्या बुजुर्ग	6	76 रमेश ओकार से 91 मुकेश	महिला अ.ज.जा.	7
7	पिपल्या बुजुर्ग	7	92 भागचंद बालु से 110 नन्नु श्याम	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	पिपल्या बुजुर्ग	8	111 सुकलाल फत्तु से 125 जगन हाजरा	महिला अनारक्षित	2
9	पिपल्या बुजुर्ग	9	126 झबरसिंग सहादर से 137 पठानसिंग		
10	पिपल्या बुजुर्ग	10	138 चैनसिंग भारसिंग से 155 टकर रमाल		
11	पिपल्या बुजुर्ग	11	156 साहदीबाई से एच-1 पुजा विक्रम		
12	भीकनगांव रेवे.	12	1 विजय गेंदालाल से 23/2 जगदिश		
13	भीकनगांव रेवे.	13	24 बुदया गटिया से 63/1 विजय		
14	भीकनगांव रेवे.	14	64 रामई ग्यानु से 91 किशोर बाबु		
15	भीकनगांव रेवे.	15	92 पर्वत बाबु से 121/1 हरसिंह भोलु		
16	भीकनगांव रेवे.	16	123 शंकर भील्या से 31 रमेश गणपत		
17	भीकनगांव रेवे.	17	32 सोहन गणपत से 132/1 वसीम		
18	सिरालाबाद	18	1 गणपम कचरिया से 16 पिजारी माधू		
19	सिरालाबाद	19	14 परसराम चतरसिंह से 36 झिगली		
20	सिरालाबाद	20	37 हरदास शंकर से 52 ए सेवती गरदन		

ग्राम पंचायत

परिशिष्ट-5(ब)

खरगोन, दिनांक 8 मई 2014

क्र. 13367-पंचा-निर्वाचन-2014-15.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित निर्वाचन वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिये आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करता है, अर्थात् :—

सारणी

अनु- क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	मुहाली	1	1 प्रेमसिंह से 18 बदनसिंह	अ. जा.	0
2	मुहाली	2	19 लोकेन्द्रसिंह से 45 बाबरा	अ. ज. जा.	20
3	मुहाली	3	46 वेस्तीबाई से 59 शौभाराम	अन्य पि. वर्ग	0
4	मुहाली	4	60 सुरसिंह से 69 कुन्तीबाई	अनारक्षित	0
5	मुहाली	5	72 खजरीबाई 80 अमरसिंह	महिला अ.जा.	0
6	मुहाली	6	81 नूरजी से 99 धूलीबाई	महिला अ. ज. जा.	10
7	मुहाली	7	100 भाटू से 109 ललीता	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	मुहाली	8	110 मोती से 123 सुखमाबाई	महिला अनारक्षित	0
9	मुहाली	9	124 पूनीबाई से 132 सुकमाबाई		
10	मुहाली	10	133 जुवानसिंह से 145 मीराबाई		
11	मुहाली	11	146 सुखलाल से 160 सीमाबाई		
12	चौण्डी	12	1 भूरा से 18 जानकी		
13	चौण्डी	13	20 डूडी से 32 भूरी		
14	चौण्डी	14	33 रणछोड से 52 सावित्री		
15	चौण्डी	15	54 बिशन से 68 सुनिता		
16	चौण्डी	16	70 रघु से 104 ग्यारूबाई		
17	गवल	17	1 शंकर से 17 कविता		
18	गवल	18	20 हुकूम से 35 वेस्ती		
19	गवल	19	37 तेरसिंह से 56 मोहन		
20	गवल	20	56 शांताबाई से 116 सेवन्ती		

सारणी

अनु- क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	अहिरखेडा	1	1 रमेश से 17 खजान	अ. जा.	1
2	अहिरखेडा	2	18 रामा से 38क झुमाराम	अ. ज. जा.	10
3	अहिरखेडा	3	39 सुन्दरबाई से 64ख अशोक	अन्य पि. वर्ग	4
4	अहिरखेडा	4	65 मानसिंह से 80 भागोबाई	अनारक्षित	5
5	अहिरखेडा	5	81 कालु से 109 पाण्डुदास	महिला अ.जा.	1
6	अहिरखेडा	6	112 हरीनारायण से 131/3 सुरजबाई	महिला अ. ज. जा.	5
7	अहिरखेडा	7	132 कालु से 146 मंजुबाई	महिला अन्य पि. वर्ग	2
8	अहिरखेडा	8	147 रामा से 164/1 सायबाई	महिला अनारक्षित	2
9	अहिरखेडा	9	165 देवीसिंह से 177 नरेन्द्र		
10	अहिरखेडा	10	179 वसीम से 202 कन्हैया		
11	अहिरखेडा	11	203 आनन्दीबाई से 226 सीमाबाई		
12	अहिरखेडा	12	227 रामलाल से 250 सुनिताबाई		
13	अहिरखेडा	13	251 भागीरथ से 279 संगीताबाई		
14	अहिरखेडा	14	282 सीताराम से म/3 दिनेश		
15	डोंगरगांव	15	1 झलु से 13/2 सुरमाबाई		
16	डोंगरगांव	16	14 धोधरीबाई से 31 रेखाबाई		
17	कालबरड	17	1 अजोध्याबाई से 19 प्रकाश		
18	कालबरड	18	21 इकबाल से 32 मुरली		
19	कालबरड	19	33 ताराचन्द से 48 ममता		
20	कालबरड	20	49 डेन्डू से 66 सुमनबाई		

सारणी

अनु- क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	अमनखेडी	1	1 जगदीश से 27 मुकेश	अ. जा.	1
2	अमनखेडी	2	28 सोहनलाल से 46 विरेन्द्र	अ. ज. जा.	6
3	अमनखेडी	3	47 पूजा से 60 धर्मेन्द्र	अन्य पि. वर्ग	2
4	अमनखेडी	4	61 दयाराम से 75 प्रेमचन्द	अनारक्षित	3
5	अमनखेडी	5	76 नत्थु से 92 पोमडिया	महिला अ.जा.	1
6	अमनखेडी	6	93 बिहारी से 110 दयाराम	महिला अ. ज. जा.	3
7	अमनखेडी	7	111 टूलन से 126 चम्पालाल	महिला अन्य पि. वर्ग	1
8	अमनखेडी	8	129 घनश्याम से 150/1 भाईराम	महिला अनारक्षित	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	अमनखेडी	9	152 रामलाल से 190 गंगाधर		
10	लखापुर	10	2 रविन्द्र से 24क दरियाव		
11	लखापुर	11	24ख कडवा से 48 नथीबाई		
12	लखापुर, बंजारी	12	49 भारत से 80 कैलाश एवं 1 से 8		

सारणी

अनु- क्र.	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	अंदड	1	1 सुखिया बिशन से 26 ममता तुलसीदास	अ. जा.	1
2	अंदड	2	27 मदन से 66 शर्मिला मोहन	अ. ज. जा.	10
3	अंदड	3	68 मंगती से 119 रामप्यारी	अन्य पि. वर्ग	4
4	अंदड	4	120 लक्ष्मीरायण से 142 चन्द्रशेखर	अनारक्षित	5
5	अंदड	5	143 पन्नालाल से 166क राधा नन्नु	महिला अ.जा.	1
6	अंदड	6	167 अनिल कुमार से 191 पंढरी	महिला अ. ज. जा.	5
7	अंदड	7	193 रामु मंगल्या से 215 ममता भारुड	महिला अन्य पि. वर्ग	2
8	अंदड	8	216 गेंदाबाई से 237 सुनिताबाई लवकुश	महिला अनारक्षित	2
9	अंदड	9	238 सुभानी अजित 262 से बिन्दूबाई		
10	अंदड	10	263 लक्ष्मणसिंह से 289 शुकन्तला		
11	अंदड	11	290 बाबूराव माधव से 321 मंजूला सुरेश		
12	अंदड	12	322 रमेशचन्द्र से 359 सुनिल दिनेश		
13	जामन्या	13	1 नबीबाई से 25/2 संतोषी		
14	जामन्या	14	28 लीला से 48/2 नूरजा		
15	जामन्या	15	51 डावरसिंह से 70 सुभाषचन्द्र		
16	जामन्या	16	71 तोताराम से 95 गायत्री		
17	जामन्या	17	96 कालु से 122 मुन्नी किशोर		
18	जामन्या	18	124 शिवराम से 152 अम्बाराम		
19	जामन्या	19	154 अनारसिंह से 173 क रूखमणी		
20	जामन्या	20	174 देवराम से 214 ए अर्जुन		

सारणी

अनु- क्र.	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	अंजनगांव	1	1 कावेरीबाई से 31 रामलाल	अ. जा.	3
2	अंजनगांव	2	32क अनारबाई से 61क कन्हैया	अ. ज. जा.	10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	अंजनगांव	3	62 औंकारलाल से 108 कैलाश	अन्य पि. वर्ग	2
4	अंजनगांव	4	110 तुलाबाई से 143 क केशरीलाल	अनारक्षित	5
5	अंजनगांव	5	144 कपूरचन्द मीणा से 178क मोहन	महिला अ.जा.	2
6	अंजनगांव	6	179 सुल्तान से 210 रमेश	महिला अ. ज. जा.	5
7	अंजनगांव	7	211 कौरजी से 231 नन्नु	महिला अन्य पि. वर्ग	1
8	अंजनगांव	8	231 घ कनसिंह से 280 औंकार	महिला अनारक्षित	2
9	अंजनगांव	9	285क तापीराम से 301ग आत्माराम		
10	पिपल्या	10	1 रतन से 328 हुकूमचन्द		
11	पिपल्या	11	329 देवीसिंह से 365 गुलाबबाई		
12	पिपल्या	12	366 जातीबाई से 396 प्रतापसिंह		
13	पिपल्या	13	396(1) तकतसिंह से 428क भागीरथ		
14	पिपल्या	14	429 अनारसिंह से 466(2) हुकूमचन्द		
15	औरंगपुरा	15	1 कलाबाई से 29 रेवाराम		
16	औरंगपुरा	16	30 तुकाराम से 51क शिवराम		
17	औरंगपुरा	17	51ख गंगाराम से 81 नानकराम		
18	औरंगपुरा	18	82 गिरजाबाई से 109 परसराम		
19	औरंगपुरा	19	110 हुकूमचन्द से 133 कैलाश		
20	औरंगपुरा	20	134 चन्दलीबाई से 167 मांगीलाल		

सारणी

अनु- क्र.	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बडिया	1	1 मीठाराम से 21/1 आनन्दराम	अ. जा.	3
2	बडिया	2	23 कैलाश से 42 मोतीया	अ. ज. जा.	7
3	बडिया	3	43 श्रीराम से 69 चयनबाई	अन्य पि. वर्ग	1
4	बडिया	4	70 काशीराम से 80 बिरोजबाई	अनारक्षित	3
5	बडिया	5	83 अमोलबाई से 102 बाबू	महिला अ.जा.	2
6	बडिया	6	105 शंकर से 122 भागीरथ	महिला अ. ज. जा.	4
7	सहेजला	7	1 मीठाराम से 19 बाबूलाल	महिला अन्य पि. वर्ग	1
8	सहेजला	8	20 रामलाल से 38 परसराम	महिला अनारक्षित	1
9	सहेजला	9	39 हिरालाल से 56 नानीबाई		
10	सहेजला	10	57 छिताबाई से 67 मांगीलाल		
11	सहेजला	11	69 मोतीराम से 85 राजाराम		
12	सहेजला	12	86 राधेश्याम से 102 पूनमचन्द		
13	सहेजला	13	103 रामकुंवरबाई से 121 छिताबाई		
14	सहेजला	14	122 तुलसीबाई से 147 बूधा		

सारणी

अनु- क्र.	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बडिया	1	1 मयाराम से 17 हिन्गोबाई	अ. जा.	0
2	बडिया	2	19 राजाराम से 35 सेकडिबाई मोहन	अ. ज. जा.	20
3	बडिया	3	36 मदन हरेसिंह से 49 कालु धनिया	अन्य पि. वर्ग	0
4	बडिया	4	50 लाडकीबाई से 60 झीनाबाई	अनारक्षित	0
5	बडिया	5	61 औंकार से 71 मंशाराम	महिला अ.जा.	0
6	बडिया	6	72 दलसिंह से 81 दगडिया भावसिंह	महिला अ. ज. जा.	10
7	बडिया	7	82 रघुनाथ भूरा से 89 सागर मालया	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	बडिया	8	90 नवलसिंह से 101 रूपसिंह रामला	महिला अनारक्षित	0
9	बडिया	9	102 दशरथ से 220 कुंवरसिंह गुलाब		
10	गोविन्दपुरा	10	1 वेराग भूचर से 8 भावसिंह मेघला		
11	गोविन्दपुरा	11	9 रीछाबाई से 31 शंकर गजा		
12	गोविन्दपुरा	12	33 रमकूबाई से 112 सुशीलाबाई		
13	सुल्तानपुरा	13	1 नानसिंह से 12 बट्टी जयराम		
14	सुल्तानपुरा	14	13 धूमसिंह धूंधरीबाई से 23 क सुरपाल		
15	सुल्तानपुरा	15	24 बंस्या दौला से 33 थावलिया रूपसिंह		
16	सुल्तानपुरा	16	34 गन्नु से 46 झेतरीबाई		
17	सुल्तानपुरा	17	47 वालसिंह भाचरिया से 58 रामसिंह		
18	सुल्तानपुरा	18	59 तेरसिंह गारडिया से 69क मिश्रीलाल		
19	सुल्तानपुरा	19	70 गेंदरसिंह खुमान से 88 रूखडिया		
20	सुल्तानपुरा	20	89 मानकर वेस्ता से 100 महेन्द्र केशरिया		

सारणी

अनु- क्र.	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बलखडिया	1	1 बट्टी से 16 किशन तक	अ. जा.	2
2	बलखडिया	2	17 किशन चुन्नीलाल से 29 हुकूम तक	अ. ज. जा.	10
3	बलखडिया	3	30 लक्ष्मीनारायण से 45 शिवराम तक	अन्य पि. वर्ग	3
4	बलखडिया	4	46 भुवानीराम से 62 भागीरथ तक	अनारक्षित	5
5	बलखडिया	5	63 तुलसीराम बाबू से 77 मीठाराम तक	महिला अ.जा.	1
6	बलखडिया	6	78 रणछोड से 92 बलीराम तक	महिला अ. ज. जा.	5
7	बलखडिया	7	93 सोम्मार से 112 बलीराम तक	महिला अन्य पि. वर्ग	1
8	बलखडिया	8	113 रेवाराम से 122 भग्गू तक	महिला अनारक्षित	3
9	बलखडिया	9	123 परसराम से 138 तुलसीराम तक		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	बलखडिया	10	139 काशीराम से 153 छगन तक		
11	बलखडिया	11	154 कडवा से 174 गेंदीलाल तक		
12	सिरलाय	12	1 राधेश्याम मोतीराम से 14 चम्पालाल		
13	सिरलाय	13	15 केशव से 30 थावरसिंह तक		
14	सिरलाय	14	31 बादाम से 45 कमलसिंह तक		
15	सिरलाय	15	256 रामाबाई से 62/ग सुखलाल गोविन्द		
16	सिरलाय	16	64 सकुबाई से 89 मांगीलाल रघुनाथ		
17	सिरलाय	17	90 पुनीबाई मयाराम से 113 दयाराम		
18	सिरलाय	18	114 आँकार से 133/ग अमरसिंह तक		
19	सिरलाय	19	134 बालु गोपाल से 149/क श्याम अंतर तक		
20	सिरलाय	20	150 मीठाराम फत्तु से 181 इकराम तक		

सारणी

अनु- क्र.	ग्राम का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	बमनाला	1	1 विजयलक्ष्मी से 24/2 प्रदीपकुमार	अ. जा.	1
2	बमनाला	2	25 कुसुमबाई से 64/2 मानसिंह	अ. ज. जा.	10
3	बमनाला	3	65 भगवानसिंह से 108 दरियावसिंह	अन्य पि. वर्ग	4
4	बमनाला	4	109 महाकुंवरबाई से 178 बोंदरसिंह	अनारक्षित	5
5	बमनाला	5	180 सविना मिरबान से 239 फिरोज	महिला अ.जा.	1
6	बमनाला	6	230 बिहारीलाल से 283 चम्पालाल	महिला अ. ज. जा.	5
7	बमनाला	7	284 पुनमचन्द से 327ग बाबूलाल	महिला अन्य पि. वर्ग	2
8	बमनाला	8	328 शांताबाई से 387 गेंदालाल	महिला अनारक्षित	2
9	बमनाला	9	389 ननू से 447 मालुराम		
10	बमनाला	10	448 अनोखीलाल से 494 पुनिया		
11	बमनाला	11	495 राधेश्याम से 563 अनार		
12	बमनाला	12	565 बलीराम से 619 कन्हैया		
13	बमनाला	13	621 अनारबाई से 703/2 नत्थु		
14	बमनाला	14	705 पुनमचन्द से 819 नन्दू		
15	बमनाला	15	820 धनसिंह से 884 दरियाव		
16	बमनाला	16	885 प्रितमसिंह से 931 बाबूसिंह		
17	बमनाला	17	932/1 बालकृष्ण से 964 जयसिंह		
18	बमनाला	18	967 कैलाश से 992/1 अनोक		
19	बमनाला	19	993 कैलाशचन्द्र से 1003/37 बीकाजी		
20	बमनाला	20	1021 देवचन्द से 1257 अंतरसिंह		

सारणी

अनु- क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	बंझर	1	1 जयपालसिंह से 18क फुन्दाबाई	अ. जा.	2
2	बंझर	2	19 सजनसिंह से 32 राधेश्याम	अ. ज. जा.	10
3	बंझर	3	33 धनसिंह से 49 कमलाबाई	अन्य पि. वर्ग	3
4	बंझर	4	50 गणपतसिंह से 67क चन्द्रकला	अनारक्षित	5
5	बंझर	5	68 विक्रमसिंह से 87 सीताबाई	महिला अ.जा.	1
6	बंझर	6	88 सदाशिव से 115 सजनसिंह	महिला अ. ज. जा.	5
7	बंझर	7	116 प्रेमबाई से 150 बसंतीबाई	महिला अन्य पि. वर्ग	1
8	बंझर	8	151 भारतसिंह से 175 क गोविन्द	महिला अनारक्षित	3
9	बंझर	9	178 ललीताबाई से 197 उमाबाई		
10	बंझर	10	198 सुशीलचन्द से 232 मुंशीखां		
11	बंझर	11	233 चिन्ताबाई से 254 कृष्णाबाई		
12	बंझर	12	255 हरेसिंह से 270 सुरजबाई		
13	बंझर	13	271 खुमानसिंह से 284क रामु		
14	बंझर	14	285 रामेश्वर से 310 जसवंतसिंह		
15	बंझर	15	313 अनारबाई से 329 धूलचन्द		
16	बंझर	16	330 दूर्गाबाई से 348 नन्दू		
17	बंझर	17	349 कडवा से 374 रमेश		
18	बंझर	18	375 कैलाश से 395 नत्थु		
19	बंझर	19	396 शंकरलाल से 423 भंवरबाई		
20	बंझर	20	424 शौभाराम से 446 लक्ष्मण		

सारणी

अनु- क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	भगवानपुरा	1	1 लछीराम से 14 चम्पालाल	अ. जा.	2
2	भगवानपुरा	2	15 भोलु से 26 बावरा धमरापी	अ. ज. जा.	9
3	भगवानपुरा	3	28 हिरालाल से 46 सुनिता	अन्य पि. वर्ग	3
4	भगवानपुरा	4	48 राधेश्याम से 59 नन्दराम	अनारक्षित	4
5	भगवानपुरा	5	60 धनाजी से 71 मांगीलाल	महिला अ.जा.	1
6	भगवानपुरा	6	73 मोतीराम से 92 यशोदा	महिला अ. ज. जा.	5
7	भगवानपुरा	7	93 टिकाराम से 107 बाबुलाल	महिला अन्य पि. वर्ग	2
8	भगवानपुरा	8	108 हिरालाल से 132/1 गुलाबसिंह	महिला अनारक्षित	2
9	भगवानपुरा	9	103 श्यामाबाई से 146 शंकर		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	पिपलई खुर्द	10	1 कालुबाई से 14 चंदा		
11	पिपलई खुर्द	11	16 देवीसिंह से 36 बालकिशन		
12	पिपलई खुर्द	12	39 हिरा से 48 नागा तोताराम		
13	पिपलई खुर्द	13	50 मंदोर से 69 बली श्रवण		
14	पिपलई खुर्द	14	70 मौजीलाल से 84/1 सावित्री		
15	पिपलई खुर्द	15	85 सावित्री से 103 औंकार बकस्या		
16	पिपलई खुर्द	16	104 केशर बाबू से 116 कवल्या बालू		
17	पिपलई खुर्द	17	118 अनार तेजा से 131 जगराम		
18	पिपलई खुर्द	18	132 दिदार मकराम से 159 दूलीचन्द		

सारणी

अनु- क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	बिलखेड खुर्द	1	2 काशीराम किशन से 17 रामलाल	अ. जा.	2
2	बिलखेड खुर्द	2	18 छगन लक्ष्मण से 31 भगवान फतु	अ. ज. जा.	10
3	बिलखेड खुर्द	3	32 देवीसिंह मंत्रीलाल से 51 भंवरसिंह	अन्य पि. वर्ग	3
4	बिलखेड खुर्द	4	53 केशव भोलु से 76 राधेश्याम छीतु	अनारक्षित	5
5	बिलखेड खुर्द	5	77 खातुन जुम्मा से 91 नन्नू सुखराम	महिला अ.जा.	1
6	अदलपुरा	6	1 रमेशचन्द्र राजाराम से 16 सफी इब्राहिम	महिला अ. ज. जा.	5
7	अदलपुरा	7	17 हमीद बाबू से 31 कल्लु दिलावर	महिला अन्य पि. वर्ग	1
8	अदलपुरा	8	33 मोहन राजाराम से 46 शेरोबी वकील	महिला अनारक्षित	3
9	अदलपुरा	9	47 रजीया रसीद से 67 मोहबाई सरदार		
10	अदलपुरा	10	68 शांतीबाई बाबूलाल से 82 मोहम्मद से		
11	अदलपुरा	11	85 शांतिबाई तेजकरण से 104 कमल		
12	अदलपुरा	12	106 ओमप्रकाश रामकिशन से 117 इकबाल		
13	अदलपुरा	13	118 लियाकत आलाबेली से 134 गुलाबबाई		
14	अदलपुरा	14	135 जानकीबाई से 148/8 चिंतामण		
15	अदलपुरा	15	149 नजमा चांद खां से 169 वैरसिंह		
16	अदलपुरा	16	170 कल्लु सकुर से 190 जगदीश		
17	अदलपुरा	17	193 रूकमणी भगवान से 207 उस्मान		
18	अदलपुरा	18	208 आबिज मुस्तफा से 228 रमेश		
19	अदलपुरा	19	228/2 खलील गुलामीर से 246/2 बाबू		
20	अदलपुरा	20	246/3 तुकाराम फकीरा से 274 नासीर		

सारणी

अनु- क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	बिरूल	1	1 बहादरसिंह भोलुसिंह से 13 क इंसिंह	अ. जा.	0
2	बिरूल	2	14 बिनाबाई कैलाश से 26 रामदास	अ. ज. जा.	16
3	बिरूल	3	27 सजनसिंह प्यारसिंह से 41/1 भागीरथ	अन्य पि. वर्ग	0
4	बिरूल	4	42 सागरसिंह से 58क कैलाशचन्द्र	अनारक्षित	4
5	बिरूल	5	69 जगदीश पुन्जीलाल से 76 कालुसिंह	महिला अ.जा.	0
6	बिरूल	6	78 बेबीबाई केशरसिंह से 99 राधेश्याम	महिला अ. ज. जा.	8
7	बिरूल	7	100 झुमकाबाई से 114 क मदनलाल	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	बिरूल	8	116 गडबड से 136 सुखराम भाईराम	महिला अनारक्षित	2
9	बिरूल	9	138 गंगु नत्थु से 156 जमुनाबाई गुसाई		
10	बिरूल	10	157 कडवीबाई मांगीलाल से 179 श्रीराम		
11	बिरूल	11	180 नथीबाई कन्हैया से 194/1 हरीओम		
12	बिरूल	12	195 लूला गारदिया से 216 क मुन्ना		
13	बिरूल	13	217 वेरागसिंह 229ख से कालुसिंह		
14	बिरूल	14	230 नूरला केरिया से 239 ध्यानसिंह		
15	लछौरा	15	1 मेहताबबाई खुमानसिंह से 9 इरभान		
16	लछौरा	16	10 औरजुबाई रामसिंह से 24 किशन		
17	लछौरा	17	27 रामा गुलाबसिंह से 43क रीछु मला		
18	लछौरा	18	44 नत्थु धनसिंह से 58 लालसिंह घिस्या		
19	लछौरा	19	60 रूपसिंह भावसिंह से 74 सखाराम		
20	लछौरा	20	77 जोगीलाल अलमिया से 369 ए सिगदार		

सारणी

अनु- क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	बिटनेरा	1	1 राघोराम से 16 सरस्वती	अ. जा.	2
2	बिटनेरा	2	17 चम्पालाल से 30 रेवाराम	अ. ज. जा.	10
3	बिटनेरा	3	31 रमाबाई से 45 रामकुंवर	अन्य पि. वर्ग	3
4	बिटनेरा	4	46 मरुबाई से 64 कडवा	अनारक्षित	5
5	बिटनेरा	5	65 सुन्दरबाई से 82 ग्यारसीबाई	महिला अ.जा.	1
6	बिटनेरा	6	83 किरणबाई से 100 संतोष	महिला अ. ज. जा.	5
7	बिटनेरा	7	101 महादेव से 119 रामचन्द्र	महिला अन्य पि. वर्ग	1
8	बिटनेरा	8	120 शारदाबाई से 142 अमरसिंह	महिला अनारक्षित	3
9	बिटनेरा	9	143 लीलाबाई से 156 सुरजबाई		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	बिटनेरा	10	157 पंढरीनाथ से 174 शांताबाई		
11	बिटनेरा	11	175 माधवसिंह से 193 दूर्गाबाई		
12	बिटनेरा	12	194 भानुप्रसाद से 210 नरेन्द्र		
13	बिटनेरा	13	211 बागसिंह से 225 दरियाव		
14	बिटनेरा	14	226 रेवाबाई से 240 छतरसिंह		
15	बिटनेरा	15	241 रूमसिंह से 254 लालू		
16	बिटनेरा	16	255 नवलसिंह से 265 रेवाराम		
17	बिटनेरा	17	266 भागचन्द से 285 जानूबाई		
18	बिटनेरा	18	286 गोविन्द से 295 जानुबाई		
19	बिटनेरा	19	296 जीताबाई से 309 किशन		
20	बिटनेरा	20	310 शांतिलाल से 322 जेठा		

सारणी

अनु- क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	बोरगांव	1	1 कैलाश से 15 गोपाल नत्थु	अ. जा.	1
2	बोरगांव	2	16 सरवण से 34 दया	अ. ज. जा.	11
3	बोरगांव	3	35 हरकू काशीराम से 54 तकतसिंह	अन्य पि. वर्ग	3
4	बोरगांव	4	55 महेन्द्र से 66 राजाराम	अनारक्षित	5
5	बोरगांव	5	67 रामा किशन से 85 माया रामेश्वर	महिला अ.जा.	1
6	बोरगांव	6	87 भूपेन्द्र सिंह से 100 लोभेन्द्रसिंह	महिला अ. ज. जा.	5
7	बोरगांव	7	101 प्रहलादसिंह से 112 देवराम	महिला अन्य पि. वर्ग	2
8	बोरगांव	8	113 चन्दूलाल से 138 मंशाराम	महिला अनारक्षित	2
9	बोरगांव	9	139 कमलसिंह से 155 कौशल्याबाई		
10	बोरगांव	10	156 रूखमणीबाई से 171 देवराम सीताराम		
11	बोरगांव	11	172 सुमन भाईराम से 199 सेवकराम		
12	पछाया	12	1 लछीबाई से 16 चम्पालाल छिपरी		
13	पछाया	13	17 धन्नालला बुदु 29 से सजनबाई		
14	पछाया	14	30 रघुनाथ से 43 गोदावरी मोतीराम		
15	पछाया	15	44 केशव छगन से 58 गोपीचन्द मागीलाल		
16	पछाया	16	59 दगडीबाई छजू से 71 श्यामलाल		
17	पछाया	17	72 सुबिया बिशन से 84 बालकराम		
18	पछाया	18	85 जीवनबाई राजाराम से 99 कडवा		
19	पछाया	19	100 श्रीराम से 109 कडवा		
20	पछाया	20	110 मथुराबाई से 119 गेंदाराम		

सारणी

अनु- क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	बोरूट	1	1 रामलाल से 18 रमेश छगन	अ. जा.	1
2	बोरूट	2	19 राधोराम से 32 मोतीराम गुलबा	अ. ज. जा.	11
3	बोरूट	3	33 रामेश्वर से 49 रामकरण छज्जु	अन्य पि. वर्ग	3
4	बोरूट	4	50 छन्दुबाई से 67 शोभाराम प्रजापत	अनारक्षित	5
5	बोरूट	5	68 मंगल्या से 87 शिवराम छज्जु	महिला अ.जा.	1
6	बोरूट	6	88 तिलोक से 99ख डुंडीबाई गंजी	महिला अ. ज. जा.	6
7	बोरूट	7	100 भावला से 112 शंकर दरिया	महिला अन्य पि. वर्ग	1
8	बोरूट	8	113 लखन से 128 चम्पालाल चैतराम	महिला अनारक्षित	2
9	बोरूट	9	129 चैतराम से 146 क नीला दगडु		
10	बोरूट	10	147 आनन्दराम से 164 बोंदर छोटिया		
11	बोरूट	11	165 छितर से 179 चंदाबाई		
12	बोरूट	12	180 भाईराम से 192 शिवराम कालु		
13	बोरूट	13	193 इसराम से 211 एवं 234 मनीष		
14	घोड़वा	14	1 बद्रीलाल से 17 नहारसिंह		
15	घोड़वा	15	18 तुलसीराम से 40 गोविंद		
16	घोड़वा	16	41 कमलाबाई सेन से 57 सुंदरलाल		
17	घोड़वा	17	58 पन्नालाल से 73 देवकीलाल		
18	खारवी	18	1 भगवान से 19 रामचन्द्र		
19	खारवी	19	20 रघुनाथ से 38 गोपीकिशन पंडित		
20	मनोहरपुरा	20	1 नरसिंग से 27 नागु दौला		

सारणी

अनु- क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	छिर्वा	1	1 नत्थु दयाराम से 12ख मांगी	अ. जा.	1
2	छिर्वा	2	13 मायाबाई से 23 गोरेलाल	अ. ज. जा.	14
3	छिर्वा	3	24 तेजनबाई से 45 गीरजाबाई	अन्य पि. वर्ग	0
4	छिर्वा	4	46 चम्पाबाई से 58 रंजीताबाई	अनारक्षित	5
5	छिर्वा	5	59 शारदाबाई से 71 सावन	महिला अ.जा.	1
6	छिर्वा	6	73 गंगाबाई से 93ग सखाराम	महिला अ. ज. जा.	7
7	छिर्वा	7	94 हुकुम से 112 रानुबाई	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	छिर्वा	8	113 टुटला से 126 प्रदीप	महिला अनारक्षित	2
9	छिर्वा	9	127 कल्याण से 140 रेखाबाई		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	छिर्वा	10	141 बलीराम से 156 कु. मनीषा		
11	छिर्वा	11	158 मरूबाई से 176 सुनीताबाई		
12	छिर्वा	12	177 देवराम से 195 रेशमबाई		
13	छिर्वा	13	196 रूघनाथ से 209 आनंद		
14	छिर्वा	14	210 आनंदराम से 222 अभिषेक		
15	छिर्वा	15	223 हिरूबाई से 241 गंगाबाई		
16	छिर्वा	16	242 मांगीलाल से 257 रानु		
17	छिर्वा	17	258 दित्या से 275 महेन्द्र		
18	छिर्वा	18	277 कड़वाजी से 293 रिना		
19	छिर्वा	19	294 घनसिंह से 303 दुर्गाबाई		
20	छिर्वा	20	304 झिगली से 359 किरण		

सारणी

अनु- क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	चिरागपुरा	1	1 नन्नु से 17 शांतिलाल दगडिया	अ. जा.	4
2	चिरागपुरा	2	18 हिरालाल से 35 गोकुल दमा	अ. ज. जा.	10
3	चिरागपुरा	3	36 लटुबाई से 50 तुकाराम छगन	अन्य पि. वर्ग	1
4	चिरागपुरा	4	51 श्यामलाल से 70 रहिम खान	अनारक्षित	4
5	चिरागपुरा	5	71 जुम्मा काशम से 82 लक्ष्मीनारायण	महिला अ.जा.	2
6	चिरागपुरा	6	84 हिरालाल से 103 मंशाराम	महिला अ. ज. जा.	5
7	चिरागपुरा	7	104 भाईराम से 122 सावित्रीबाई	महिला अन्य पि. वर्ग	1
8	चिरागपुरा	8	123 कड़वा से 132 तुलसीराम	महिला अनारक्षित	2
9	चिरागपुरा	9	133 पन्नालाल से 207 राजेन्द्र		
10	भातलपुरा	10	1 मुंगसिंह से 20 तेजु बाब		
11	भातलपुरा	11	21 मनोहर से 37 नन्नु चम्पीया		
12	भातलपुरा	12	38 श्याणीबाई से 58 कड़वा		
13	भातलपुरा	13	59 शांताबाई से 75 रामलाल		
14	भातलपुरा	14	76 उमराव से 92 बिहारी		
15	भातलपुरा	15	93 बाबु से 108 लोकेन्द्र		
16	भातलपुरा	16	109 भारतसिंह से 126 दरियाव		
17	भातलपुरा	17	127 प्रलादसिंह से 145 इंदुबाई		
18	भातलपुरा	18	146 लक्ष्मीबाई से 163 रूखड़ीबाई		
19	भातलपुरा	19	165 सीताबाई से 187 प्यारा		

सारणी

अनु- क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	चौण्डी अंदड	1	1 तुकाराम बालु से 10 गीताबाई सीताराम	अ. जा.	1
2	चौण्डी अंदड	2	14 मदन घिसीया से 28 माताबाई केशव	अ. ज. जा.	11
3	चौण्डी अंदड	3	29 मंगल्या रायसिंग से 44 नन्दू रणछोड	अन्य पि. वर्ग	0
4	चौण्डी अंदड	4	46 लक्ष्मी रणछोड से 57 रामकौरबाई	अनारक्षित	4
5	चौण्डी अंदड	5	58 पप्पू ज्ञानसिंह से 71 मंगत फतु	महिला अ.जा.	1
6	चौण्डी अंदड	6	72 नहारू फतु से 81 भगवान राजाराम	महिला अ. ज. जा.	5
7	चौण्डी अंदड	7	82 भंगडीबाई जुवानसिंह से 93 सरदार	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	चौण्डी अंदड	8	94 रघुनाथ रामसिंह से 105 नरसिंह मोत्या	महिला अनारक्षित	2
9	चौण्डी अंदड	9	106 मोत्याबाई गणपत से 116 फुंदाबाई		
10	चौण्डी अंदड	10	117 मांग्या नरसिंह से 125 सुभान हतु		
11	चौण्डी अंदड	11	126 जयराम लखडिया से 137 डोंगरसिंह		
12	चौण्डी अंदड	12	138 नहारसिंग तात्या से 147 जमुनाबाई		
13	चौण्डी अंदड	13	149 सुरजबाई फुलसिंह से 156 फुलसिंह		
14	चौण्डी अंदड	14	157 श्याणीबाई वेलजी से 165 झलुबाई		
15	चौण्डी अंदड	15	167 हरसिंग केकडिया से 177 सुमला		
16	चौण्डी अंदड	16	178 रेमला हगरिया से 190 ग्यारसीबाई		

सारणी

अनु- क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	देवला	1	1 रेवाराम बाला से 26 केशरसिंह	अ. जा.	3
2	देवला	2	28 जमुनाबाई राजु से 57अ रूपसिंह	अ. ज. जा.	10
3	देवला	3	58 तुलाराम नरसिंह से 79 तुलसाबाई	अन्य पि. वर्ग	2
4	देवला	4	80 सुरेन्द्रसिंह झबरसिंह से 101 गेंदालाल	अनारक्षित	5
5	देवला	5	102 कैलाश घिसीलाल से 126 जीवन	महिला अ.जा.	1
6	देवला	6	127 शिवकरण मोतीराम से 139 लक्ष्मण	महिला अ. ज. जा.	5
7	देवला	7	142 नथी मंशाराम से 157 नानूराम	महिला अन्य पि. वर्ग	1
8	देवला	8	158 समोती शंकर से 176 हरीराम	महिला अनारक्षित	3
9	देवला	9	177 रमुबाई शंकर से 195 बाबू फतु		
10	देवला	10	196 रामेश्वर सीताराम से 219 घिसीबाई		
11	देवला	11	220 अमराजी समखाराम से 261 हंसराज		
12	देवला	12	262 गजराज टन्डू से 285 दयाराम		
13	देवला	13	286 कडवी नत्थु से 310 मोतन		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	देवला	14	311 सीताराम गंगाराम से 343 राजाराम		
15	देवला	15	344 लखन जामसिंह से 376 झेतरिया		
16	आंवल्या	16	1 तुल्या हमीर से 23 लीलाबाई		
17	आंवल्या	17	24 महूबाई बदिद्या से 43 निहाली गणपत		
18	आंवल्या	18	44 सागरबाई श्रवण से 62 रोडिया छज्जु		
19	आंवल्या	19	64 सरदार गिरवर से 75 चमारिया		
20	आंवल्या	20	76 रामसिंह रीछु से 93 दिनेश मिशन		

सारणी

अनु- क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	दौडवां	1	1 खानबी से 35 अ रानी राजाराम	अ. जा.	1
2	दौडवां	2	37 नारायण पूना से 76 रसीद	अ. ज. जा.	10
3	दौडवां	3	85 फतिमा से 108 कमलसिंह	अन्य पि. वर्ग	4
4	दौडवां	4	109 रूखडुसिंह से 140 लक्ष्मीबाई	अनारक्षित	5
5	दौडवां	5	141 लाडकीबाई से 169 शेख हबीब	महिला अ.जा.	1
6	दौडवां	6	170 कमरल से 205 भुवानीराम	महिला अ. ज. जा.	5
7	दौडवां	7	206 राजाराम से 235 क छन्दू कैलाश	महिला अन्य पि. वर्ग	2
8	दौडवां	8	237 डाकोरसिंह से 265 बनारसबाई	महिला अनारक्षित	2
9	दौडवां	9	267 बाबूसिंह से 293 भोलाराम		
10	दौडवां	10	244 सेवन्तीबाई से 318 क सुखलाल		
11	दौडवां	11	319 खुमसिंह से 348 मेहरू निशा		
12	दौडवां	12	349 जरदार से 293 शेख तामील		
13	दौडवां	13	394 गंगाबाई से 431 लक्ष्मीनारायण		
14	दौडवां	14	433 किशनलाल से 460 प्रेमलाल		
15	दौडवां	15	462 शंकर से 499 सजनबाई		
16	दौडवां	16	500 रूखमाबाई से 535 सुभाष		
17	दौडवां	17	536 रेवाबाई से 576 जिरला मंगल्या		
18	दौडवां	18	577 हिरला मंगल्या से 598 मालसिंह		
19	दौडवां	19	599 सिलदार से 610 बलीराम देवीसिंह		
20	दौडवां	20	611 भायसिंग से 922 पिकीबाई		

सारणी

अनु- क्र.	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	एकतासा	1	2 नानकुंवरबाई से 21/1 मंगतसिंह झापू	अ. जा.	1
2	एकतासा	2	22 अंतरसिंह से 47 विरेन्द्र	अ. ज. जा.	14
3	एकतासा	3	48 मोजीलाल नैनसिंह से 76 रूखमणी	अन्य पि. वर्ग	5
4	एकतासा	4	77 शिवलाल बृजलाल से 105 सुमित्रा	अनारक्षित	0
5	एकतासा	5	106 रूपेन्द्र भोपालसिंह से 131 पेमलबाई	महिला अ.जा.	1
6	एकतासा	6	132 रामईबाई तुकाराम से 154 गंगाराम	महिला अ. ज. जा.	7
7	एकतासा	7	155 खुमानसिंह डेबरा से 168 विजय	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	मछलगांव	8	2 दुर्गाराम मंशाराम से 21/3 दुर्गा	महिला अनारक्षित	2
9	मछलगांव	9	22 भैयालाल किशन से 52 रेखाबाई मुकेश		
10	मछलगांव	10	53 बल्लूसिंह मागीलाल से 77 पूजा संजय		
11	मछलगांव	11	77/2 नन्नु हिरालाल से 95 कोमल		
12	मछलगांव	12	96 अमराजी केशव से 117 मोतीराम		
13	मछलगांव	13	119 रामसिंह से 139 क कलाबाई		
14	मछलगांव	14	140 राधीबाई मदन से 140 छ काशीराम		
15	मालखेडा	15	1 तारूबाई गणस्या से 17ख दूर्गाबाई		
16	मालखेडा	16	18 सुखीबाई नन्दराम से 36घ महेश		
17	मालखेडा	17	37 ममताबाई राधेश्याम से 53 राजकुमारी		
18	मालखेडा	18	54 इन्द्रसिंह नरसिंह से 70 सुमनबाई		
19	मालखेडा	19	71 हरचन्द हिरालाल से 87 सुभाष		
20	मालखेडा	20	88 मयाराम नत्थु से 104 सुमेर आशाराम		

सारणी

अनु- क्र.	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	गोराडिया	1	1 रामलाल से 9/1 गजेन्द्र	अ. जा.	1
2	गोराडिया	2	10 लीलाबाई से 21 कमलाबाई	अ. ज. जा.	10
3	गोराडिया	3	22 मोतीकुंवर से 28 मनीषा	अन्य पि. वर्ग	4
4	गोराडिया	4	29 बनूबाई से 48/2 जितेन्द्र	अनारक्षित	5
5	गोराडिया	5	49 शांताबाई से 61 रेखा	महिला अ.जा.	1
6	गोराडिया	6	63 बसन्तीबाई से 77/1 सचिन मनोहर	महिला अ. ज. जा.	5
7	गोराडिया	7	77/2 मंशाराम से 95 शुभम अमर	महिला अन्य पि. वर्ग	2
8	गोराडिया	8	95/1 देवेन्द्र से 110 बनु दयालसिंह	महिला अनारक्षित	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	गोराडिया	9	111 गीता 124/1 से अर्जुन		
10	गोराडिया	10	126 राधाबाई से 140/1 गोपाल रामचन्द्र		
11	गोराडिया	11	141 प्रभूलाल से 157 मोनीका राजेश		
12	गोराडिया	12	158 फुन्दाबाई से 170 लक्ष्मी		
13	गोराडिया	13	171 राजलीबाई से 201 अजोध्याबाई		
14	गोराडिया	14	202 नानईबाई से 215 गणेश जगदीश		
15	गोराडिया	15	216/1 विनोद से 227 निशा जगदीश		
16	गोराडिया	16	229 नानईबाई से 244 रेवा रविन्द्र		
17	गोराडिया	17	245 मेजला से 259/1 गीताबाई		
18	गोराडिया	18	260 मांगीबाई से 279 अनिता राजु		
19	गोराडिया	19	282 यासिन खां से 289/5 धर्मेन्द्र		
20	गोराडिया	20	289/6 पारूबाई से 314/2 नीलेश		

सारणी

अनु- क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	ईगरिया	1	1 जंगू से 22 मदन	अ. जा.	1
2	ईगरिया	2	23 नन्दू से 39 आकाश	अ. ज. जा.	8
3	ईगरिया	3	41 गजानन्द से 58 अरविन्द	अन्य पि. वर्ग	2
4	ईगरिया	4	59 नत्थुसिंह से 68 राहुल	अनारक्षित	4
5	ईगरिया	5	69 शेरसिंह से 86 पियूष	महिला अ.जा.	1
6	ईगरिया	6	87 गोपाल से 99 कविताबाई	महिला अ. ज. जा.	4
7	ईगरिया	7	100 भगवान से 120 हिरकुबाई	महिला अन्य पि. वर्ग	1
8	ईगरिया	8	121 रघुनाथ से 138 सरजुबाई	महिला अनारक्षित	2
9	ईगरिया	9	139 गोपाल से 185 नीतुबाई		
10	छिल्टीया	10	1 रघुनाथ से 14 रानु		
11	छिल्टीया	11	15 मनोहर से 29 मायाबाई		
12	छिल्टीया	12	30 नन्नीबाई से 45 जितेन्द्र		
13	छिल्टीया	13	46 ऐजुसी से 56 चांदनी		
14	छिल्टीया	14	57 खेमराज से 73 सुनिताबाई		
15	छिल्टीया	15	75 सुभान से 233 मनीषा		

सारणी

अनु- क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	ककड़गांव	1	1ध्रुव गंगाराम से 27 केशव भूरा	अ. जा.	2
2	ककड़गांव	2	28 मथुरालाल से 44 पुनीया किशन	अ. ज. जा.	10
3	ककड़गांव	3	45 पारूबाई से 59 कृष्णा	अन्य पि. वर्ग	3
4	ककड़गांव	4	60 गजानन्द से 75 कैलाश	अनारक्षित	5
5	ककड़गांव	5	77 हिरदाराम से 99 सालकराम	महिला अ.जा.	1
6	ककड़गांव	6	100 हुकुम से 120 रूखमणी	महिला अ. ज. जा.	5
7	ककड़गांव	7	121 राजेन्द्र से 147 भगवान	महिला अन्य पि. वर्ग	1
8	ककड़गांव	8	148 रामलाल से 170 मोतीराम	महिला अनारक्षित	3
9	ककड़गांव	9	171/1 मुरली से 185 गेंदीलाल		
10	ककड़गांव	10	187 महेश से 225 तिलोक		
11	रतनपुर	11	1 मुमताज से 11 अजगरअली		
12	रतनपुर	12	12 सब्बीर से 24 गुलामअली		
13	रतनपुर	13	26 कमल अली से 35/1 सकु		
14	सतवाडी	14	1 सलूबाई से 10 लक्ष्मीबाई		
15	सतवाडी	15	11 मोहन से 24 प्यारा		
16	सतवाडी	16	25क हिरालाल से 34क महेश		
17	सतवाडी	17	35 रमेश से 49 तोताराम		
18	सतवाडी	18	50 आनन्दराम से 63 रामेश्वर		
19	सतवाडी	19	64 मंशाराम से 84 ननू		
20	सतवाडी	20	85 बाबू से 106 बंटी		

सारणी

अनु- क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	कालधा	1	1 रामलाल से 9 टीपू	अ. जा.	1
2	कालधा	2	10 ठाकुर से 23 हुकूम कडवजी	अ. ज. जा.	7
3	कालधा	3	25 दूर्गाराम से 42 स्वरूपचन्द	अन्य पि. वर्ग	2
4	कालधा	4	43 देवराम से 49 योगिता	अनारक्षित	3
5	कालधा	5	60 पारूबाई से 74क तिलोकचन्द	महिला अ.जा.	1
6	कालधा	6	76 देवराम से 90 हरीबालाजी	महिला अ. ज. जा.	4
7	कालधा	7	91 गेंदालाल से 108 दयाराम	महिला अन्य पि. वर्ग	1
8	कालधा	8	109 सेवकराम से 120 तोताराम	महिला अनारक्षित	1
9	कालधा	9	121 बालकराम से 129 दूलीचन्द		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	कालधा	10	130 भागवतीबाई से 148 गजानन्द		
11	कालधा	11	149 लक्ष्मण टिकाराम से 167 अशोक		
12	कालधा	12	168 किशोर से 188 निर्मला		
13	कालधा	13	190 कचरू से 290 रीना कालु		

सारणी

अनु- क्र.	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	काल्याखेडी	1	1 सुमनबाई चम्पालाल से 14 बंशीबाई	अ. जा.	0
2	काल्याखेडी	2	15 नन्नूसिंह से 30/1 मीराबाई	अ. ज. जा.	17
3	काल्याखेडी	3	32 पार्वतीबाई से 53 सुमनबाई	अन्य पि. वर्ग	0
4	काल्याखेडी	4	54 रेशमबाई से 69 मंगतीबाई	अनारक्षित	3
5	काल्याखेडी	5	70 सावन से 84 शितलबाई	महिला अ.जा.	0
6	काल्याखेडी	6	85 फुलबाई से 99 चांदनी	महिला अ. ज. जा.	8
7	काल्याखेडी	7	100 गिलदार से 110 पारो	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	काल्याखेडी	8	111 राजाराम से 128/1 सोनू	महिला अनारक्षित	2
9	उमरदड	9	1 हजारी से 10 मौसमीबाई		
10	उमरदड	10	11 कलाबाई से 23 श्यापीबाई		
11	उमरदड	11	24 जिरभान से 38 धर्मेन्द्र		
12	उमरदड	12	39 गीताबाई से 63 वर्षा		
13	मोहनखेडी	13	1 मयाराम से 12 मंशाराम		
14	मोहनखेडी	14	13 ग्यारूबाई से 30 ज्योति		
15	मोहनखेडी	15	31 रजनीबाई से 40 जीवंती		
16	मोहनखेडी	16	41 हमदा से 57/1 सलीम		
17	मोहनखेडी	17	58 अमरसिंह से 69 अशोक		
18	मोहनखेडी	18	71 दयाराम से 87 माया		
19	मोहनखेडी	19	88 देवराम से 107/2 बस्करबाई		
20	मोहनखेडी	20	108 रमेश से 129 नयटीबाई		

सारणी

अनु- क्र.	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कांझर	1	1 कमलसिंह किशोर से 19 लालसिंग	अ. जा.	1
2	कांझर	2	20 कैलाश रघुनाथ से 49 भैयालाल छन्दू	अ. ज. जा.	13

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	कांझर	3	50 मंशाराम चम्पालाल से 68 आनन्दराम	अन्य पि. वर्ग	1
4	कांझर	4	69 रामलाल चम्पालाल से 99क रामसिंह	अनारक्षित	5
5	कांझर	5	100 दूलेसिंह भगवान से 128 भारत	महिला अ.जा.	1
6	कांझर	6	129 नहारसिंह नैनसिंह से 163 जोगीलाल	महिला अ. ज. जा.	7
7	रामपुरा	7	1 संगीता महेश से 30 नन्दकिशोर	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	रामपुरा	8	31 मोजीलाल दयाराम से 57 पाण्डु श्यामा	महिला अनारक्षित	2
9	रामपुरा	9	58 भावलिया दल्लू से 91 सोहन भोला		
10	कुण्डिया	10	1 रेमसिंह खुमसिंह से 27 मेहताबसिंह		
11	कुण्डिया	11	28 छतरसिंह छगन से 60 गल्या नहार		
12	बामनडोकरी	12	1 गोरेलाल बालू से 58 सोनारिया छोटू		
13	बाडी	13	1 केशव मांगीलाल से 32 याकूब		
14	बाडी	14	33 शब्बीरखां फत्तु से 66 दयालसिंग		
15	बाडी	15	67 भारत मुरार से 104 अनोखीलाल		
16	बाडी	16	105 जसवंत रामसिंह से 136 कनीशाबी		
17	नागझिरी	17	1 नन्दराम चन्दर से 32 हरीकरण छोल्या		
18	नागझिरी	18	33 कन्हैया गडबड से 62 कालु श्यामलाल		
19	हाण्डीकुण्डी	19	1 भावला सालम से 29 नत्थु सोमला		
20	हाण्डीकुण्डी	20	30 कालु केकडिया से 67क काबलसिंग		

सारणी

अनु- क्र.	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	केदवां	1	1 गेंदालाल से 20 केशलाल	अ. जा.	1
2	केदवां	2	22 फुलचन्द से 35 घ देवीलाल	अ. ज. जा.	9
3	केदवां	3	36 राम बहादुर से 51 गजानन्द	अन्य पि. वर्ग	4
4	केदवां	4	52 छोगालाल से 65 कालुराम	अनारक्षित	4
5	केदवां	5	66 गेंदालाल से 84 रेवाराम	महिला अ.जा.	1
6	केदवां	6	85 मोहन से 111 प्रकाश	महिला अ. ज. जा.	5
7	केदवां	7	113 रामेश्वर से 130 अनोखीलाल	महिला अन्य पि. वर्ग	2
8	केदवां	8	132 जगदीश से 145 रामप्यारीबाई	महिला अनारक्षित	2
9	केदवां	9	146 कडवा से 163 समोतीबाई		
10	केदवां	10	165 कन्हैया से 186 राजु		
11	केदवां	11	187 सोम्मर से 203 रणछोड		
12	केदवां	12	104 सरदार से 223 अंगूर		
13	केदवां	13	224 तखीया से 235 घ औंकार		
14	केदवां	14	236 गेंदाबाई से 259 धन्नालाल		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	केदवां	15	260 टुकडिया से 274 लालसिंह		
16	केदवां	16	279 जेमा से 293 एराग		
17	केदवां	17	294 नानसिंह से 304 शंकर		
18	केदवां	18	305 जगन से 914 प्रेरणा		

सारणी

अनु- क्र.	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	खेरदा	1	1 तुकाराम भीकाजी से 17 मुजीदखां	अ. जा.	1
2	खेरदा	2	18 मुक्रीम खां दाउदखां से 35 महिकाल	अ. ज. जा.	13
3	खेरदा	3	36 शौभाराम से 57 दूलीचन्द	अन्य पि. वर्ग	1
4	खेरदा	4	58 नन्दू शौभाराम से 77 नन्नु	अनारक्षित	5
5	खेरदा	5	78 पंचम बाबू से 97 ताराचन्द	महिला अ.जा.	1
6	खेरदा	6	98 श्याणीबाई पंचम से 119 राधाबाई	महिला अ. ज. जा.	7
7	खेरदा	7	120 दशरथ रूपसिंह से 136 गोविन्द	महिला अन्य पि. वर्ग	0
8	खेरदा	8	137 नाजा भाया से 150 हमीर	महिला अनारक्षित	2
9	खेरदा	9	151 देवसुर दाया से 167 लखुबाई		
10	खेरदा	10	168 राधीबाई से 186 देवा अमरा		
11	खेरदा	11	186 पुनमचन्द देवा से 203 बूटासिंह		
12	खेरदा	12	204 सोहुबाई फुलसिंह से 220 नरसिंह		
13	खेरदा	13	220/2 रूपसिंह से 231 गमासिंह		
14	खेरदा	14	232 लाला सामंत से 288 राधीबाई भूरेसिंह		
15	रोशिया	15	1 गेंदुबाई गिरवर से 18 हिम्मत		
16	रोशिया	16	19 लाडकीबाई लक्ष्मण से 35 दलपत		
17	रोशिया	17	36 बाबू गणपत से 50 सुमनबाई		
18	रोशिया	18	51 नवलसिंह तेजसिंह से 62 कमालसिंह		
19	रोशिया	19	63 नवलसिंह बदनसिंह से 81 बापूसिंह		
20	रोशिया	20	82 कमलाबाई भैरसिंह से 100 रमाबाई		

सारणी

अनु- क्र.	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	खुडगांव	1	2 बट्टीप्रसाद से 15 अनोकचन्द	अ. जा.	2
2	खुडगांव	2	20क तुलसीराम से 41 देवराम	अ. ज. जा.	8
3	खुडगांव	3	42 रेखाबाई से 58 नानुराम	अन्य पि. वर्ग	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	खुडगांव	4	60 राधेश्याम से 80 कन्हैया	अनारक्षित	4
5	खुडगांव	5	82 रामलाल से 102 फतीबाई	महिला अ.जा.	1
6	खुडगांव	6	103 कालीबाई से 122घ बनारसबाई	महिला अ. ज. जा.	4
7	खुडगांव	7	125 कुसुमबाई से 146ग चम्पालाल	महिला अन्य पि. वर्ग	1
8	खुडगांव	8	149 बंशीधर से 178क रामुबाई	महिला अनारक्षित	2
9	खुडगांव	9	181 नत्थु से 209 शौभाराम		
10	बडगांव	10	1 शांतिलाल से 21घ गुलाबबाई		
11	बडगांव	11	29 शांताबाई से 50क शारदाबाई		
12	बडगांव	12	51 नानुराम से 67 भूरीबाई		
13	खेडा जागीर	13	2 बाहरय से 25 डोंगरसिंह		
14	शेहनाजपुर	14	1 गेंदालाल से 25 लीलाबाई		
15	शेहनाजपुर	15	26 नानसिंह से 46क रामलाल		
16	शेहनाजपुर	16	47 कलाबाई से 57 म प्यारा		

सारणी

अनु- क्र.	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कोदला जागीर	1	1 दिलीप रामचन्द्र से 11 रेशमबाई	अ. जा.	0
2	कोदला जागीर	2	12 छोगालाल गप्पू से 20 कालु छोटिया	अ. ज. जा.	11
3	कोदला जागीर	3	21 चम्पालाल छोटिया से 32 रमेश छितर	अन्य पि. वर्ग	4
4	कोदला जागीर	4	32 सुशीलाबाई हरीराम से 38 मंगल्या	अनारक्षित	4
5	कोदला जागीर	5	39 कालु मयाराम से 43 रामसिंह किशोर	महिला अ.जा.	0
6	कोदला जागीर	6	44 जगन्नाथ माधवसिंह से 55 चैनसिंह	महिला अ. ज. जा.	6
7	कोदला जागीर	7	56 बुधिया गंगाराम से 71 किशन कालु	महिला अन्य पि. वर्ग	2
8	कोदला जागीर	8	72 अबेसिंह मोतीराम से 80 काशीराम	महिला अनारक्षित	2
9	कोदला जागीर	9	81 शंकर घिसाजी मंगत से 94 रामचन्द्र		
10	कोदला जागीर	10	95 गोपीबाई भगवान से 115 घिसीलाल		
11	कोदला जागीर	11	116 नत्थु दल्लू से 126 राधा		
12	कोदला जागीर	12	128 अनार पुलिया से 142 बावरिया सुरज्या		
13	कोदला जागीर	13	143 रमणीबाई हरेसिंह से 150 मेहताब		
14	कोदला खालसा	14	1 शांता रामचन्द्र से 13 शंकर मंशाराम		
15	कोदला खालसा	15	15 शिवराम मंशाराम से 30 धुपीबाई फाटा		
16	कोदला खालसा	16	31 किशन से 45 भगवान मांगीलाल		
17	कोदला खालसा	17	46 देवेसिंह से 52 क रीछु मडिया		
18	कोदला खालसा	18	52 ख श्यामु केदू से 61 मोहन बनजी		
19	कोदला खालसा	19	63 गोरखीया नेवेसिंह से 75 ओमप्रकाश		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	लालखेडा	1	1 कमलाबाई रामकृष्ण से 17 मोतीराम	अ.जा.	2
2	लालखेडा	2	19 कन्हैया रतन से 31 कलाबाई	अ.ज.जा.	10
3	लालखेडा	3	33 प्रेमलाल से 41 घ दयाराम	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4	लालखेडा	4	43 अनोखीलाल से 55 रामदास	अनारक्षित	4
5	लालखेडा	5	56 बसंतीबाई से 69 कलबाई सजन	महिला अ.जा.	1
6	लालखेडा	6	70 मोहम्मद सोएब शेख से 89 रामलाल	महिला अ.ज.जा.	5
7	लालखेडा	7	90 मयाराम खुशीलाल से 104 हुकूम	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
8	लालखेडा	8	105 कडवा नत्थुलाल से 116 बलीराम	महिला अनारक्षित	2
9	लालखेडा	9	117 रूपजी माधव से 132 पार्वती दयाराम		
10	लालखेडा	10	133 द्वारकाबाई रामदास से 152 क मेहबूब		
11	लालखेडा	11	152 ख मोहम्मद सिकंदर से 166 क		
12	लालखेडा	12	168 नत्थु शंभू से 177 शौभाराम		
13	लालखेडा	13	178 क मोहन से 193 अनोखीलाल		
14	लालखेडा	14	194 अमिनाबाई सिकंदर से 212 बसूबाई		
15	लालखेडा	15	213 सलूबाई दौला से 232 हरी झण्डू		
16	लालखेडा	16	234 ईलारीबाई झण्डू से 251 रामुबाई		
17	लालखेडा	17	253 पूनमचन्द राजाराम से 226 बावरा		
18	लालखेडा	18	268 दूरपताबाई बाबूलाल से 287 मोहन		
19	लालखेडा	19	293 टूटीबाई कुवरबाई से 358 रमेश		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	मछलगाम	1	01 जगदिश से 20 औंकार	अ.जा.	2
2	मछलगाम	2	21 लच्छु से 40 डाकुर	अ.ज.जा.	9
3	मछलगाम	3	42 दयाराम से 67 कमल	अन्य पिछड़ा वर्ग	2
4	मछलगाम	4	68 सवित्रीबाई से 89 भुवानी शंकर	अनारक्षित	4
5	मछलगाम	5	90 दयाराम से 111 राकेश	महिला अ.जा.	1
6	मछलगाम	6	112 रूखमणीबाई से 133 कपूरचंद	महिला अ.ज.जा.	5
7	मछलगाम	7	134 बुधीया से 149 अमर	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	1
8	मछलगाम	8	150 पाण्डु से 170 विनोद	महिला अनारक्षित	2
9	मछलगाम	9	171 मंगत से 190 दिनेश		
10	मछलगाम	10	191 छगन से 213 मोहन		
11	मछलगाम	11	214 गंगाराम से 238 संतोष		
12	मछलगाम	12	240 नानकराम से 253 दिनेश		
13	मछलगाम	13	254 मदनलाल से 274 रामदास		
14	मछलगाम	14	275 हुकुम से 290 अरूण		
15	मछलगाम	15	292 संजय से 308 नन्दु		
16	मछलगाम	16	309 राधेश्याम से 335 शंकर		
17	मछलगाम	17	336 कपूरसिंह से 359 कडवा		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नरगांव	1	1 सजनसिंह से 14/2 भीमसिंह	अ.जा.	0
2	नरगांव	2	15/1 नारायण से 35 भाईराम	अ.ज.जा.	7
3	नरगांव	3	36 दगडीबाई से 64 नवसीबाई	अन्य पिछड़ा वर्ग	2
4	नरगांव	4	67 श्यामुबाई से 85 बनारसीबाई	अनारक्षित	3
5	नरगांव	5	86 इन्दरसिंह से 100 अनुसया	महिला अ.जा.	0
6	नरगांव	6	101 कौशल्याबाई से 121 भापडीबाई	महिला अ.ज.जा.	4
7	नरगांव	7	122 मीराबाई से 134 कल्लु टट्टु	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	1
8	नरगांव	8	135 किशोरीचन्द से 161 श्रीनिवास	महिला अनारक्षित	1
9	नरगांव	9	162 राजकुमार से 185 अंतर चैना		
10	नरगांव	10	186 गन्नु चैना से 212 राधेश्याम		
11	नरगांव	11	213 रामईबाई से 230 लाड़कीबाई		
12	नरगांव	12	231 गोविंद दयाराम से 255 नकुल		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	निमोनी	1	1 प्रताप जोगडिया से 09 लक्ष्मण	अ.जा.	2
2	निमोनी	2	10 तेसराम से 17 चैनसिंह भीमसिंह	अ.ज.जा.	17
3	निमोनी	3	18 सेंदाबाई से 25 मुन्नालाल जुवानसिंह	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
4	निमोनी	4	26 डेड्डु जवानसिंह से 34 जतन धुधरिया	अनारक्षित	1
5	निमोनी	5	36 रामसिंह भोंगडा से 47 धनसिंह सड्डु	महिला अ.जा.	1
6	निमोनी	6	48 अंतुबाई से 56 प्रेमसिंह चन्दरिया	महिला अ.ज.जा.	9
7	निमोनी	7	58 रतन चंदरिया से 70 सुंभान फटलिया	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
8	निमोनी	8	71 चमारिया से 81 जामसिंह जुखला	महिला अनारक्षित	0
9	निमोनी	9	82 मुशा खुमसिंह से 92 जिरिया भुरा		
10	निमोनी	10	93 हरलाल भुरा से 105 अनोपसिंह		
11	निमोनी	11	106 वेस्ता रिछु से 119 प्रेमसिंह गुलसिंह		
12	निमोनी	12	120 जमसिंह गमरसिंह से 129 प्रेमसिंह		
13	बिजासनी	13	1 अमरसिंह रिछु से 17 हिरालाल नुरा		
14	बिजासनी	14	18 मलकीबाई भुवान से 31 तेरसिंह		
15	बिजासनी	15	32 लालसिंह रिछु से 45 खेमा धन्ना		
16	बिजासनी	16	46 माधव धन्ना से 55 अनारसिंह		
17	बिजासनी	17	56 कलसिंह पातलिया से 79 किशोर		
18	साला	18	1 नवसीबाई धना से 20 राधेश्याम भारत		
19	साला	19	21 मानसिंह रामा से 39 बिजन धन्नालाल		
20	साला	20	40 हिरालाल मोतीराम से 65 लटुबाई		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नुरियाखेडी	1	01 मिश्रीलाल से 21 नहारू देवराम	अ.जा.	0
2	नुरियाखेडी	2	22 तिलोकचंद भारतसिंह से 42 अमरसिंह	अ.ज.जा.	9
3	नुरियाखेडी	3	44 दददुसिंह बल्लसिंह से 62 वासुदेव	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
4	नुरियाखेडी	4	63 चम्पाबाई पर्वतसिंह से 77 बापूसिंह	अनारक्षित	3
5	नुरियाखेडी	5	78 कलाबाई जसंवत से 92 भगवतीबाई	महिला अ.जा.	0
6	नुरियाखेडी	6	93 बाघसिंह दलपतसिंह से 106 शेरसिंह	महिला अ.ज.जा.	5
7	नुरियाखेडी	7	107 उधवसिंह से 120 सेकमलाबाई	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
8	नुरियाखेडी	8	123 कैलाशसिंह मांगीलाल से छायाबाई	महिला अनारक्षित	1
9	मेहत्याखडी	9	1 मनोहर बूधन से 15 कमल सबल		
10	मेहत्याखडी	10	16 राकेश टिकाराम से 34 महावीर		
11	मेहत्याखडी	11	35 रूखडु सुखिया से 51 देवकीबाई		
12	मेहत्याखडी	12	52 चम्पालाल से 71 गिरधारीलाल		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	पाडल्या ग.	1	1 सजन दगडिया से 9 ग गोकुल हारी	अ.जा.	1
2	पाडल्या ग.	2	10 डोंगरसिंह से 24 बोंदर टुकडिया	अ.ज.जा.	10
3	पाडल्या ग.	3	25 अनारसिंह से 36 ख बेनीराम	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
4	पाडल्या ग.	4	37 दूजीबाई से 48 अर्जून मंशाराम	अनारक्षित	4
5	पाडल्या ग.	5	49 भागीरथ से 60 रविन्द्र	महिला अ.जा.	1
6	पाडल्या ग.	6	61 करतार से 72 कविता	महिला अ.ज.जा.	5
7	पाडल्या ग.	7	73 देवकीबाई से 86 धनकौरबाई	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
8	पाडल्या ग.	8	87 श्याणीबाई से 105 ममताबाई	महिला अनारक्षित	2
9	पाडल्या ग.	9	106 बंशीबाई से 117 तुलसीराम		
10	पाडल्या ग.	10	118 लाडकीबाई 134 मुकेश पटेल		
11	पाडल्या ग.	11	135 अमरबाई से 148 कलाबाई यादव		
12	पाडल्या ग.	12	150 मोताबाई से 164 सपना		
13	पाडल्या ग.	13	165 गुलाबबाई से 176/2 सतनाबाई		
14	पाडल्या ग.	14	178 क कमल से 195 ख मोहन गेंदालाल		
15	पाडल्या ग.	15	196 पिकी से 208 छायाबाई रूपसिंह		
16	पाडल्या ग.	16	211 नानसिंह से 219 सीमा जितेन्द्र		
17	पाडल्या ग.	17	220 फुन्दाबाई से 224 मंगलीबाई		
18	पाडल्या ग.	18	225 छगन से 316 निहालसिंह		
19	घोघनाथ	19	1 देवकीबाई से 10/15 पिंटू रामलाल		

सारणी

अनु क्रमांक	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	पाडल्या बाबाजी	1	1 शालु बलीराम से 16 ज्योति तुकाराम	अ.जा.	2
2	पाडल्या बाबाजी	2	17 भूरी मंशाराम से 31 शितल दारासिंह	अ.ज.जा.	8
3	पाडल्या बाबाजी	3	32 गुलाबचन्द से 44 संगीता कैलाश	अन्य पिछड़ा वर्ग	2
4	पाडल्या बाबाजी	4	45 सुरेश झबर से 62 शिला चंपालाल	अनारक्षित	3
5	पाडल्या बाबाजी	5	63 लटू से 77 डोंगरसिंह देवीसिंह	महिला अ.जा.	1
6	पाडल्या बाबाजी	6	78 दशरथ बारकी 87 कमल	महिला अ.ज.जा.	4
7	पाडल्या बाबाजी	7	88 धनसिंह गणपत से 104 गेंदा शिवराम	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	1
8	केशवपुरा	8	1 मांगीलाल गबरू से 8 ललीता दयाराम	महिला अनारक्षित	2
9	खोलवा	9	1 इरफान लुकमान से 14 जैतुनबी		
10	खोलवा	10	15 नब्बू खां से 28/1 वाजिद हमीद		
11	खोलवा	11	29 तार्ईर खां से 41 जफर खां मौलान		
12	खोलवा	12	43 समसु खां से 51 शायद हुसैन		
13	खोलवा	13	52 एहमद खां से 64 मेहरबान इशाक		
14	खोलवा	14	65 हमीद खां से 79 रूखसाना कुरबान		
15	खोलवा	15	80 बनाबी इब्राहिम से 415 हब्बू रफीक		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	पलासी	1	1 देवेसिंह फलु से 12 रूखडु	अ.जा.	1
2	पलासी	2	13 सुकाजी हावसिंग से 26 पुन्नालाल	अ.ज.जा.	14
3	पलासी	3	27 संतोषबाई नन्नु से 56 रमेश भाईराम	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
4	पलासी	4	57 भाईराम नन्नु से 83 रामसिंग मोतेसिंह	अनारक्षित	5
5	पलासी	5	84 दयालसिंह से 97 गडबड नाना	महिला अ.जा.	1
6	पलासी	6	98 कैलाश जगन्नाथ से 122 पागलीबाई	महिला अ.ज.जा.	7
7	पलासी	7	123 सिंगा रूसनिया से 133/4 रामलाल	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
8	पलासी	8	135/5 श्यामलाल से 146 ग्यारसीबाई	महिला अनारक्षित	2
9	पलासी	9	147 रूमालसिंह से 161 खुमानसिंह		
10	चिकलवास	10	1 शिवराम वाला से 16 सुरज शेरसिंह		
11	चिकलवास	11	17 भगवान रामसिंह से 35 बनसिंह		
12	चिकलवास	12	36 कांताप्रसाद से 52 लालसिंह भैरू		
13	चिकलवास	13	55 ग्यानुबाई किशोर से 74 भाईराम		
14	चिकलवास	14	76 नत्थु कालु से 96 सिगदार जयराम		
15	चिकलवास	15	97 कडवा जयराम से 114 रघुनाथ		
16	चिकलवास	16	115 शिवराम बिसन से 131 छगन		
17	चिकलवास	17	131 क बदा छगन से 144 लालसिंह		
18	चिकलवास	18	145 भूरीबाई नाकु से 162 भुवानसिंह		
19	चिकलवास	19	164 रतन भंगडा से 184 मालसिंह लटू		
20	चिकलवास	20	185 सातलीबाई चमारिया से 200 भिकली		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	पत्थरवाडा	1	1 बनीबाई से 28 भोंगडा	अ.जा.	1
2	पत्थरवाडा	2	29 नहारसिंग से 42 अनसिंह	अ.ज.जा.	16
3	पत्थरवाडा	3	43 बुधीबाई से 58 भारत	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
4	पत्थरवाडा	4	59 रूपसिंह से 80 नवलसिंह	अनारक्षित	0
5	पत्थरवाडा	5	81 धनसिंह से 96 गुलसिंह	महिला अ.जा.	1
6	पत्थरवाडा	6	97 फुलसिंह से 105 गेंदाबाई	महिला अ.ज.जा.	8
7	पत्थरवाडा	7	110 ध्यानसिंह से 121 रामसिंह	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
8	पत्थरवाडा	8	123 पेसनिया से 138/2 रामसिंग	महिला अनारक्षित	0
9	पत्थरवाडा	9	139 सुकमा से 161 राल्या		
10	पत्थरवाडा	10	162 राधु से 179 सखाराम		
11	पत्थरवाडा	11	180 नूरी से 195 नहाला		
12	पत्थरवाडा	12	198 रेमसिंग से 208 सुरपाल		
13	पत्थरवाडा	13	210 रामा से 219 राधू		
14	बसंतपुरा	14	1 रेमसिंह से 14 रमेश		
15	बसंतपुरा	15	16 बगला से 28 क जामसिंह		
16	बसंतपुरा	16	29 सुखलाल से 41 चैनसिंह		
17	बसंतपुरा	17	43 पहाड़सिंग से 70 सोनीबाई		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	पोई	1	1 तेजु गुलाब से 15 श्रीराम गंगाराम	अ.जा.	0
2	पोई	2	16 रूकमणी से 27 रेवाराम गंगाराम	अ.ज.जा.	15
3	पोई	3	28 गीता भग्या से 46 किशोर	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
4	पोई	4	47 रणछोड शंकर से 56 संजय तिलोक	अनारक्षित	5
5	पोई	5	57 दयलुबाई से 65 प्रेमलाल रेवल्या	महिला अ.जा.	0
6	पोई	6	66 चुन्नीलाल से 74 फुलसिंग	महिला अ.ज.जा.	8
7	पोई	7	75 रामा से 86 दरबार	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
8	पोई	8	87 बहादुर से 101 सरदार	महिला अनारक्षित	2
9	ललनी	9	1 विट्ठल से 17 हरचंद		
10	ललनी	10	18 सेवकराम से 50 पुनमचंद		
11	ललनी	11	51 पुरणबाई से 73 काल्या		
12	ललनी	12	74 तेजल से 93 संतोष		
13	ललनी	13	94 रामकुवर से 109 सुका		
14	ललनी	14	110 भजन से 361 अमोती		
15	सोनवाडा	15	1 बुध्या से 21 सुकलिया		
16	सोनवाडा	16	22 दयाराम से 24 जगन		
17	सोनवाडा	17	45 जवानसिंग से 64 नीला		
18	सोनवाडा	18	65 राधेश्याम से 81 राजाराम		
19	सोनवाडा	19	82 भगवान से 103 नन्दू		
20	सोनवाडा	20	104 रामलाल से 310 धनुबाई		

सारणी

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)	वाडों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वाडों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	पोखर बुजुर्ग	1	1 विरेद्र से 13 कालू	अ.जा.	1
2	पोखर बुजुर्ग	2	15 चन्दबाई से 34 दौलतबाई	अ.ज.जा.	11
3	पोखर बुजुर्ग	3	36 सरदारसिंह से 54 बाबूसिंह	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4	पोखर बुजुर्ग	4	58 लोभेसिंग से 73 दशरथसिंह	अनारक्षित	5
5	पोखर बुजुर्ग	5	74 रामसिंह से 91 जसवंतसिंह	महिला अ.जा.	1
6	पोखर बुजुर्ग	6	92 सरदारसिंह से 111 तुकाराम	महिला अ.ज.जा.	6
7	पोखर बुजुर्ग	7	112 स्याणीबाई से 140 सुन्दरबाई	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	1
8	पोखर बुजुर्ग	8	142 नीलाबाई से 159 नटवरसिंह	महिला अनारक्षित	2
9	पोखर बुजुर्ग	9	160 बाबूसिंह से 176 कल्याण		
10	पोखर बुजुर्ग	10	177 रमेश से 202 रामदास		
11	पोखर बुजुर्ग	11	203 रूमसिंह से 216 नहारसिंह		
12	ऊंटखेड़ा	12	1 अनिताबाई से 13 बदीबाई		
13	ऊंटखेड़ा	13	14 भुवानसिंह से 20 नटडिया		
14	ऊंटखेड़ा	14	21 टेडू से 32 रणसिंह		
15	भोपातपुरा	15	1 औंकार से 10 सागरीबाई		
16	भोपातपुरा	16	11 सुरपाल से 21 गुलाबसिंह		
17	भोपातपुरा	17	22 कालीबाई से 32 मढिया		
18	पालडी	18	1 मनसिंह से 06 बच्चू		
19	पालडी	19	7 रम्भा से 17 जानकी		
20	पालडी	20	18 लाडकीबाई से 309क लालसिंह		

सारणी

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)	वाडों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वाडों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	पोखरखुर्द	1	1 शोभाराम होल्या से 10 अजय चम्पालाल	अ.जा.	0
2	पोखरखुर्द	2	11 रेवाराम कालू से 27 माया कालू	अ.ज.जा.	18
3	पोखरखुर्द	3	28 जसवंत शिवराम से 43 रेशम चम्पालाल	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
4	पोखरखुर्द	4	44 भुवानसिंह नानका से 57 लवकुश रेमा	अनारक्षित	1
5	पोखरखुर्द	5	58 विश्राम गुलाब से 63 मेहताब थानसिंह	महिला अ.जा.	0
6	पोखरखुर्द	6	66 जानकी मुन्ना से 71 रेखाबाई रायसिंह	महिला अ.ज.जा.	9
7	पोखरखुर्द	7	72 अनार भावसिंह से 80 बारकी विश्राम	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
8	पोखरखुर्द	8	81 तिता दवलसिंह से 92 सीमा कनसिंह	महिला अनारक्षित	1
9	पोखरखुर्द	9	93 भारत तिताराम से 99 हिरा सुरेश		
10	पोखरखुर्द	10	100 कानु काका से 116 शोभाराम मेहताब		
11	आखापुरा	11	1 माधव खुमसिंह से 10 दिनेश		
12	आखापुरा	12	11 बिलेरसिंह माचरिया से 26 रितु दिनेश		
13	आखापुरा	13	27 शंकर भोल्या से 45 शिवकन्या मुन्ना		
14	आखापुरा	14	46 प्यारसिंह से 57 रेशम कैलाश		
15	आखापुरा	15	58 टेटिया लुधिया से 73 रामसिंह		
16	आखापुरा	16	74 शंकर डुन्डा से 82 थानसिंह		
17	आखापुरा	17	83 सायबा सदिया से 93 रेशम फकरा		
18	आखापुरा	18	94 डेडू कनसिंह से 105 ममता गुलाबसिंह		
19	आखापुरा	19	106 सायबा रेमसिंह से 134 रेखा लालू		

सारणी

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	पोखराबाद	1	1 इंदर से 12 संतीष	अ.जा.	0
2	पोखराबाद	2	13 उमराव से 32 गोदावरीबाई	अ.ज.जा.	8
3	पोखराबाद	3	33 मैनाबाई से 54 अर्जुन	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
4	पोखराबाद	4	55 सुरज्या से 69 श्रवण रोडिया	अनारक्षित	3
5	पोखराबाद	5	70 नीलाबाई से 80 मुकेश अंतर	महिला अ.जा.	0
6	पोखराबाद	6	81 श्रवण लालू से 95 उमराव बजेसिंह	महिला अ.ज.जा.	4
7	पोखराबाद	7	96 नारायण छजू से 113 विक्रम उमराव	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
8	पोखराबाद	8	114 टोगी मेवालाल से 135 मोरसिंह	महिला अनारक्षित	2
9	पोखराबाद	9	136 रामसिंह से 153 जगदीश बालू		
10	पोखराबाद	10	154 राजु रणछोड़ से 167 अर्जुन		
11	पोखराबाद	11	168 इंदर से 189 रघुनाथ		
12	पोखराबाद	12	190 नन्या से 215 मंशाराम नन्दराम		
13	पोखराबाद	13	218 बोंदरबाई से 234 जगदीश शंकर		
14	पोखराबाद	14	235 मोहन तोताराम से 257 भावला		
15	पोखराबाद	15	258 बना दलसिंह से 298 इंदरसिंह		

सारणी

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	रामपुरा	1	2 शोभाराम से 16 शिवराम	अ.जा.	1
2	रामपुरा	2	17 मंशाराम से 31 नीलाबाई	अ.ज.जा.	12
3	रामपुरा	3	33 रनुबाई से 45 गजरात	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
4	रामपुरा	4	46 अनारबाई से 59 धनसिंह	अनारक्षित	3
5	रामपुरा	5	60 उमेनसिंह से 72 जसवंत	महिला अ.जा.	1
6	रामपुरा	6	73 नारायण से 79 प्रेमसिंह	महिला अ.ज.जा.	6
7	रामपुरा	7	90 जीवन से 106 अंतरसिंह	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
8	रामपुरा	8	107 बरजोर से 117 दिलावर	महिला अनारक्षित	1
9	रामपुरा	9	118 घिसीलाल से 134 दयाबाई		
10	रामपुरा	10	135 नन्दराम से 149 नहालू		
11	सोमला	11	1 हुकुमसिंह से 18 प्रेमसिंह		
12	सोमला	12	9 जयपाल से 22 खुमानसिंह		
13	सोमला	13	23 सेतुलबाई से 39 सुमेरसिंह		
14	सोमला	14	41 कडवा से 54 अनोखीबाई		
15	सोमला	15	55 जशोदाबाई से 70 लक्ष्मण		
16	सोमला	16	71 छितर से 87 दिनेशचंद्र.		

सारणी

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	रेहगांव	1	1 रामकुवर से 22/ग आशोक	अ.जा.	2
2	रेहगांव	2	23 गेंदर नत्थू से 43 गीता महादेव	अ.ज.जा.	10
3	रेहगांव	3	44 रमी शिवराम से 63 कुन्ती सुन्दरलाल	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4	रेहगांव	4	64 लोभीराम से 82 दुर्गा राधेश्याम	अनारक्षित	4
5	रेहगांव	5	83 मीठाराम रामा से 97 सकु कैलाश	महिला अ.जा.	1
6	रेहगांव	6	98 गोपीकिशन से 112 शंकरलाल	महिला अ.ज.जा.	5
7	रेहगांव	7	113 सीताराम दयाराम से 126 मांगीलाल	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
8	रेहगांव	8	127 गोविन्द से 139 रामचन्द्र बाबूलाल	महिला अनारक्षित	2
9	रेहगांव	9	142 खण्डू भोलू से 155 देवराम बाड		
10	रेहगांव	10	156 द्वारकी बाड से 174 भगवान नारायण		
11	रेहगांव	11	175 मंगती नारायण से 194 शिव गोपाल		
12	रेहगांव	12	195 घिसी से 207 गंगाराम सीताराम		
13	रेहगांव	13	208 बिरोज से 227 रमेश सीताराम		
14	रेहगांव	14	235 चम्पालाल से 254 कालू चिन्ताराम		
15	रेहगांव	15	255 नन्नु शंकर से 272 शिवराम अमरा		
16	रेहगांव	16	273 फुंदा गंगाराम से 295 गुलाबचंद		
17	रेहगांव	17	296 लाला छगन से 320 पुरुषोत्तम फत्थू		
18	रेहगांव	18	321 दिनेश बालकृष्ण से 345 बुध्या गोविन्द		
19	रेहगांव	19	346 सकु धनिया से 367 घिसी सुकलाल		

सारणी

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	रोडिया	1	1 छोगालाल से 14 संतोष	अ.जा.	1
2	रोडिया	2	15 फुंदा से 28 बालाराम	अ.ज.जा.	10
3	रोडिया	3	28/1 बसंतीबाई से 42/1 भलाजी	अन्य पिछड़ा वर्ग	2
4	रोडिया	4	44 स्याणीबाई से 55 कमलसिंह	अनारक्षित	3
5	रोडिया	5	57 तोताराम से 70 बानोबाई	महिला अ.जा.	1
6	रोडिया	6	71 सतोतीबाई से 83/1 गणेश	महिला अ.ज.जा.	5
7	रोडिया	7	87 ईस्माईखा से 102 मोहन	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	1
8	रोडिया	8	103 सोनाबाई से 124 सुशीलाबाई	महिला अनारक्षित	1
9	रोडिया	9	128 द्वारकीबाई से 154 नानकाराम		
10	रोडिया	10	155 सनवरखा से 165 जलाल		
11	रोडिया	11	166 मदन से 192 ठाकुर		
12	रोडिया	12	193 जातीबाई से 208 गमलसिंह		
13	रोडिया	13	208/1 नवसीबाई से 222/1 तुकाराम		
14	रोडिया	14	223 कालूसिंह से 239 रामसिंह		
15	रोडिया	15	240 सीताराम से 250 मंशाराम		
16	रोडिया	16	252 सुकीबाई से 261 नवीनप्रसाद		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सगुर	1	1 रामकुमारी से 29 पन्नालाल	अ.जा.	2
2	सगुर	2	30 मडुसुधन से 51 चम्पालाल	अ.ज.जा.	10
3	सगुर	3	52 सीताराम से 71 छोगालाल	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4	सगुर	4	72 रणसिंह से 104 कमला	अनारक्षित	5
5	सगुर	5	106 कुसुम से 128 गंगाराम	महिला अ.जा.	1
6	सगुर	6	130 शिवराम से 157 घिसी	महिला अ.ज.जा.	5
7	सगुर	7	158 शिवराम से 185 चम्पालाल	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	1
8	सगुर	8	186 कुसुम से 221 धन्नालाल	महिला अनारक्षित	3
9	सगुर	9	121/1 बलीराम से 231 कमल		
10	सगुर	10	232 बसंत से 260 पूर्णानन्द		
11	सगुर	11	261 हिरालाल से 298 छबू		
12	सगुर	12	299 आनन्दराम से 338 मालसिंह		
13	भगुर	13	1 दशरथ से 35 अ पन्नालाल		
14	पिपरी	14	1 पण्डरी से 23 सकुबाई		
15	पिपरी	15	24 गंगाराम से 38 धनुबाई		
16	पिपरी	16	39/1 हुकुमचंद से 52 कडवी मोतीराम		
17	पिपरी	17	53 कडवा से 69 दिनेश		
18	पिपरी	18	70/1 कमला से 89/1 किशन		
19	पिपरी	19	89/2 कमल से 135/10 संतोष		
20	पिपरी	20	135/11 कृष्णलाल से 138 रामचन्द्र		

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सांईखेडी	1	1 चमेली तापीराम से 27 नरेन्द्र मीठाराम	अ.जा.	1
2	सांईखेडी	2	28 कडवीबाई से 62/3 धीरज सीताराम	अ.ज.जा.	10
3	सांईखेडी	3	63 गणेश शंकर से 96 दिगम्बर	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
4	सांईखेडी	4	98 छितर मोहन से 113 अनुपम ताराचंद	अनारक्षित	5
5	सांईखेडी	5	114 रूखमाबाई से 136 प्रकाश भावसार	महिला अ.जा.	1
6	सांईखेडी	6	139 गणु शिवजी से 158 हंसा तुलसीराम	महिला अ.ज.जा.	5
7	सांईखेडी	7	159 बिरोज नन्दू से 177 आनन्दा नत्थू	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
8	सांईखेडी	8	178 हिरालाल से 202 संजय श्रीराम	महिला अनारक्षित	2
9	सांईखेडी	9	203/1 दयाराम से 224 संगीता		
10	सांईखेडी	10	225 मांगीलाल से 247 जयश्री कैलाश		
11	सांईखेडी	11	248 राधेश्याम से 270 सचिन दिनेश		
12	सांईखेडी	12	271 अजोदया से 293 रवि कस्तुर		
13	सांईखेडी	13	295 अमान से 313 कला परसराम		
14	सांईखेडी	14	316 शंकर गोविन्द से 339 रेखा गोलेश		
15	सांईखेडी	15	340 विनय से 354/1 समोती मंशाराम		
16	सांईखेडी	16	355 सुगना प्रेमलाल से 375 लोमेश		
17	सांईखेडी	17	378 राधेश्याम से 404 सारिका योगिन		
18	सांईखेडी	18	405 कावेरी से 434/2 माखन जगन		
19	सांईखेडी	19	435 कैलाश रूखडू से 464/1 कैलाश		
20	सांईखेडी	20	465 जगदीश से 481 वियनकुमार		

सारणी

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	सांगवी	1	1 नहारसिंह से 13 इडलिया	अ.जा.	0
2	सांगवी	2	16 घिस्व्या से 27 ममता	अ.ज.जा.	19
3	सांगवी	3	28 छगन से 35 लीलाबाई	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
4	सांगवी	4	37 भावसिंह से 46 पिकी	अनारक्षित	0
5	सांगवी	5	47 प्रताप से 63 दिनेश	महिला अ.जा.	0
6	सांगवी	6	64 रामसिंह से 76 गुमानसिंह	महिला अ.ज.जा.	10
7	सांगवी	7	77 भीमसिंह से 87 कालीबाई	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
8	सांगवी	8	88 प्यारसिंह से 97 सुरलीबाई	महिला अनारक्षित	0
9	सांगवी	9	98 मसरीबाई से 108 ममताबाई		
10	सांगवी	10	109 चन्दरीबाई से 123 गोविन्द		
11	सांगवी	11	123/ख जवानसिंह से 131 चन्दा		
12	सांगवी	12	133 दर्जी से 142 बिनबाई		
13	सांगवी	13	143 रालु से 152 पानुबाई		
14	सांगवी	14	153 सुभाष से 163 क अम्बाराम		
15	सांगवी	15	164 सकाराम से 177 क अनिता		
16	सांगवी	16	178 खुमसिंह से 192 सागरबाई		
17	ढाकबैडी	17	1 थानसिंह से 19 मेदलीबाई		
18	ढाकबैडी	18	19 क पपु से 33/1 सोनूबाई		
19	ढाकबैडी	19	37 जवानसिंह से 60 सोनू		

सारणी

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	सतवाडा	1	1 गीलदार से 16 सपना	अ.जा.	1
2	सतवाडा	2	17 पन्नालाल से 36/2 ताराबाई	अ.ज.जा.	8
3	सतवाडा	3	37 सागरबाई से 58 ईलाबाई	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4	सतवाडा	4	59 सरदार से 78 प्रमीला	अनारक्षित	4
5	सतवाडा	5	79 दिनेश से 100 प्रकाश	महिला अ.जा.	1
6	सतवाडा	6	101 भाईसिंग से 124 महेश	महिला अ.ज.जा.	4
7	सतवाडा	7	125 सेठाणीबाई से 141 रेखाबाई	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	1
8	सतवाडा	8	142 रेखासिंह से 163 रीना	महिला अनारक्षित	2
9	सतवाडा	9	164 कालू से 179 कलुबाई		
10	सतवाडा	10	181 झापडीबाई से 198 गौराबाई		
11	सतवाडा	11	199 रतन से 213 जितेन्द्र		
12	सतवाडा	12	214 नन्दलाल से 232 नाजोबाई		
13	सतवाडा	13	234 मीराबाई से 248 सुमन		
14	सतवाडा	14	249 बमनीबाई से 262 कविता		
15	सतवाडा	15	265 चम्पाबाई से 277 पप्पी		
16	सतवाडा	16	278 विजय से 309 पन्नालाल		

सारणी

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	सेल्दा	1	1 सोबरतसिंह से 45 नत्थीबाई	अ.जा.	2
2	सेल्दा	2	46 मथरालाल से 75 लक्ष्मण	अ.ज.जा.	10
3	सेल्दा	3	76 आशाराम से 107 शोभाराम	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4	सेल्दा	4	108 राजकुवर से 148 मंशाराम	अनारक्षित	5
5	सेल्दा	5	149 मयाराम से 185 नारायण	महिला अ.जा.	1
6	सेल्दा	6	188 दगडू से 216 द्वारकीबाई	महिला अ.ज.जा.	5
7	सेल्दा	7	217 दयालू से 247 लक्ष्मण	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	1
8	सेल्दा	8	249 किशन से 227 रेवाराम	महिला अनारक्षित	3
9	सेल्दा	9	278 केशर से 308 हरीराम		
10	सेल्दा	10	309 पण्डरी से 350/1 बसंती		
11	सेल्दा	11	351 निर्मल कुमार से 384 संतोष		
12	सेल्दा	12	385 गणपत से 422 घीसीबाई		
13	सेल्दा	13	423 मिसरबाई से 463 गट्टू		
14	सेल्दा	14	464 बद्रीनारायण से 512 शिवकोर		
15	सेल्दा	15	513 पूजा से 607 तुलसीराम		
16	शकरखेडी	16	1 गेंदालाल से 25 जयराम		
17	शकरखेडी	17	30 लक्ष्मीनारायण से 40 नानकराम		
18	शकरखेडी	18	44 रामलाल से 67 ऐडिया		
19	शकरखेडी	19	68 रामकुवर से 139 कृष्णलाल		
20	दगडखेडी	20	1 फुटीबाई से 19 तापीराम		

सारणी

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	शकरगांव	1	1 महेश से 14 अनोकचंद	अ.जा.	4
2	शकरगांव	2	15 दिनेश से 45 टन्टूसिंह	अ.ज.जा.	10
3	शकरगांव	3	46 कमलसिंह से 64 संतोष मीणा	अन्य पिछड़ा वर्ग	1
4	शकरगांव	4	65 जगदीश मीणा से 82 रामलाल	अनारक्षित	5
5	शकरगांव	5	83 स्यामु से 105 हबला	महिला अ.जा.	2
6	शकरगांव	6	107 देवीसिंह से 129 सदाशिव	महिला अ.ज.जा.	5
7	शकरगांव	7	131 कपूरचंद से 150 लखन	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	1
8	शकरगांव	8	152 राजू से 167/1 मुन्ना	महिला अनारक्षित	2
9	शकरगांव	9	169 गुलाबचंद से 181/2 भीलू		
10	शकरगांव	10	181/3 देवराम से 193 माणकचंद		
11	शकरगांव	11	197 मोतीराम से 227 पुनमचंद		
12	शकरगांव	12	228 मुन्नु से 254 अशोक		
13	शकरगांव	13	256 छितर से 296/ ख रमेश		
14	मालखेड़ा	14	1 विक्रम से 15 रमेश		
15	मालखेड़ा	15	16 धनसिंह से 29 कालूसिंह		
16	मालखेड़ा	16	30 मंशाराम से 43 जयजयराम		
17	मालखेड़ा	17	45 अनारसिंह से 61 राधेश्याम		
18	मालखेड़ा	18	62 छगन से 74 लंकेश		
19	मालखेड़ा	19	75 हरेसिंह से 92 राजाराम		
20	मालखेड़ा	20	93 रामलाल से 108 शंकर		

सारणी

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	सिराली	1	1 कडवा सीताराम से 16 विक्रमसिंह	अ.जा.	2
2	सिराली	2	17 अमरसिंह से 38 श्रवण	अ.ज.जा.	9
3	सिराली	3	39 हिरूबाई से 56 डाकोरसिंह	अन्य पिछड़ा वर्ग	1
4	सिराली	4	57 गंगाराम रूपचंद से 73 तिलोकचंद	अनारक्षित	4
5	सिराली	5	74 तुकाराम से 89 कडवा	महिला अ.जा.	1
6	सिराली	6	90 भैयालाल से 101/4 औंकारसिंह	महिला अ.ज.जा.	5
7	सिराली	7	102 ठाकुर से 128क राजाराम	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	1
8	सिराली	8	129 नत्थू से 141 छोगालाल	महिला अनारक्षित	1
9	सिराली	9	142 बस्करबाई से 157 कन्हैया		
10	सिराली	10	158 टीकाराम से 172 झुरमुलबाई		
11	सिराली	11	173 रामलाल से 186 बलीराम		
12	सिराली	12	187 संतोषबाई से 210 कमलेश		
13	नवलपुरा	13	1 जगदेवसिंह से 12 अनारसिंह		
14	नवलपुरा	14	13 अनारबाई से 29 कडवा नन्तू		
15	नवलपुरा	15	30 शांताबाई से 41 जसवंतसिंह		
16	नवलपुरा	16	42 मदन से 66 सालकराम		

सारणी

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	सुन्देल	1	1 सोहनलाल मोतीलाल से 33 श्रीराम	अ.जा.	1
2	सुन्देल	2	35 शंकर टूटा से 61 सबल्या नाग्या	अ.ज.जा.	14
3	सुन्देल	3	61/क सोनीलाल नाग्या से 89 अनार	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
4	सुन्देल	4	91 गंगाराम फत्थू से 114 भारत रामलाल	अनारक्षित	5
5	सुन्देल	5	115 चम्पू से 130 सीताराम मायाराम	महिला अ.जा.	1
6	सुन्देल	6	131 टीकाराम से 159 हरीराम सखाराम	महिला अ.ज.जा.	7
7	सुन्देल	7	161 नथीबाई पुनाजी से 180 मदन शंकर	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
8	सुन्देल	8	181 क किशोर से 208/2 केशरबाई	महिला अनारक्षित	2
9	सुन्देल	9	209 चम्पालाल गोविन्द से 229 गोपाल		
10	सुन्देल	10	231 शांताबाई कन्हैया से 257 सुखलाल		
11	सुन्देल	11	258 बरमीबाई से 285 मदन दगडू		
12	सुन्देल	12	286 प्रेमचंद दयाराम से 307 रेवला		
13	सुन्देल	13	308 दशरथ नाना से 376 शांताबाई		
14	सुन्देल	14	315 भारत गुलाब से 330 भूरेलाल बद्री		
15	सुन्देल	15	331 भुवान बद्री से 345 गुलाब कन्हैया		
16	सुन्देल	16	345/1 नुरू से 359/4 सखाराम		
17	सुन्देल	17	359/5 हिरालाल टूटा से 372 रामसिंह		
18	कोडियाखाल	18	1 ध्यानसिंह चमार से 15/1 सोमला		
19	कोडियाखाल	19	16 वेस्तीबाई बुटला से 30 क सायमल		
20	कोडियाखाल	20	31 रतन सेकड़िया से 45 रामसिंह दरबार		

सारणी

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	सुर्वा	1	1 गोपाल से 17 धर्मेन्द्र जगन्नाथ	अ.जा.	2
2	सुर्वा	2	18 नर्मदा से 45 चन्दु शेखर	अ.ज.जा.	9
3	सुर्वा	3	47 घनश्याम से 63 क गणेश	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4	सुर्वा	4	68 चिन्ताराम से 88 गजानन्द	अनारक्षित	4
5	सुर्वा	5	69 हुकुमचंद से 110 गुला	महिला अ.जा.	1
6	सुर्वा	6	112 गोकुल से 132 कृष्णलाल	महिला अ.ज.जा.	5
7	सुर्वा	7	133 मधुरालाल से 159 अनोखीलाल	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	1
8	सुर्वा	8	159 क सरस्वती से 189 पुन्या	महिला अनारक्षित	2
9	सुर्वा	9	190 रामकुवर से 207 मोतीराम		
10	सुर्वा	10	208 धनसिंह से 225 नानकराम		
11	सुर्वा	11	226 रामेश्वर से 242 क मंशाराम		
12	सुर्वा	12	243 औंकार से 256 ख मनु मंशाराम		
13	सुर्वा	13	257 नाना कन्हैया से 276 मंगलू		
14	सुर्वा	14	277 पण्डरी झापु से 295 लाडकी		
15	सुर्वा	15	296 चम्पालाल से 313 क रामकरण		
16	दोंदवाडा	16	1 गंगाराम से 11 कन्हैया		
17	दोंदवाडा	17	12 गणपत से 26 सौदान		
18	दोंदवाडा	18	27 जितेन्द्र से 64 शंकर		

सारणी

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	सुर्वा कोयडा	1	1 चुन्नीलाल से 12 छज्जू	अ.जा.	0
2	सुर्वा कोयडा	2	13 चन्दू से 24 रामलाल	अ.ज.जा.	16
3	सुर्वा कोयडा	3	25 बोंदर से 33 कैलाश	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
4	सुर्वा कोयडा	4	34 अमरसिंह से 45 बाउ	अनारक्षित	3
5	रोयदड	5	1 देवलीबाई से 9 पिदा गादरिया	महिला अ.जा.	0
6	रोयदड	6	10 लक्ष्मण से 14 अमरसिंह	महिला अ.ज.जा.	8
7	रोयदड	7	17 नानसिंह से 24 पहाडसिंह	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
8	रोयदड	8	25 दिपला से 38 हुसैन	महिला अनारक्षित	2
9	रोयदड	9	40 रुखमा से 55 गिलदार		
10	रोयदड	10	56 किशन से 66 रामसिंह		
11	रोयदड	11	67 बाबू से 76 खजान		
12	रोयदड	12	77 जादिया से 88 रुखडिया		
13	रोयदड	13	90 चिड़िया से 104 ख रामसिंह		
14	रोयदड	14	105 क लालसिंह से 114 गोविन्द		
15	गवतखेडी	15	1 आला से 16 दिनेश		
16	गवतखेडी	16	17 कविता मीठाराम से 30 झिंगली		
17	गवतखेडी	17	31 समदाबाई से 62 राजेश		
18	मोहनदड	18	1 बाथू से 15 औंकार		
19	मोहनदड	19	16 सहादर से 32 कैलाश		

सारणी

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	टेमला	1	1 जगदीश से 18/1 मनीषा	अ.जा.	0
2	टेमला	2	19 बोन्दरबाई से 32/1 पुना	अ.ज.जा.	8
3	टेमला	3	33 समोतीबाई से 50 राधेश्याम	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4	टेमला	4	51 नत्थूलाल से 72 गजानन्द	अनारक्षित	4
5	टेमला	5	73 शिवशंकर से 88 जमनाबाई	महिला अ.जा.	0
6	टेमला	6	88 क किरणबाई से 102 नन्नु	महिला अ.ज.जा.	4
7	टेमला	7	103 बलीराम से 117 शंकर	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
8	टेमला	8	118 नानीबाई से 131 देवचंद	महिला अनारक्षित	2
9	टेमला	9	132 मांगीलाल से 143 जशोदा		
10	टेमला	10	144 नबुबाई से 160 सागरबाई		
11	टेमला	11	161 खुमानसिंह से 178 प्रहलाद		
12	टेमला	12	180 वेरसिंह से 185 क गेंदालाल		
13	जेतगढ	13	1 फत्थरसिंह से 12 गना		
14	जेतगढ	14	12/1 सुरज से 30/5 जगन		
15	पचम्बा	15	31 चमारिया से 44 गोरेलाल		

सारणी

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	उमरिया	1	2 फत्तुजी रामचन्द्र से 21 तुकाराम	अ.जा.	1
2	उमरिया	2	22 रामकरण झोगालाल से 39 श्रीराम	अ.ज.जा.	8
3	उमरिया	3	40 गुलाबचन्द से 59 देवराम दयाराम	अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4	उमरिया	4	60 सीताराम दयाराम से 72 प्रेमलाल	अनारक्षित	3
5	उमरिया	5	73 अरमचन्द से 91 गंगाबाई मंगत	महिला अ.जा.	1
6	उमरिया	6	92 रमेश मंगत से 109 केशरीलाल लक्ष्मण	महिला अ.ज.जा.	4
7	उमरिया	7	110 नानीबाई से 125 भलाजी	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	1
8	उमरिया	8	126 दिनेश रामसिंह से 142 महेश	महिला अनारक्षित	2
9	उमरिया	9	143 गुलाबचन्द से 165 बालकराम देवराम		
10	उमरिया	10	166 आनन्दराम से 192 देवराम सीताराम		
11	उमरिया	11	193 भिग्या से 212 रमेश फत्तु		
12	उमरिया	12	213 पन्नालाल से 226 सेवकराम		
13	उमरिया	13	227 मिश्रीलाल से 249 दयाराम		
14	उमरिया	14	250 छतरसिंह से 280 फुलसिंह		
15	उमरिया	15	281 अरमसिंह से 337 भुवानीराम		

सारणी

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	भोपाडा	1	1 अमरसिंह से 9 नारायण तक	अ.जा.	1
2	भोपाडा	2	11 गेंदालाल से 28 निलेश भाई तक	अ.ज.जा.	7

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	भोपाडा	3	30 अमरसिंह से सुभ्रदाबाई तक	अन्य पिछड़ा वर्ग	1
4	भोपाडा	4	53 गोकुल से 74 चंदन तक	अनारक्षित	3
5	भोपाडा	5	75 ताराबाई से 94 वर्षाबाई तक	महिला अ.जा.	1
6	भोपाडा	6	95 रेखाबाई से 112 अनसिंह तक	महिला अ.ज.जा.	4
7	भोपाडा	7	113 राजाराम से 130 मुन्नीबाई तक	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	1
8	भोपाडा	8	131 गुलाब से 144 गुलाबबाई तक	महिला अनारक्षित	1
9	भोपाडा	9	145 नान्दला से 156 पार्वतीबाई तक		
10	भोपाडा	10	156/1 नीरु से 165 सुनिताबाई तक		
11	भोपाडा	11	168 मदन से 183 विकास तक		
12	भोपाडा	12	184 रोशन से 207/3 सजनबाई तक		

सारणी

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	वल्का	1	1 बालाराम से 14 आशाराम	अ.जा.	0
2	वल्का	2	15 सरदार से 25 कालु	अ.ज.जा.	6
3	वल्का	3	26 जगदीश से 42 सोमलाल	अन्य पिछड़ा वर्ग	2
4	वल्का	4	43 शांताबाई से 60 पुनमचन्द	अनारक्षित	3
5	वल्का	5	61 भूरा से 80 ग्यारसीबाई	महिला अ.जा.	0
6	वल्का	6	81 बाबूलाल से 114 गुमानसिंह	महिला अ.ज.जा.	3
7	सिंगारचोरी	7	1 मंगतीबाई से 19 हबेसिंह	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	1
8	सिंगारचोरी	8	20 बाबूलाल से 37 श्रीचन्द	महिला अनारक्षित	2
9	सिंगारचोरी	9	38 नन्दू से 58 झबरसिंह		
10	सिंगारचोरी	10	59 सुर्या से 77 रामा		
11	सिंगारचोरी	11	78 नैनसिंह से 100 तारासिंह		

सारणी

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	जमन्या बुजुर्ग	1	1 कैलाश से 16 धर्मेन्द्र	अ.जा.	0
2	जमन्या बुजुर्ग	2	17 नवल से 37 सीमा	अ.ज.जा.	6
3	जमन्या बुजुर्ग	3	38 गणपत से 55 पिंकी	अन्य पिछड़ा वर्ग	2
4	जमन्या बुजुर्ग	4	56 फलतु से 71 प्रमोद	अनारक्षित	4
5	जमन्या बुजुर्ग	5	73 सईराम से 88 राधा	महिला अ.जा.	0
6	जमन्या बुजुर्ग	6	89 गोगलीबाई से 111 चमू	महिला अ.ज.जा.	3
7	जमन्या बुजुर्ग	7	112 सोनू से 126 रिंकी	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	1
8	जमन्या बुजुर्ग	8	127 श्याणीबाई से 147 मुकेश	महिला अनारक्षित	2
9	जमन्या बुजुर्ग	9	148 बसुबाई से 164 उर्मिला		
10	जमन्या बुजुर्ग	10	166 पूरा से 184 इन्द्रपाल		
11	जमन्या बुजुर्ग	11	185 बालू से 201 रमेश		
12	जमन्या बुजुर्ग	12	200 रुमाल से 229 मोहन		

सारणी

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	पिपराड	1	1 नारायण नन्दराम से 15 नरेन्द्र बालकृष्ण	अ.जा.	1
2	पिपराड	2	16 कैलाश तुकाराम से 33 पुनम छगन	अ.ज.जा.	10
3	पिपराड	3	34 धूमसिंह गरिबा से 42 क भागीरथ	अन्य पिछड़ा वर्ग	4
4	पिपराड	4	43 गोविन्द रघुनाथ से 54 क दगडू	अनारक्षित	5
5	पिपराड	5	55 इन्दर डोंगर से 63 क लक्ष्मी बनसिंह	महिला अ.जा.	1
6	पिपराड	6	65 कन्हैया दयाराम से 79 बाबू रतन	महिला अ.ज.जा.	5
7	पिपराड	7	80 गोपाल विश्राम से 89 कमला रामलाल	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
8	पिपराड	8	90 सावित्री कल्लू से 99 कडवा देवराम	महिला अनारक्षित	2
9	पिपराड	9	100 काशीराम नारायण से 122 क पारू		
10	पिपराड	10	123 सीताराम बनवट से 148 गजानन्द		
11	पिपराड	11	149 गजानन्द फल्लु से 160 क डिग्रीलाल		
12	पिपराड	12	161 नन्नू नत्थु से 171 ख आनन्दराम		
13	पिपराड	13	172 रामचन्द्र भाईराम से 188 पारूबाई		
14	पिपराड	14	189 मुरार चम्पालाल से 207 लखन		
15	पिपराड	15	208 उमराव गणपत से 225 चमारिया		
16	पिपराड	16	226 अनसिंह गोमा से 292 क सरदार		
17	पिपराड (धोबीखोदरा)	17	50 प्रवीण हुकुम से 242 क रुलसिंग		
18	—"—	18	246 गुलाब तेरसिंह से 259 बहादर		
19	—"—	19	260 सोमली भावसिंह से 272 क सुखलाल		
20	—"—	20	273 कमला गुलाब से 293 धन्नालाल		

सारणी

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	पिपल्या बुजुर्ग	1	1 रामप्रकाश से 15 बांछा मांग्या	अ.जा.	1
2	पिपल्या बुजुर्ग	2	16 सुदलीबाई से 27 धन्नाजी	अ.ज.जा.	14
3	पिपल्या बुजुर्ग	3	28 काशीराम से 38 आशाराम	अन्य पिछड़ा वर्ग	0
4	पिपल्या बुजुर्ग	4	39 सुबी पोपट से 52 सीताराम	अनारक्षित	5
5	पिपल्या बुजुर्ग	5	53 रमतीबाई छगन से 75 यशवंत	महिला अ.जा.	1
6	पिपल्या बुजुर्ग	6	76 रमेश ओकार से 91 मुकेश	महिला अ.ज.जा.	7
7	पिपल्या बुजुर्ग	7	92 भागचंद दालु से 119 नन्नु श्याम	महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
8	पिपल्या बुजुर्ग	8	111 सुकलाल फल्लु से 125 जगन हाजरा	महिला अनारक्षित	2
9	पिपल्या बुजुर्ग	9	126 झबरसिंग सहादर से 137 पठानसिंग		
10	पिपल्या बुजुर्ग	10	138 चैनसिंह भारसिंग से 155 टकर रमाल		
11	पिपल्या बुजुर्ग	11	156 शाहदीबाई से एच-1 पुजा विक्रम		
12	भीकनगांव रेवे.	12	1 विजय गेंदालाल से 23/2 जगदिश		
13	भीकनगांव रेवे.	13	24 बुदया गटिया से 63/1 विजय		
14	भीकनगांव रेवे.	14	64 रामई ग्यानु से 91 किशोर बाबु		
15	भीकनगांव रेवे.	15	92 पर्वत बाबु से 121/1 हरसिंह भोलु		
16	भीकनगांव रेवे.	16	123 शंकर भील्या से 31 रमेश गणपत		
17	भीकनगांव रेवे.	17	32 सोहन गणपत से 132/1 वसीम		
18	सिरालाबाद	18	1 गणपम कचरिया से 16 पिंजारी माधू		
19	सिरालाबाद	19	14 परसराम चतरसिंह से 36 झिगली		
20	सिरालाबाद	20	37 हरदास शंकर से 52 ए सेवती गरदन		

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन (म.प्र.)

ग्राम पंचायत : डोंगरचिचली

परिशिष्ट-5 (अ)

खरगोन, दिनांक 8 मई 2014

क्र. 13367-पंचा. निर्वाचन-2014-15.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण (5)
1	डोंगरचिचली	1	म.नं. 1 लालसिंह से म.नं. 60 छगन रजला तक	अ.जा. 01
		2	म.नं. 61 झंझाड से म.नं. 78 पुना रूपा तक	अ.ज.जा. 14
		3	म.नं. 79 पाची खजान से म.नं. 96 इलाकी कैलाश तक	पि. वर्ग 00
		4	म.नं. 97 चेकली हजारिया से म.नं. 189ख मांगीलाल हीरा तक	अनारक्षित 05
		5	म.नं. 190ख देसा माना से म.नं. 278ख सेवंतीबाई तक	महिला अ.जा. 00
		6	म.नं. 279 भुरू से म.नं. 283ख बुदीबाई तक	महिला अ.ज.जा. 07
			म.नं. 1 उडल्या से म.नं. 6 बाली तक	महिला पि. वर्ग 00
		7	म.नं. 27 ईडा से म.नं. 39 हीरलीबाई तक	महिला अनारक्षित 03
			म.नं. 1 भायला से म.नं. 48 फुलसिंग तक	
		8	म.नं. 49 उंकार से म.नं. 51 जानकी तक	
			म.नं. 101 गंगाराम से म.नं. 126 केदार तक	
		9	म.नं. 127 भाया खिरमा से म.नं. 153 रूपेश बिसन तक	
		10	म.नं. 154 पुनी मेघा से म.नं. 184 लाखी कान्हा तक	
		11	म.नं. 185 माणी कालु से म.नं. 222ख रजनी ओमप्रकाश तक	
		12	म.नं. 213 कोटवाल दरजिया से म.नं. 239 युवराज शिवराम तक	
		13	म.नं. 240 पुंजा शंकर से म.नं. 254 मंगीबाई तक	
		14	म.नं. 12 लाहदरि से म.नं. 283ख विक्रम रूपसिंग तक	
		15	म.नं. 18 राजाराम से म.नं. 253 सुतार बुडा तक	
	बड्या	16	म.नं. 1 सलु ताराचंद से म.नं. 31 ताराचंद सुमेर तक	
		17	म.नं. 32 सुखदेव बोंदर से म.नं. 58 चुन्नी कोटवाल तक	
		18	म.नं. 59 दौलत किशन से म.नं. 88 उषा प्रताप तक	
		19	म.नं. 89 ममता प्रदीप से म.नं. 114 राहुल दिलीप तक	
		20	म.नं. 115 बीना शोभाराम से म.नं. 156 जाना टेडु तक.	

ग्राम पंचायत : डोंगरगांव

परिशिष्ट-5 (अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ

(2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण (5)
1	डोंगरगांव	1	म.नं. 1 सुखराम से म.नं. 18 नंदकिशोर तक	अ.जा. 02
		2	म.नं. 19 धनजी से म.नं. 40ख रमेश तक	अ.ज.जा. 10
		3	म.नं. 41ख बद्रीलाल से म.नं. 75 राधेश्याम तक	पि. वर्ग 03
		4	म.नं. 76 रामण्या सद्दु से म.नं. 94 हीरालाल तक	अनारक्षित 05
		5	म.नं. 96 सीताराम से म.नं. 110 स्याणी तक	महिला अ.जा. 01
		6	म.नं. 111 मनोहर से म.नं. 125 भोलु तक	महिला अ.ज.जा. 05
		7	म.नं. 128 गोगल से म.नं. 149 केशर तक	महिला पि. वर्ग 02
		8	म.नं. 150 मोतीराम से म.नं. 175 उर्मिला तक	महिला अनारक्षित 03
		9	म.नं. 176 सलु से म.नं. 200ख गोविन्द तक	
		10	म.नं. 201 किशन से म.नं. 228 जानकी तक	
		11	म.नं. 229 बद्रीलाल से म.नं. 250 राजाराम तक	
		12	म.नं. 252 मोहन से म.नं. 271 मयाराम तक	
		13	म.नं. 273 गेंदा से म.नं. 299 रूकमणी तक	
		14	म.नं. 300 दयाराम से म.नं. 313 दयाराम गंगाराम तक	
		15	म.नं. 214 मांगीलाल से म.नं. 329 पुरूषोत्तम तक	
		16	म.नं. 330 मंशाराम से म.नं. 347 धन्नालाल तक	
		17	म.नं. 348 हरी से म.नं. 364 रामरतन तक	
		18	म.नं. 366 जगदीश से म.नं. 386 गुलाबचंद तक	
		19	म.नं. 387 गोकुल से म.नं. 409 लाडकी तक	
		20	म.नं. 411 जगन से म.नं. 437 रेखा तक.	

ग्राम पंचायत : गावसन

परिशिष्ट-5 (अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण (5)
1	गावसन	1	म.नं. 2 रमेश से म.नं. 16 रविन्द्र तक	अ.जा. 02
		2	म.नं. 17 लिम्या से म.नं. 36 कैलाश तक	अ.ज.जा. 09

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		3	म.नं. 37 छोट्या से म.नं. 51 राहूल तक	पि. वर्ग 03
		4	म.नं. 54 तुलसी से म.नं.74ख विजय तक	अनारक्षित 04
		5	म.नं. 77 बुध्या से म.नं. 99 अंजु तक	महिला अ.जा. 01
		6	म.नं. 100 जानकी से म.नं. 131ग राजकोर तक	महिला अ.ज.जा. 05
		7	म.नं. 132 कडवा से म.नं. 150 गायत्री तक	महिला पि. वर्ग 02
		8	म.नं. 151 वासुदेव से म.नं. 166 अशिष तक	महिला अनारक्षित 02
		9	म.नं. 167 सुक्या से म.नं. 185 शुभम तक	
		10	म.नं. 186 झनुका से म.नं. 208 विवेक तक	
		11	म.नं. 209 सोहन से म.नं. 240 रीना तक	
		12	म.नं. 242 राजाराम से म.नं. अंत तक रेखा तक	
सोनतलाव		13	म.नं. 4 बलीराम से म.नं. 22ख माया तक	
		14	म.नं. 23 सरस्वती से म.नं. 48 गीता तक	
		15	म.नं. 49 राधा से म.नं. 61ख राकेश तक	
		16	म.नं. 62 पुन्या से म.नं. 76 तोताराम तक	
		17	म.नं. 77 जगदीश से म.नं. 100 कैलाश तक	
		18	म.नं. 101क मांगीलाल से म.नं. अंत तक चम्पा तक.	

ग्राम पंचायत : घेगांवा

परिशिष्ट-5 (अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	घेगांवा	1	म.नं. 1 दयाराम बाउ से म.नं. 21 रमेश अमरिया तक	अ.जा. 02
		2	म.नं. 22 शंकर मोतीराम से म.नं. 44 गजानंद नत्थू तक	अ.ज.जा. 10
		3	म.नं. 45 कैलाश नत्थू से म.नं. 64 कैलाश गणेश तक	पि. वर्ग 02
		4	म.नं. 65 मदन मकुंद से म.नं. 82 गोविन्द सीताराम तक	अनारक्षित 05
		5	म.नं. 83 रमेश सीताराम से म.नं. 101 शंकर रणछोड तक	महिला अ.जा. 01
		6	म.नं. 102 लिम्या शिवलाल से म.नं. 121 गोविन्द मुरार तक	महिला अ.ज.जा. 05
		7	म.नं. 122 मोहन मुरार से म.नं. 142 लोकेन्द्र गेंदालाल तक	महिला पि. वर्ग 01
		8	म.नं. 143 हुकुमचंद सुपडिया से म.नं. 168 शिवराम नत्थू तक	महिला अनारक्षित 03
		9	म.नं. 169 भुरी मंशाराम से म.नं. 191 शांता सोमेश्वर तक	
		10	म.नं. 192 चंदु गोकुल से म.नं. 210 सुखलाल रणछोड तक	
		11	म.नं. 211 सकुंतला कन्हैयालाल से म.नं. 227 नानुराम नत्थू तक	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		12	म.नं. 228 महिमाराम नत्थू से म.नं. 247 राधेश्याम मोतीलाल	
		13	म.नं. 248 रमेश सीताराम से म.नं. 269 पुरण शोभाराम तक	
		14	म.नं. 270 सुरेश मांगीलाल से म.नं. 299 लच्छी गोकुल तक	
		15	म.नं. 301 गोपीशंकर से म.नं. 325 सुंदर दयाराम तक	
		16	म.नं. 326 भारत मोतीसिंग से म.नं. 351 सखाराम बाउ तक	
		17	म.नं. 352 लक्ष्मी रामेश्वर से म.नं. 380 दिनेश मालसिंग	
		18	म.नं. 382 लक्ष्मी शोभाराम से म.नं. 417 फत्तु बाबुलाल तक	
		19	म.नं. 419 राजू मोहन से म.नं. 432 बाबु खुमानसिंह	

**ग्राम पंचायत : घोट्या
परिशिष्ट-5 (अ)**

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	घोट्या	1	म.नं. 1 बाबुलाल से म.नं. 30 गणेश तक	अ.जा. 02
		2	म.नं. 31 शेरू से म.नं. 62 शारदा तक	अ.ज.जा. 10
		3	म.नं. 63 मोतिराम से म.नं. 88/2 मोत्या तक	पि. वर्ग 03
		4	म.नं. 89 ताराचंद से म.नं. 134 सालकराम तक	अनारक्षित 05
		5	म.नं. 136 मरू से म.नं. 163 नंदू तक	महिला अ.जा. 01
		6	म.नं. 165 सखाराम से म.नं. 190 गंगाराम तक	महिला अ.ज.जा. 05
		7	म.नं. 191 नत्थू से म.नं. 202 शिवराम तक	महिला पि. वर्ग 02
		8	म.नं. 203 राजल से म.नं. 217 भूरी तक	महिला अनारक्षित 03
		9	म.नं. 219 दिनेश से म.नं. 235 कला तक	
		10	म.नं. 236 काशीराम से म.नं. 255 राधेश्याम तक	
		11	म.नं. 256 राजू से म.नं. 273 जागीलाल तक	
		12	म.नं. 274 वेणीराम से म.नं. 293 लाडकी तक	
		13	म.नं. 294 रमू से म.नं. 310/3 लक्ष्मी तक	
		14	म.नं. 311/1 पंढरी से म.नं. 329/4 शंकर तक	
		15	म.नं. 330 राधेश्याम से म.नं. 345क रामू तक	
		16	म.नं. 347 बाबुलाल से म.नं. 367 पंढरी तक	
		17	म.नं. 368/1 गोविन्द से म.नं. 382/2 सुशिला तक	
		18	म.नं. 383 जोग्या से म.नं. 406 मथूरालाल तक	
		19	म.नं. 407/1 रूखमणी से म.नं. 421 पंढरी तक	
		20	म.नं. 422 नाना से म.नं. 433 छोटेलाल तक.	

ग्राम पंचायत : इच्छापुर
परिशिष्ट-5 (अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण (5)	
1	इच्छापुर	1	म.नं. 8 मेहरबान से म.नं. 39 गोकुल तक	अ.जा. 01	
		2	म.नं. 42 जयराम से म.नं. 80 मीरा तक	अ.ज.जा. 07	
		3	म.नं. 82 सीताराम से म.नं. 99 रामेश्वर तक	पि. वर्ग 03	
		4	म.नं. 100 कैला से म.नं. 123 काशीराम तक	अनारक्षित 03	
		5	म.नं. 125 सुंदर से म.नं. 153 लीला तक	महिला अ.जा. 01	
		6	म.नं. 154 गोकुल से म.नं. 172 समोती तक	महिला अ.ज.जा. 04	
		7	म.नं. 173 भूरी से म.नं. 191 राधेश्याम तक	महिला पि. वर्ग 02	
		8	म.नं. 192 जगदीश से म.नं. 204 लाडकी तक	महिला अनारक्षित 02	
		9	म.नं. 206 कडवा से म.नं. 224 राधेश्याम तक		
		10	म.नं. 225 बल्लु से म.नं. 262 भगवान तक		
		11	म.नं. 263 नंदु से म.नं. 283 संतोष तक		
		गवला	12	म.नं. 1 लक्ष्मी से म.नं. 27 अजुदया तक	
			13	म.नं. 28 राजल से म.नं. 55 जयराम तक	
			14	म.नं. 56 लोकेश से म.नं. 579 अंत तक दुडकी तक.	

ग्राम पंचायत : इदारतपुर
परिशिष्ट-5 (अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण (5)
1	इदारतपुर	1	3 रामलाल से 10 मांगीलाल तक	अ.जा. 03
		2	11 गोदावरीबाई से 22 मथुरालाल तक	अ.ज.जा. 10
		3	24 मांगीलाल से 43ख मंशाराम तक	पि. वर्ग 02
		4	45 शंकर से 62 मिश्रीलाल तक	अनारक्षित 05
		5	64 नरहरि से 79 कडवा तक	महिला अ.जा. 02

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	इदाकतपुर	6	80 राधेश्याम से 95ख बाबूलाल	महिला अ.ज.जा. 05
		7	96 क आत्माराम से 115 तुलसीराम तक	महिला पि. वर्ग 01
		8	117 शांताबाई से 148 सीताराम तक	महिला अनारक्षित 03
		9	150 गोकुल से 172क कैलाश तक	
		10	173 बाबूलाल से 198 वासूदेव तक	
		11	199 मोतीराम से 222 रूपाबाई तक	
		12	223 शांताबाई से 249 पुनमचंद तक	
		13	250 रमेश से 284 रामकरण तक	
		14	285 सेवकराम से 330 रेशमबाई तक	
	छालपा	15	1 नाना से 14 गौरीशंकर तक	
		16	15 गोविन्द से 27 शंकर तक	
		17	29 काशीराम से 44 पुरुषोत्तम तक	
		18	45 दगडीबाई से 60 मंगतीबाई तक	
		19	61 सोनाबाई से 78 कोला तक	
		20	79 से झाम्याबाई से 102 लक्ष्मीबाई तक.	

ग्राम पंचायत : जामली

परिशिष्ट-5 (अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	जामली	1	म.नं. 1 दामाजी से म.नं. 14/1 पन्नालाल तक	अ.जा. 02
		2	म.नं. 15 राजाराम से म.नं. 52 बाबूसिंह तक	अ.ज.जा. 10
		3	म.नं. 58 तुकाराम से म.नं. 72झ रणछोड तक	पि. वर्ग 03
		4	म.नं. 73 लक्ष्मण से म.नं. 96 नबु बट्टी तक	अनारक्षित 05
		5	म.नं. 98क दगडू से म.नं. 117 कडवा तक	महिला अ.जा. 01
		6	म.नं. 117क अशोक से म.नं. 143 प्रकाश तक	महिला अ.ज.जा. 05
		7	म.नं. 144 बाबुलाल से म.नं. 162 मनोहर तक	महिला पि. वर्ग 02
		8	म.नं. 163 सीता से म.नं. 176 संतोष तक	महिला अनारक्षित 03
		9	म.नं. 176क जोगीलाल से म.नं. 190 कडवा तक	
		10	म.नं. 191 रामकिशन से म.नं. 212 धरमसिंह तक	
		11	म.नं. 213 विश्राम से म.नं. 232 पंढरी तक	
		12	म.नं. 233 रामचंद्र से म.नं. 252 शंकर तक	
		13	म.नं. 253 शिवराम से म.नं. 279 चौनसिंह तक	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	जामली	14	म.नं. 281 मनोहर से म.नं. 296क कमल तक	
		15	म.नं. 279 त्रिभवन से म.नं. 319क अलर गणपत तक	
		16	म.नं. 321 पंढरी से म.नं. 346 शिवराम तक	
		17	म.नं. 347 नाना घिस्या से म.नं. 366 संतोष तक	
		18	म.नं. 368 राधेश्याम से म.नं. 389 रमेश तक	
		19	म.नं. 392 सुमन से म.नं. 419क भगवान तक	
		20	म.नं. 425 गंलाब से म.नं. 446 कुंदन तक.	

ग्राम पंचायत : लिक्खी
परिशिष्ट-5 (अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	लिक्खी	1	म.नं. 1 मोतीराम से म.नं. 27 दगडु तक	अ.जा. 01
		2	म.नं. 29 रमु से म.नं. 55 काशीराम तक	अ.ज.जा. 10
		3	म.नं. 57 शांता से म.नं. 85 शतकराम तक	पि. वर्ग 04
		4	म.नं. 86 जगदीश से म.नं. 114क अनवरी तक	अनारक्षित 05
		5	म.नं. 115 सायरा से म.नं. 151 अजीत तक	महिला अ.जा. 01
		6	म.नं. 153 मोहब्बत से म.नं. 178 बस्या तक	महिला अ.ज.जा. 05
		7	म.नं. 179 नसरज से म.नं. 210 रामेश्वर तक	महिला पि. वर्ग 02
		8	म.नं. 211 नत्थू से म.नं. 232ख अमानक तक	महिला अनारक्षित 03
		9	म.नं. 233क स्वाला से म.नं. 258 कडवा तक	
		10	म.नं. 259 लिम्या से म.नं. 284क वेणीराम तक	
		11	म.नं. 285 रमेश से म.नं. 305क दिदार तक	
		12	म.नं. 306 मोहन से म.नं. 334 महेश तक	
		13	म.नं. 335 अर्जुन से म.नं. 374 राधेश्याम तक	
		14	म.नं. 377 हरिश से म.नं. 410 हकिम तक	
		15	म.नं. 411 शुगरा से म.नं. 438 मूल तक	
		16	म.नं. 439 गजु से म.नं. 465 छगन तक	
		17	म.नं. 466 सीताराम से म.नं. 500 हटिर तक	
		18	म.नं. 501 कालु से म.नं. 540 भगवान तक	
		19	म.नं. 541 मिसर से म.नं. 581 तयब तक	
	अवली	20	म.नं. 1 वांगरिया से म.नं. 27घ राजाराम तक.	

ग्राम पंचायत : लोनारा
परिशिष्ट-5 (अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण (5)
1	लोनारा	1	म.नं. 1 धनुबाई लक्ष्मण से म.नं. 45 कमला रेवाराम तक	अ.जा. 01
		2	म.नं. 47 किशोर श्यामदास से म.नं. 90 सुनिल गन्ना तक	अ.ज.जा. 10
		3	म.नं. 91 शंकर मांगीलाल से म.नं. 136 नवली बाबुलाल तक	पि. वर्ग 04
		4	म.नं. 137 खुश्याल धनालाल से म.नं. 178 महेश नत्थू तक	अनारक्षित 05
		5	म.नं. 182 राधेश्याम नानुराम से म.नं. 225 काशीराम तक	महिला अ.जा. 00
		6	म.नं. 226 संतोष चंपालाल से म.नं. 271 कलाबाई तक	महिला अ.ज.जा. 05
		7	म.नं. 272 गजानंद नारायण से म.नं. 317 सुखदेव तक	महिला पि. वर्ग 02
		8	म.नं. 318 बसंतीबाई प्रेमचंद से म.नं. 362क शंकर ताराचंद तक	महिला अनारक्षित 03
		9	म.नं. 363 भायराम हिरा से म.नं. 406 दिनेश प्लारेलाल तक	
		10	म.नं. 408 ग्यारसी महिमाराम से म.नं. 447 कमलाबाई तक	
		11	म.नं. 451 शकुंतला नत्थू से म.नं. 495क राधेश्याम गंगाराम तक	
		12	म.नं. 496 शिवराम छित्तु से म.नं. 540 पुनमचंद मयाराम तक	
		13	म.नं. 541 लक्ष्मीबाई नारायण से म.नं. 585 काशीराम तुकाराम तक	
		14	म.नं. 591 नारायण मोहन से म.नं. 629 दिनेश तक	
		15	म.नं. 631 बोकडिया झापडिया से म.नं. 673 दशरथ तक	
		16	म.नं. 682 नाना कल्लु से म.नं. 720 शंकर गेंदालाल तक	
		17	म.नं. 721 रेवाराम गेंदालाल से म.नं. 765 जगदीश पुन्या तक	
		18	म.नं. 766 रामा फत्या से म.नं. 810 द्वारक्या तक	
		19	म.नं. 811 मनोहर दयाराम से म.नं. 855घ रामलाल तक	
		20	म.नं. 857 रेवली अमरसिंह से म.नं. 887 खुशीबाई तक.	

ग्राम पंचायत : मेनगांव
परिशिष्ट-5 (अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार

होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण (5)
1	मेनगांव	1	म.नं. 1 शिवराम गंगाराम से म.नं. 18 राधेश्याम बद्री तक	अ.जा. 04
		2	म.नं. 19 गिरधारी शोभाराम से म.नं. 36 चेताराम मोतीराम तक	अ.ज.जा. 10
		3	म.नं. 38 देवदास किशन से म.नं. 51 शंकर काशीराम तक	पि. वर्ग 00
		4	म.नं. 52 शांती बलराम से म.नं. 70 पन्नालाल मोहन तक	अनारक्षित 05
		5	म.नं. 71 रतन मोहन से म.नं. 84 कडवा राजाराम तक	महिला अ.जा. 02
		6	म.नं. 85 कडवा से म.नं. 101 परसराम चुन्नीलाल तक	महिला अ.ज.जा. 05
		7	म.नं. 102 शांतीलाल सीताराम से म.नं. 112 रूखमणी प्रेमचंद तक	महिला पि. वर्ग 00
		8	म.नं. 113 शांतीलाल केशव से म.नं. 127 रामकरण गेंदालाल तक	महिला अनारक्षित 03
		9	म.नं. 128 रामचंद्र राजाराम से म.नं. 144 लक्ष्मण शंकर तक	
		10	म.नं. 145 रेवाराम दुलीया से म.नं. 166 गणेश पुन्या तक	
		11	म.नं. 167 रामालाल जोगीलाल से म.नं. 186 बाबु देवचंद तक	
		12	म.नं. 189 कैलाश छगन से म.नं. 199क ओमप्रकाश पंडरी तक	
		13	म.नं. 200 दिनेश करण से म.नं. 211घ जवाहर राजाराम तक	
		14	म.नं. 213 अब्दुल इमरान से म.नं. 225 विजय मनोहर तक	
		15	म.नं. 226 सगण्या शोभाराम से म.नं. 251 शिवराम अमरिया तक	
		16	म.नं. 252 शंभू ठाकरिया से म.नं. 278क कडवा बीसन तक	
		17	म.नं. 280 चंपा दयाराम से म.नं. 307 सुरज रामप्रसाद तक	
		18	म.नं. 308 नटवर धन्नालाल से म.नं. 323 शंकर झबर तक	
		19	म.नं. 324 चुन्नीलाल झबर से म.नं. 349 राजेश छतरसिंह तक.	

ग्राम पंचायत : मोठापुरा

परिशिष्ट-5 (अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण (5)
1	मोठापुरा	1	म.नं. 1 संतोष रूखडिया से म.नं. 24 मगन मांगीलाल तक	अ.जा. 01
		2	म.नं. 25 गोदी मंगत से म.नं. 55 बाबुलाल शोभाराम तक	अ.ज.जा. 05
		3	म.नं. 58 मोता नैनसिंह से म.नं. 79 राधेश्याम कन्हैया तक	पि. वर्ग 02
		4	म.नं. 80 करण लच्छीराम से म.नं. 100 प्रेमचंद मुरार तक	अनारक्षित 02

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
मोहापुर	5	म.नं. 101 रेवाराम मुरार से म.नं. 133 गेंदा विजयसिंह तक	महिला अ.जा.	01
	6	म.नं. 135 मांगीला छितर से म.नं. 174 टुटा जालम तक	महिला अ.ज.जा.	03
लतीफपुरा+	7	म.नं. 1 नवलसिंह बस्या से म.नं. 12/3 गेंदालाल रणछोड तक	महिला पि. वर्ग	01
ईमलीपुरा		1 से 16.	महिला अनारक्षित	01
ईमलीपुरा	8	म.नं. 17 काली भल्या से म.नं. 53 रामचंद्र दयाराम तक		
घुघरी	9	म.नं. 4 बसु कैलाश से म.नं. 20 दिनेश पंडु तक		
	10	म.नं. 23 बुधरा दवलसिंह से म.नं. 311 दिनेश पाटीदार तक.		

**ग्राम पंचायत : नंदगांव बगुद
परिशिष्ट-5 (अ)**

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	नंदगांव	1	म.नं. 4 ललीता से म.नं. 19 जगदीश तक	अ.जा. 03
		2	म.नं. 20 पंडरी से म.नं. 33क अनोखी तक	अ.ज.जा. 09
		3	म.नं. 35 शंकर से म.नं. 52 भागीरथ तक	पि. वर्ग 01
		4	म.नं. 54 इस्माईल से म.नं. 77ख बाबुलाल तक	अनारक्षित 04
		5	म.नं. 78 राकेश से म.नं. 97 जिवन तक	महिला अ.जा. 02
		6	म.नं. 100 रूखमणी से म.नं. 115 सीताराम तक	महिला अ.ज.जा. 05
		7	म.नं. 116 कमला से म.नं. 135घ जगदीश तक	महिला पि. वर्ग 00
		8	म.नं. 137 दशरथ से म.नं. 155 ग्यारसी तक	महिला अनारक्षित 02
		9	म.नं. 156 कैलाश से म.नं. 176क शांतीलाल तक	
		10	म.नं. 179 कला से म.नं. 200 ललीता तक	
		11	म.नं. 201 हरिराम से म.नं. 215 मनोहर तक	
		12	म.नं. 218 नत्थू से म.नं. 245क शंकर तक	
		13	म.नं. 246 बोसी से म.नं. 279 पारू तक	
	बगुद	14	म.नं. 1 गजानंद से म.नं. 35 घिसीलाल तक	
		15	म.नं. 36 भगवान से म.नं. 54 गंगाराम तक	
		16	म.नं. 55 सरसत से म.नं. 88 जगदीश तक	
		17	म.नं. 89 शेरू से म.नं. 215 दिनेश तक.	

ग्राम पंचायत : नंदगांव रोड
परिशिष्ट-5 (अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	नंदगांवरोड	1	म.नं. 2 मनीष से म.नं. 21 महेन्द्र तक	अ.जा. 04
		2	म.नं. 21/1 अरविन्द से म.नं. 49 कस्तुरी तक	अ.ज.जा. 09
		3	म.नं. 51 सीता से म.नं. 64 शिवकन्या तक	पि. वर्ग 00
		4	म.नं. 65 निलु से म.नं. 90 कृष्णा तक	अनारक्षित 04
		5	म.नं. 91 देवदास से म.नं. 105 रीना तक	महिला अ.जा. 02
		6	म.नं. 106 ग्यारसी से म.नं. 123 भुपेन्द्र तक	महिला अ.ज.जा. 05
		7	म.नं. 124 अमरिया से म.नं. 156 संजना तक	महिला पि. वर्ग 00
		8	म.नं. 160 नाना से म.नं. 181 संतोष तक	महिला अनारक्षित 02
		9	म.नं. 182 कुसुम से म.नं. 221 बसंती तक	
		10	म.नं. 222 संजय से म.नं. 256 ममता तक	
	दाभड़	11	म.नं. 1 माधव से म.नं. 18 सुरणिका तक	
		12	म.नं. 20 गुलाब से म.नं. 40 राधीका तक	
		13	म.नं. 41 कालुराम से म.नं. 60/1 शितल तक	
		14	म.नं. 61 रामालाल से म.नं. 90 ज्योती तक	
		15	म.नं. 91 शिवकोर से म.नं. 115 सुनता तक	
		16	म.नं. 116 रामचंद्र से म.नं. 140 तुई तक	
		17	म.नं. 141 छगन से म.नं. 165 गीता तक	

ग्राम पंचायत : नारायणपुरा
परिशिष्ट-5 (अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	नारायणपुरा	1	म.नं. 2 जया राजेश से म.नं. 27 विजय श्रीधर तक	अ.जा. 03

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
नारायणपुरा	2	म.नं. 28 विद्या राधेश्याम से म.नं. 49 राजेश शंकर तक	अ.ज.जा.	07
	3	म.नं. 52 अजुदया कडवा से म.नं. 66 राधेश्याम बाबुलाल तक	पि. वर्ग	01
	4	म.नं. 67 शंकर सीताराम से म.नं. 81 जाती सीताराम तक	अनारक्षित	03
	5	म.नं. 83 सकु रामेश्वर से म.नं. 105क शंकर अमरिया तक	महिला अ.जा.	02
	6	म.नं. 106 कोरजी चापा से म.नं. 126 लाडली शंकर तक	महिला अ.ज.जा.	04
	7	म.नं. 127 रमेश गप्पु से म.नं. 145 दिनेश घिसीलाल तक	महिला पि. वर्ग	01
	8	म.नं. 146 शंकर बालु से म.नं. 170 बाबुलाल दलिया तक	महिला अनारक्षित	02
	9	म.नं. 171 रामकोर ऐडिया से म.नं. 193 मरू विश्राम तक		
	10	म.नं. 194 सीता कालु से म.नं. 217 गोपी बाबुलाल तक		
	11	म.नं. 218 आशाराम मांगीलाल से म.नं. 246 नाहरसिंग तक		
	रामपुरा	12	म.नं. 1 मधु मोतीराम से म.नं. 11 नारा सखाराम तक	
13		म.नं. 12 अमरिया छगन से म.नं. 30 संतोष गोकुल तक		
14		म.नं. 31 हुकुम विट्ठल से म.नं. 98ख भावसिंग तक		

ग्राम पंचायत : निमगूल

परिशिष्ट-5 (अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	निमगूल	1	म.नं. 1 शारदा छोगालाल से म.नं. 15 दिलीप प्रताप तक	अ.जा.	01
		2	म.नं. 16 डेंडू रामसिंग से म.नं. 30 रूखमणी तक	अ.ज.जा.	08
		3	म.नं. 31 दशरथ मुकुंद से म.नं. 49 कालु रमेश तक	पि. वर्ग	02
		4	म.नं. 50 राधेश्याम से म.नं. 70 रविन्द्र तक	अनारक्षित	04
		5	म.नं. 71 कडवा से म.नं. 93 कविता राधेश्याम तक	महिला अ.जा.	01
		6	म.नं. 94 मोतीराम से म.नं. 119 रेखा जगदीश तक	महिला अ.ज.जा.	04
		7	म.नं. 120 नत्थू गंगाराम से म.नं. 134 माधुरी तक	महिला पि. वर्ग	01
		8	म.नं. 135 राजाराम से म.नं. 153 संगीता तक	महिला अनारक्षित	02
		9	म.नं. 154 कन्हैया से म.नं. 168 काली काशीराम तक		
		10	म.नं. 169 सीताबाई से म.नं. 181 कुसुम तक		
		11	म.नं. 182 बसुबाई से म.नं. 203 गौरा तक		
		12	म.नं. 204 रानु संतोष से म.नं. 222 वंदना तक		
		13	म.नं. 223 कैलाश से म.नं. 251 नारायण तक		
		14	म.नं. 252 पदम से म.नं. 280 बसु तक		
		15	म.नं. 281 गंगाराम से म.नं. 357 नरेन्द्र तक		

ग्राम पंचायत : ऊनबुजुर्ग
परिशिष्ट-5 (अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :—

सारणी

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गाँव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण (5)
1	ऊनबुजुर्ग	1	म.नं. 1 सीताराम जागीलाल से म.नं. 53 रमेश गुलाबसिंह तक	अ.जा. 04
		2	म.नं. 55 भूपेन्द्र आंकारलाल से म.नं. 134 शारदा अरविन्द तक	अ.ज.जा. 10
		3	म.नं. 135 गुलाबचंद कन्हैया से म.नं. 198 दिपीका नरेन्द्र तक	पि. वर्ग 01
		4	म.नं. 199 संतोष सोलेंकी से म.नं. 256/2 प्रवीण सतीश तक	अनारक्षित 05
		5	म.नं. 257 कृष्णलाल मंगत से म.नं. 316 हेतन्त रामकरण तक	महिला अ.जा. 02
		6	म.नं. 317 बाबा मधु से म.नं. 376 अमित शिवजी तक	महिला अ.ज.जा. 05
		7	म.नं. 377 सखाराम सीताराम से म.नं. 423 बेबी राधेश्याम तक	महिला पि. वर्ग 00
		8	म.नं. 424 लिला सेवकराम से म.नं. 485 द्विव्यानी दिपक तक	महिला अनारक्षित 03
		9	म.नं. 486 झवर बलराम से म.नं. 521/2 चंद्रकरण तक	
		10	म.नं. 522 गजानंद मोतीराम से म.नं. 566 किर्ती धमेन्द्र तक	
		11	म.नं. 567 रामचंद्र उंकार से म.नं. 616 राजेश्वर मुरलीधर तक	
		12	म.नं. 617 सुरेन्द्रसिंह से म.नं. 676 गीता उंकार तक	
		13	म.नं. 677 नानु उंकार से म.नं. 720 मंगला अशिष तक	
		14	म.नं. 721 हेमलता रमेश से म.नं. 759 अमित शांतिलाल तक	
		15	म.नं. 761 रामकोर हिरालाल से म.नं. 813 किरणलता तक	
		16	म.नं. 814 सुनिल मांगीलाल से म.नं. 877 छाया महेश तक	
		17	म.नं. 878 सुशिला बाबुराव से म.नं. 929 धनु सखाराम तक	
		18	म.नं. 930 फत्तु वेडु से म.नं. 985 क सकिला दिलावर तक	
		19	म.नं. 986 पिरखॉ से म.नं. 1039 रमणनाथ तक	
	भमोरीखुर्द	20	म.नं. 1040 राजनाथ से म.नं. अंत तक.	

ग्राम पंचायत : ऊनखुर्द
परिशिष्ट-5 (अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण (5)
1	ऊनखुर्द	1	म.नं. 1 सावन से म.नं. 20 प्रीतीबाला तक	अ.जा. 01
		2	म.नं. 21 ओंकार से म.नं. 45 सुकई तक	अ.ज.जा. 10
		3	म.नं. 46 जगन से म.नं. 69 ज्योती तक	पि. वर्ग 04
		4	म.नं. 70 बाबुलाल से म.नं. 90 चंदा तक	अनारक्षित 05
		5	म.नं. 91 कालुराम से म.नं. 113 गायत्री तक	महिला अ.जा. 01
		6	म.नं. 114 रामेश्वर से म.नं. 126 प्रीतीबाला तक	महिला अ.ज.जा. 05
		7	म.नं. 127 अर्जुन से म.नं. 147 क विमला तक	महिला पि. वर्ग 02
		8	म.नं. 148 काशीराम से म.नं. 166 दिपक तक	महिला अनारक्षित 03
		9	म.नं. 167 सुखलाल से म.नं. 185 अजय तक	
		10	म.नं. 186 कल्लू से म.नं. 202 संगिता तक	
		11	म.नं. 203 वावरिया से म.नं. 223 सुष्मिता तक	
		12	म.नं. 224 जमना से म.नं. 240 अविनाश तक	
		13	म.नं. 241 पंढरी से म.नं. 253 लोकेन्द्र तक	
		14	म.नं. 254 ताराबाई से म.नं. 279 सारिका तक	
बनिहार		15	म.नं. 4 राजेन्द्र से म.नं. 40 कमेन्द्र तक	
		16	म.नं. 41 दगडू से म.नं. 62 दिलीप तक	
		17	म.नं. 63 दयाराम से म.नं. 97 ममता तक	
		18	म.नं. 98 देवजी से म.नं. 119 शिवकरण तक	
		19	म.नं. 121 लक्ष्मी से म.नं. 142 सुभम तक	
		20	म.नं. 145 गोविन्द से म.नं. मंत महेश तक	

ग्राम पंचायत : पंधान्या
परिशिष्ट-5 (अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार

होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	पंधान्या	1	1 गीता से 18क ममता	अ.जा. 03
		2	22 जगदीश से 43 घ गीता तक	अ.ज.जा. 09
		3	46 शिवलया से 61 हरिओम	पि. वर्ग 01
		4	62 कडवी से 81 कविता तक	अनारक्षित 04
		5	85 जगदीश से 114 अनिता तक	महिला अ.जा. 02
		6	118 गोविन्द से 162 गुलाब तक	महिला अ.ज.जा. 05
		7	163 मोहन से 200 रजनी तक	महिला पि. वर्ग 00
		8	201 ललिता से 216 प्रियंका तक	महिला अनारक्षित 02
		9	217 रायल से 230 सारिका तक	
		10	232 प्रदीप से 249 साड तक	
		11	250 महिमारांम से 267 क ज्योति तक	
		12	268 हिरा से 278 कविता तक	
		13	279 नाना से 297 अनिल तक	
		14	299 घिसीलाल से 312 क कविता	
		15	314 बलिराम से 327 जितेन्द्र तक	
		16	328 दयाराम से 350 क भगवान तक	
	पंधान्या+पिपलझोपा	17	351 रूखडु 387 विनय तक	

**ग्राम पंचायत : पिपराटा
परिशिष्ट-5 (अ)**

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	पिपराटा	1	म.नं. 1 संतोष दरियाव से म.नं. 21 क राधा सीताराम तक	अ.जा. 05
		2	म.नं. 22 रेवाराम मातीराम से म.नं. 40 राजेश तक	अ.ज.जा. 10
		3	म.नं. 41 राधेश्याम उंकार से म.नं. 60 रमेश शंकर तक	पि. वर्ग 00
		4	म.नं. 61 महेश शंकर से म.नं. 86 पारू रतन तक	अनारक्षित 05
		5	म.नं. 87 नानी फकीरा से म.नं. 103 आशाराम तक	महिला अ.जा. 03

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		6	म.नं. 104 कालु से म.नं. 121 राधेश्याम नाना तक	महिला अ.ज.जा. 05
		7	म.नं. 122 संतोष रामेश्वर से म.नं. 139 मंशाराम पुनमचंद तक	महिला पि. वर्ग 00
		8	म.नं. 140 द्वारकी सीताराम से म.नं. 164 चम्पा मेवालाल तक	महिला अनारक्षित 03
		9	म.नं. 165 छोगालाल घिसीलाल से म.नं. 194 राजेश बंकट तक	
		10	म.नं. 195 सखराम मन्या से म.नं. 213 कैलाश लाल्या तक	
		11	म.नं. 214 रामकरण लाल्या से म.नं. 230 बुदीबाई पुन्या तक	
		12	म.नं. 231 बसु गजानंद से म.नं. 252 रामलाल रणछोड तक	
		13	म.नं. 253 सदाशिव गेंदालाल से म.नं. 277 नेहरू गोदिया तक	
		14	म.नं. 278 अशोक अर्जुन से म.नं. 305 बाबु सकरू तक	
नवलपुरा		15	म.नं. 1 लीला झबर से म.नं. 30 हीरालाल तोताराम तक	
		16	म.नं. 31 घिसीलाल शिवा से म.नं. 55 क हरीराम रणछोड तक	
		17	म.नं. 56 छोगालाल से म.नं. 81 गोकुल भुरिया तक	
		18	म.नं. 82 गोगल लोभीराम से म.नं. 106 मोहन नरसिंह तक	
		19	म.नं. 107 दशरथ भुरिया से म.नं. 139 बट्टी कडवा तक	
		20	म.नं. 140 रेखा पप्पु से म.नं. 179 राजाराम सीताराम तक.	

**ग्राम पंचायत : सिनखेड़ा
परिशिष्ट-5 (अ)**

खरगोन, दिनांक 22 सितम्बर 2014

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर संबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सिनखेड़ा	1	म.नं. 1 चैनसिंह से म.नं. 22 नीलुबाई तक	अ.जा. 03
		2	म.नं. 23 किशन से म.नं. 38 सीताराम तक	अ.ज.जा. 10
		3	म.नं. 39 कालु बोंदर से म.नं. 57 किशन तक	पि. वर्ग 02
		4	म.नं. 58 आनु से म.नं. 80 क अनीताबाई तक	अनारक्षित 05
		5	म.नं. 81 लाडकीबाई से म.नं. 89 घ कैलाश तक	महिला अ.जा. 02
		6	म.नं. 90 बलीराम से म.नं. 103 क हनीफ तक	महिला अ.ज.जा. 05
		7	म.नं. 104 अनवर से म.नं. 124 क कडवा तक	महिला पि. वर्ग 01
		8	म.नं. 125 टंटया से म.नं. 145क रसिदाबाई तक	महिला अनारक्षित 03
		9	म.नं. 148 रमजान से म.नं. 165(1) तुलसीराम तक	
		10	म.नं. 166 गोगल से म.नं. 194 फुंदाबाई तक	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		11	म.नं. 195 भगवान से म.नं. 229 लखन तक	
		12	म.नं. 230 कुसुमबाई से म.नं. 245 पिरमों तक	
		13	म.नं. 246 हामीदा शेरू से म.नं. 269 मांगीलाल तक	
		14	म.नं. 271 सीता शेरू से म.नं. 296 गुलाबबाई तक	
		15	म.नं. 299 बाउ कोरजी से म.नं. 328 क रामेश्वर तक	
		16	म.नं. 331 श्यामा से म.नं. 354 गजराबाई तक	
		17	म.नं. 357 संतराबाई से म.नं. 373 मोहन तक	
		18	म.नं. 375 सरवन से म.नं. 390 मुकिम तक	
		19	म.नं. 391 सत्तार से म.नं. 404/783 रमेश तक	
मुफलिसपुरा		20	म.नं. 1 सुरेश से म.नं. 13 अफसरीबाई तक	
जमशेदपुरा			म.नं. 1 प्रभुजी से म.नं. 2 मनीषाबाई तक	
आदमपुरा			म.नं. 1 हबु से म.नं. 9 नथीबाई तक	
मनावर				
सिकंदरपुरा				
चोण्डी				

ग्राम पंचायत : भसनेर

परिशिष्ट-5 (अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	भसनेर	1	म.नं. 2(क) रमेश से म.नं. 22 रेखाबाई तक	अ.जा. 03
		2	म.नं. 23 मांगीलाल से म.नं. 41 विक्रम तक	अ.ज.जा. 10
		3	म.नं. 42 सालगराम से म.नं. 64 सकुबाई तक	पि. वर्ग 02
		4	म.नं. 65 भारत से म.नं. 85 रत्नाबाई तक	अनारक्षित 05
		5	म.नं. 86 चिन्तामण से म.नं. 104 संगीता तक	महिला अ.जा. 02
		6	म.नं. 105 सेरू से म.नं. 119(ग) नानीबाई तक	महिला अ.ज.जा. 05
		7	म.नं. 120 बिहारी से म.नं. 137 कंचनबाई तक	महिला पि. वर्ग 01
		8	म.नं. 138 तुलसीबाई से म.नं. 156 रेखाबाई तक	महिला अनारक्षित 03
		9	म.नं. 157 सकुबाई से म.नं. 168 रामकृष्ण तक	
		10	म.नं. 169 शिवराम से म.नं. 177 भावना	
		11	म.नं. 178 नानुराम से म.नं. 190 रविन्द्र	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		12	म.नं. 191 श्याणीबाई से म.नं. 204 अजय	
		13	म.नं. 205 राधेश्याम से म.नं. 223(क) किरण	
		14	म.नं. 224 शिवराम से अंत तक प्रियंका	
	धनोरा	15	म.नं. 2 भीमा से म.नं. 28 राजदीप	
		16	म.नं. 30 मोहब्बत से म.नं. 42(क) वर्षा	
		17	म.नं. 44 से नवलसिंह म.नं. 62 किरण	
		18	म.नं. 63 नवलसिंह से म.नं. 74 ज्योति	
		19	म.नं. 76 लोंगीबाई से म.नं. 107 सुमेरसिंह	
		20	म.नं. 108 लीलाबाई से म.नं. 130 रितेश	

**ग्राम पंचायत : मांगरूल बुजुर्ग
परिशिष्ट-5 (अ)**

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	मांगरूल बु.	1	म.नं. 1 सावित्री से म.नं. 12 सनूबाई तक	अ.जा. 03
		2	म.नं. 13 सदाशिव से म.नं. 33 आशाबाई तक	अ.ज.जा. 08
		3	म.नं. 34 फत्तु से म.नं. 44 अनिताबाई तक	पि. वर्ग 01
		4	म.नं. 45 नत्थु से म.नं. 60 रोशनी तक	अनारक्षित 04
		5	म.नं. 61 संतोष से म.नं. 73 शर्मिला तक	महिला अ.जा. 02
		6	म.नं. 74 भागीरथ से म.नं. 87 रोशनीबाई तक	महिला अ.ज.जा. 04
		7	म.नं. 88 बाबुलाल से म.नं. 99 शिवशंकर तक	महिला पि. वर्ग 00
		8	म.नं. 100 पुनीबाई से म.नं. 112 अनिताबाई तक	महिला अनारक्षित 02
		9	म.नं. 113 बिन्दा से म.नं. 132 महेश तक	
		10	म.नं. 133 सोमिया से म.नं. 147 सावन तक	
		11	म.नं. 148 मथुरालाल से म.नं. 161 उर्मिलाबाई तक	
		12	म.नं. 162 शमशेर से म.नं. 179 सीमबाई तक	
		13	म.नं. 179(क) टन्दू से म.नं. 192 प्रभाबाई तक	
		14	म.नं. 194 नरसिंह से म.नं. 204 संगीताबाई तक	
		15	म.नं. 205 रामलाल से म.नं. 225(क) शकुबाई तक	
		16	म.नं. 227 रविन्द्र से म.नं. 252 हिरूबाई तक	

ग्राम पंचायत : पिपरी
परिशिष्ट-5 (अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण (5)
1	पिपरी	1	म.नं. 1 दशरथ से म.नं. 29 दिनेश तक	अ.जा. 01
		2	म.नं. 31 मरू से म.नं. 54 गीता तक	अ.ज.जा. 10
		3	म.नं. 61 देवदास से म.नं. 86 सारिका तक	पि. वर्ग 04
		4	म.नं. 87 सीताराम से म.नं. 134/1 शांती तक	अनारक्षित 05
		5	म.नं. 135 राजाराम से म.नं. 148 महेन्द्र तक	महिला अ.जा. 00
		6	म.नं. 139 धरमराज से म.नं. 173 पवन तक	महिला अ.ज.जा. 05
		7	म.नं. 177 भागीरथ से म.नं. 211 जितेन्द्र तक	महिला पि. वर्ग 02
		8	म.नं. 212 बुदीबाई से म.नं. 243 हेमन्त तक	महिला अनारक्षित 03
		9	म.नं. 244 बलीराम से म.नं. 286 सुरज तक	
		10	म.नं. 288 कडवी से म.नं. 326 मनीष तक	
		11	म.नं. 330 महादेव से म.नं. 347 जयपाल तक	
		12	म.नं. 348 शोभाराम से म.नं. 377/1 उषाबाई तक	
		13	म.नं. 381 पुजा से म.नं. 393 सुषमा तक	
		14	म.नं. 394 मिसरबाई से म.नं. 415 संतोष तक	
		15	म.नं. 416/1 कलुबाई से म.नं. 449 मुकेश तक	
		16	म.नं. 450 गीताबाई से म.नं. 470 मायाबाई तक	
		17	म.नं. 474 गजानंद से म.नं. 523 गोपीबाई तक	
		18	म.नं. 525 बुदन से म.नं. 553 मनुबाई तक	
		19	म.नं. 554 अशोक से म.नं. 596 निर्मला तक	
		20	म.नं. 597 थावली से म.नं. 623 ममता तक	

ग्राम पंचायत : रायबिडपुरा
परिशिष्ट-5 (अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने

वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण (5)
1	रायपुरा	1	म.नं. 1 कालूराम से म.नं. 60 बाबुलाल तक	अ.जा. 02
		2	म.नं. 61 रामई से म.नं. 108 सीताराम तक	अ.ज.जा. 10
		3	म.नं. 109 भगवान से म.नं. 158 गजराजसिंग तक	पि. वर्ग 03
		4	म.नं. 162 ग्यारसीबाई से म.नं. 197 भाईराम तक	अनारक्षित 05
		5	म.नं. 198 शंकर से म.नं. 255 भगवान तक	महिला अ.जा. 01
		6	म.नं. 256 गुलाब से म.नं. 305 रानी तक	महिला अ.ज.जा. 05
		7	म.नं. 307 गोपाल से म.नं. 350 पंढरी तक	महिला पि. वर्ग 02
		8	म.नं. 351 नत्थू से म.नं. 386 पंढरी तक	महिला अनारक्षित 03
		9	म.नं. 388 चतुरबाई से म.नं. 426 काशीराम तक	
		10	म.नं. 427 हीरालाल से म.नं. 464 रामेश्वर तक	
		11	म.नं. 465 छितरई से म.नं. 512 मुकेश तक	
		12	म.नं. 513 जगदीश से म.नं. 550 गंगाराम तक	
		13	म.नं. 553 तुकाराम से म.नं. 580 लच्छीराम तक	
		14	म.नं. 587 शिवराम से म.नं. 632 भाईराम तक	
		15	म.नं. 635 विनोद से म.नं. 685 टीकमचंद तक	
	रायबिड	16	म.नं. 1 शंकर से म.नं. 26 केशरसिंग तक	
		17	म.नं. 27 कमला से म.नं. 62 नत्थू तक	
		18	म.नं. 63 महिमाराम से म.नं. 96 सुरेश तक	
		19	म.नं. 97 बावला से म.नं. 137 राधेश्याम तक	
		20	म.नं. 138 आशाराम से म.नं. 192 भूरी तक	

ग्राम पंचायत : रजूर

परिशिष्ट-5 (अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण (5)
1	रजूर	1	म.नं. 5 रामेश्वर से म.नं. 24 समोती तक	अ.जा. 05
		2	म.नं. 25 रामेश्वर से म.नं. 45 संदर तक	अ.ज.जा. 10
		3	म.नं. 46 बिहारी से म.नं. 83 काल तक	पि. वर्ग 00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		4	म.नं. 84 मयाराम से म.नं. 108/1 पारू तक	अनारक्षित 05
		5	म.नं. 109 सोम्मर से म.नं. 134 राजाराम तक	महिला अ.जा. 03
		6	म.नं. 135 काशीराम से म.नं. 146क गोविन्द तक	महिला अ.ज.जा. 05
		7	म.नं. 147 भुवानीराम से म.नं. 164 पुष्पा तक	महिला पि. वर्ग 00
		8	म.नं. 165 बट्टी से म.नं. 180क तक	महिला अनारक्षित 03
		9	म.नं. 181 राजाराम से म.नं. 192 अरूण तक	
		10	म.नं. 194 कांजीलाल से म.नं. 220 काशीराम तक	
		11	म.नं. 221 नारायण से म.नं. 239ख पढरी तक	
		12	म.नं. 242 गेदालाल से म.नं. 279ग मांगीलाल तक	
		13	म.नं. 280 उमराव से म.नं. 302ख दिनेश तक	
		14	म.नं. 304 राध्या से म.नं. 323घ सुक्य तक	
रमणगांव		15	म.नं. 1 मंजला से म.नं. 11 लाडकी तक	
		16	म.नं. 12 बाला से म.नं. 24 चम्पाला तक	
		17	म.नं. 25 काशीराम से म.नं. 46 नारायण तक	
		18	म.नं. 47 मोहन से म.नं. 55ख सुखलाल तक	
		19	म.नं. 56 सखराम से म.नं. 58झ मोहीत तक	
		20	म.नं. 64 निलू से म.नं. 97 मुनीम तक	

ग्राम पंचायत : रणगांव

परिशिष्ट-5 (अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	रणगांव	1	म.नं. 1 घिसीला से म.नं. 30 रडत्या तक	अ.जा. 05
		2	म.नं. 31 गुलाब से म.नं. 55 नर्मदा तक	अ.ज.जा. 10
		3	म.नं. 57 सेवंती से म.नं. 72 देवराम तक	पि. वर्ग 00
		4	म.नं. 73 मैना से म.नं. 90 सुभाष तक	अनारक्षित 05
		5	म.नं. 91 धन्नाला से म.नं. 103 दिनेश तक	महिला अ.जा. 03
		6	म.नं. 104 रामलाल से म.नं. 123 राजेश तक	महिला अ.ज.जा. 05
		7	म.नं. 124 शिवराम से म.नं. 140 शोभा तक	महिला पि. वर्ग 00
		8	म.नं. 141 गोविन्द से म.नं. 156 महेश तक	महिला अनारक्षित 03
		9	म.नं. 157 रमेश से म.नं. 172 रेमली तक	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		10	म.नं. 175 उर्मिला से म.नं. 189 ललीता तक	
		11	म.नं. 190 सलिता से म.नं. 205 संजय तक	
		12	म.नं. 206 धन्नालाल से म.नं. 239 किरण तक	
	बिरोठी	13	म.नं. 1 मंजुला से म.नं. 23 अजय तक	
		14	म.नं. 24 दौलत से म.नं. 42 नंदा तक	
		15	म.नं. 43 शारदा से म.नं. 64 आशा तक	
		16	म.नं. 65 भारत से म.नं. 85 अनु तक	
		17	म.नं. 86 बाबु से म.नं. 109 मनोज तक	
		18	म.नं. 111 कालु से म.नं. 129 महेश तक	
		19	म.नं. 131 चोवन से म.नं. 170 देवगन तक	
	बोरगांव	20	म.नं. 1 गीता से म.नं. 26 रक्षमी तक	

ग्राम पंचायत : रोमचिचली
परिशिष्ट-5 (अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	रोमचिचली	1	म.नं. 01 सुभाष से म.नं. 20 कन्हैयालाल तक	अ.जा. 01
		2	म.नं. 21 हुकुमचंद से म.नं. 37 बाबुलाल तक	अ.ज.जा. 09
		3	म.नं. 38 द्रौपती से म.नं. 54 कुंजीलाल तक	पि. वर्ग 04
		4	म.नं. 55 शांतीलाल से म.नं. 64 मंगलसिंग तक	अनारक्षित 04
		5	म.नं. 69 गजानंद से म.नं. 83 नामुराम तक	महिला अ.जा. 01
		6	म.नं. 84 जैना से म.नं. 106 थथरी तक	महिला अ.ज.जा. 05
		7	म.नं. 107 झामु से म.नं. 127 'क' राकेश तक	महिला पि. वर्ग 02
		8	म.नं. 130 धन्नालाल से म.नं. 140 नटवर तक	महिला अनारक्षित 02
		9	म.नं. 141 रमेश से म.नं. 143 हासरूद्दीन तक	
		10	म.नं. 147 जगन से म.नं. 174 चन्द्रशेखर तक	
		11	म.नं. 180 सेवंती से म.नं. 187 'ग' गेंदालाल तक	
		12	म.नं. 188 सलिता से म.नं. 200 बुलु तक	
		13	म.नं. 201 मानु से म.नं. 216 काना तक	
		14	म.नं. 218 विक्रम से म.नं. 232 हनीफ तक	
		15	म.नं. 233 इब्राहिम से म.नं. 242 यासीन तक	
		16	म.नं. 243 जुम्मा से म.नं. 260 करीम तक	
		17	म.नं. 262 कडवी से म.नं. 277 रानू तक	
		18	म.नं. 278 हीरालाल से म.नं. 504 रितेष तक	

ग्राम पंचायत : साईंखेड़ा
परिशिष्ट-5 (अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण (5)	
1	साईंखेड़ा	1	म.नं. 4 गंगाराम से म.नं. 16 दयाराम तक	अ.जा. 02	
		2	म.नं. 18 गिरधर से म.नं. 25 सुखदेव तक	अ.ज.जा. 12	
		3	म.नं. 26 महेन से म.नं. 41 बाबूलाल तक	पि. वर्ग 00	
		4	म.नं. 42 सीताराम से म.नं. 64 आशाराम तक	अनारक्षित 05	
		5	म.नं. 66 सुपडिया से म.नं. 79 काली तक	महिला अ.जा. 01	
		6	म.नं. 80 नानुराम से म.नं. 94 सुपडिया तक	महिला अ.ज.जा. 06	
		7	म.नं. 95 छगन से म.नं. 108 राजाराम तक	महिला पि. वर्ग 00	
		8	म.नं. 109 मांगीलाल से म.नं. 128 अजीत तक	महिला अनारक्षित 03	
		डेहरी	9	म.नं. 1 दरियाव से म.नं. 15 बसु तक	
			10	म.नं. 16 बल्लू से म.नं. 30 बावला तक	
			11	म.नं. 31/1 सकरी से म.नं. 43 दशरथ तक	
			12	म.नं. 44 मोहन से म.नं. 58 श्रीराम तक	
			13	म.नं. 59 गणेश से म.नं. 72 अरविन्द तक	
			14	म.नं. 73 कुसुम से म.नं. 77/1 दिनेश तक	
			15	म.नं. 82 कोटवाल से म.नं. 106/1 धन्नालाल तक	
		भमोरीबुजुर्ग	16	म.नं. 1 विजय से म.नं. 23 लक्ष्मी तक	
			17	म.नं. 24 रमेश से म.नं. 33 मेहकाल तक	
			18	म.नं. 33क पैमा से म.नं. 49/2 अनारसिंह तक	
			19	म.नं. 50/1 रिछु से म.नं. 51 मधु तक	

ग्राम पंचायत : उबदी
परिशिष्ट-5 (अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण (5)
1	उबदी	1	म.नं. 1 पंढरी से म.नं. 23 मोहन तक	अ.जा. 02
		2	म.नं. 24 कन्हैया से म.नं. 50 केदारसिंह तक	अ.ज.जा. 06

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		3	म.नं. 51 करणसिंह से म.नं. 75 दयाराम तक	पि. वर्ग 01
		4	म.नं. 76 चंदुबाई से म.नं. 104 पुनमचंद तक	अनारक्षित 03
		5	म.नं. 105 जगदीश से म.नं. 127 गेंदालाल तक	महिला अ.जा. 01
		6	म.नं. 128 राजाराम से म.नं. 143 कुंतीलाल तक	महिला अ.ज.जा. 03
		7	म.नं. 144 मोहन से म.नं. 160 लच्छीराम तक	महिला पि. वर्ग 00
		8	म.नं. 161 हुकुम से म.नं. 183 नारायण तक	महिला अनारक्षित 02
		9	म.नं. 184 रामलाल से म.नं. 204 संतोष तक	
		10	म.नं. 205 देवराम से म.नं. 249 घिसी तक	
		11	म.नं. 253 हिरालाल से म.नं. 286 मंजु तक	
		12	म.नं. 287 उमेश से म.नं. 310ए देवेन भालसे तक	

**ग्राम पंचायत : सोनीपुरा
परिशिष्ट-5 (अ)**

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सोनीपुरा	1	म.नं. 1 काशीराम से म.नं. 11 रामचंद्र तक	अ.जा. 03
		2	म.नं. 15 राजाराम से म.नं. 27/3 बाबू तक	अ.ज.जा. 07
		3	म.नं. 29 कडवी से म.नं. 47 दिलीप तक	पि. वर्ग 00
		4	म.नं. 49 अनवर से म.नं. 76 मंशराम तक	अनारक्षित 03
		5	म.नं. 78 कुसुम से म.नं. 95/1 सरीफ तक	महिला अ.जा. 02
		6	म.नं. 97 कालु से म.नं. 114 अशोक तक	महिला अ.ज.जा. 04
		7	म.नं. 115 रामेश्वर से म.नं. 142 बलीराम तक	महिला पि. वर्ग 00
		8	म.नं. 143 मंगीबाई से म.नं. 179 पारू तक	महिला अनारक्षित 02
		9	म.नं. 181 मंशराम से म.नं. 204 सादीर तक	
		10	म.नं. 205 मिठाराम से म.नं. 230/1 प्रकाश तक	
		11	म.नं. 231 बाबु से म.नं. 256 कन्हैया तक	
	नवाबपुरा	12	म.नं. 1 दयाराम से म.नं. 15/1 कय्युम तक	
		13	म.नं. 16 सलु से मकान नं. 247 हेमराज तक	

ग्राम पंचायत : सुरपाला
परिशिष्ट-5 (अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण (5)
1	सुरपाला	1	म.नं. 1 रामेश्वर से म.नं. 21 मोहन तक	अ.जा. 02
		2	म.नं. 23 चंपालाल से म.नं. 43 शोभाराम तक	अ.ज.जा. 07
		3	म.नं. 44 धनीबाई से म.नं. 69 मंगत तक	पि. वर्ग 02
		4	म.नं. 70 दयाबाई से म.नं. 92 अशोक तक	अनारक्षित 03
		5	म.नं. 93 रामामंशाराम से म.नं. 116 लीलाबाई तक	महिला अ.जा. 01
		6	म.नं. 117 राधेयाम से म.नं. 138 नाना तक	महिला अ.ज.जा. 04
		7	म.नं. 139 नानामोतीराम से म.नं. 155 मोतीराम तक	महिला पि. वर्ग 01
		8	म.नं. 156 छोटाराम से म.नं. 181 राजैन्द्र तक	महिला अनारक्षित 02
		9	म.नं. 182 महेन्द्र से म.नं. 199 मनोहर तक	
		10	म.नं. 200 रमेश से म.नं. 230 रामेश्वर तक	
		11	म.नं. 232 नैना से म.नं. 245 पप्पू तक	
		12	म.नं. 247 मंगतीबाई से म.नं. 266 मयाराम तक	
		13	म.नं. 267 कडवा से म.नं. 293 सीताराम तक	
		14	म.नं. 294 लाडकी से म.नं. 321 महिमराम तक	

ग्राम पंचायत : टेमला
परिशिष्ट-5 (अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण (5)
1	टेमला	1	म.नं. 1 हेमराज लिय्या से म.नं. 51 रमती मांगीलाल तक	अ.जा. 02
		2	म.नं. 53 रतनबाई राजाराम से म.नं. 84 नारायण शंकर तक	अ.ज.जा. 10
		3	म.नं. 85 राजाराम सीताराम से म.नं. 107 रामकौर तुलसीराम तक	पि. वर्ग 03

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	म.नं. 109 राधेश्याम गंगाराम से म.नं. 134 गेंदाबाई सीताराम तक		अनारक्षित	05
5	म.नं. 136 ओमप्रकाश तुलसीराम से म.नं. 168 शिवराम तक		महिला अ.जा.	01
6	म.नं. 169 राजू शिवराम से म.नं. 190 श्रीकृष्ण तक		महिला अ.ज.जा.	05
7	म.नं. 191 गोविन्द बोंदर से म.नं. 225 किशन अर्जुन तक		महिला पि. वर्ग	02
8	म.नं. 227 कैलाश गुलसिंग से म.नं. 247 पंढरी मंशाराम तक		महिला अनारक्षित	03
9	म.नं. 248 गुलाबसिंग केकडिया से म.नं. 278 नाना बाउ तक			
10	म.नं. 279 गोपी रामसिंग से म.नं. 310 काशीराम रणछोड़ तक			
11	म.नं. 311 स्याणी रामालाल से म.नं. 337 लोण्या उंकार तक			
12	म.नं. 338 मांगीलाल उंकार से म.नं. 356 सकरी बुदिया तक			
13	म.नं. 357 शीला शांतीलाल से म.नं. 382 सुंदरलाल तक			
14	म.नं. 383 मणीराम से म.नं. 420 कस्तुरीबाई तक			
15	म.नं. 421 जानकी काशीराम से म.नं. 449 उंकारलाल तक			
16	म.नं. 452 माया नवलसिंग से म.नं. 485 चिंगुबाई तक			
17	म.नं. 486 मयाराम घुसई से म.नं. 514 सीताराम गोविन्द तक			
18	म.नं. 515 रतन कडवा से म.नं. 552 चंदु उंदरिया तक			
19	म.नं. 553 नासरिया नानक्य से म.नं. 560क लिलुबाई तक			
20	म.नं. 607 कडवा भूरिया से म.नं. 677 सलिता आशाराम तक			

**ग्राम पंचायत : अघावन
परिशिष्ट-5 (अ)**

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :—

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	अघावन	1	म.नं. 1 गेंदा से म.नं. 27 रविन्द्र तक	अ.जा. 03
		2	म.नं. 28 सेवकाराम से म.नं. 43 राकेश तक	अ.ज.जा. 08
		3	म.नं. 44 महिमाराम से म.नं. 59 सुषमा तक	पि. वर्ग 01
		4	म.नं. 60 रामलाल से म.नं. 77 कोमल तक	अनारक्षित 04
		5	म.नं. 78 गीता से म.नं. 101 उषा तक	महिला अ.जा. 02
		6	म.नं. 102 लखन से म.नं. 152 मुकेश तक	महिला अ.ज.जा. 04
		7	म.नं. 153 द्वाराकी से म.नं. 173 रविराज तक	महिला पि. वर्ग 00
		8	म.नं. 174 चिन्ताराम से म.नं. 197 मनीषा तक	महिला अनारक्षित 02
		9	म.नं. 198 पंडु से म.नं. 209 भुपेन्द्र तक	
		10	म.नं. 210 अंकित से म.नं. 222 संजय तक	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		11	म.नं. 223 मंगु से म.नं. 247 गीरजा तक	
		12	म.नं. 253 प्रेमचंद से म.नं. 272 हर्षा तक	
		13	म.नं. 273 रामकरण से म.नं. 294 सेकराम तक	
		14	म.नं. 295 सीतारामत से म.नं. 316 फुलकोर तक	
		15	म.नं. 316 'क' हरीशंकर से म.नं. 345 सेवंती तक	
		16	म.नं. 347 सेकराम से म.नं. 358 काली तक	

ग्राम पंचायत : अकावल्या

परिशिष्ट-5 (अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	अकावल्या	1	म.नं. 1 रविन्द्र से म.नं. 17 सीमा तक	अ.जा. 01
		2	म.नं. 18 शंकर से म.नं. 36 राकेश तक	अ.ज.जा. 07
		3	म.नं. 37 जगन से म.नं. 57 ज्योति तक	पि. वर्ग 02
		4	म.नं. 58 महिमराम से म.नं. 99 अशोक तक	अनारक्षित 03
		5	म.नं. 103 घिसी से म.नं. 118 सुनिता तक	महिला अ.जा. 01
		6	म.नं. 119 शिवराम से म.नं. 162 लखन तक	महिला अ.ज.जा. 04
		7	म.नं. 163 सुरेश से म.नं. 199 मनोज तक	महिला पि. वर्ग 01
		8	म.नं. 200 मनोरमा से म.नं. 218 रविन्द्र तक	महिला अनारक्षित 02
	रामपुरा	9	म.नं. 1 लखन से म.नं. 19 सुमन तक	
		10	म.नं. 21 सकु से म.नं. 49 ललिता तक	
		11	म.नं. 50 गणपत से म.नं. 76 सुमन तक	
		12	म.नं. 81 शिवराम से म.नं. 90 योगेश तक	
		13	म.नं. 92क कुन्ता से म.नं. 110 माधुरी तक	

ग्राम पंचायत : आसनगांव

परिशिष्ट-5 (अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने

वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों का क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण (5)
1	आसनगांव	1	म.नं. 1 नितीन से म.नं. 15 पंढरी तक	अ.जा. 03
		2	म.नं. 16 गीता से म.नं. 37क दिलीप तक	अ.ज.जा. 08
		3	म.नं. 39 किशन से म.नं. 61 नरेन्द्र तक	पि. वर्ग 00
		4	म.नं. 64 रमेश से म.नं. 84 सुखदेव तक	अनारक्षित 04
		5	म.नं. 85 काशीराम से म.नं. 100 मयाराम तक	महिला अ.जा. 02
		6	म.नं. 101 जगदीश से म.नं. 116 जगदीश तक	महिला अ.ज.जा. 04
	किशनपुरा	7	म.नं. 117 तिख्या एवं म.नं. 1 रणछोड़ से 20 देवदास तक	महिला पि. वर्ग 00
		8	म.नं. 21 राजाराम से म.नं. 39 धमेन्द्र तक	महिला अनारक्षित 02
		9	म.नं. 40 मातीराम से म.नं. 59 तुलसीराम तक	
		10	म.नं. 60 श्याम से म.नं. 105 लक्ष्मीनारायण तक	
	पोखरखुर्द	11	म.नं. 1 सरदार से म.नं. 20 मोहन तक	
		12	म.नं. 22 बाबुलाल से म.नं. 35 अमृत तक	
		13	म.नं. 36 केशव से म.नं. 48क राजू तक	
		14	म.नं. 50 कैलाश से म.नं. 69क कैलाश तक	
		15	म.नं. 71 मंशाराम से म.नं. 93 हुकुम तक	

ग्राम पंचायत : बगवा

परिशिष्ट-5 (अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों का क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण (5)
1	बगवा	1	म.नं. 1 दिपक से म.नं. 19 चंदन तक	अ.जा. 01
		2	म.नं. 21 हिरूबाई से म.नं. 35 टुकड़ीबाई तक	अ.ज.जा. 08
		3	म.नं. 36 काशीराम से म.नं. 50 भील्या तक	पि. वर्ग 03
		4	म.नं. 51 जगदीश से म.नं. 70 मानु तक	अनारक्षित 04
		5	म.नं. 71 श्यामा से म.नं. 87 मुलचंद तक	महिला अ.जा. 00
		6	म.नं. 88 कैलाश से म.नं. 116क शांतीलाल तक	महिला अ.ज.जा. 04
		7	म.नं. 117ख दुलीचंद से म.नं. 131 कन्हैया तक	महिला पि. वर्ग 02
		8	म.नं. 132 काशीराम से म.नं. 153 शंकर तक	महिला अनारक्षित 02

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		9	म.नं. 154 गोरी से म.नं. 167 बाबुलाल तक	
		10	म.नं. 168 मयाराम से म.नं. 190 मोतीलाल तक	
		11	म.नं. 191 गोरीशंकर से म.नं. 202 बाबुलाल तक	
		12	म.नं. 203क मोहन से म.नं. 217 तुलसीराम तक	
		13	म.नं. 218 दगडु से म.नं. 228 बंशीधर तक	
		14	म.नं. 229 भागवत से म.नं. 247 राजाराम तक	
		15	म.नं. 247क बलीराम से म.नं. 261 शैलेन्द्र तक	
		16	म.नं. 262 रामेश्वर से म.नं. 306 बाबु तक	

ग्राम पंचायत : बैजापुरा
परिशिष्ट-5 (अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	बैजापुरा	1	म.नं. 1 झिलकीबाई से म.नं. 14 रेखबाई तक	अ.जा. 03
		2	म.नं. 15 सदुपाटीया से म.नं. 32 कोमलबाई तक	अ.ज.जा. 10
		3	म.नं. 33 रामेश्वर से म.नं. 48 रूनाबाई तक	पि. वर्ग 02
		4	म.नं. 50 भारत से म.नं. 62 महेन्द्र तक	अनारक्षित 05
		5	म.नं. 63 बलीराम से म.नं. 75 हिरालाल तक	महिला अ.जा. 02
		6	म.नं. 77 रमतीबाई से म.नं. 98 गंगा रूपा तक	महिला अ.ज.जा. 05
		7	म.नं. 99 मांगीलाल से म.नं. 119 हैमा तक	महिला पि. वर्ग 01
		8	म.नं. 120 गणेश से म.नं. 132क केशरीबाई तक	महिला अनारक्षित 03
		9	म.नं. 133 जितेन्द्र से म.नं. 149 कालीबाई तक	
		10	म.नं. 150 मिशखबाई से म.नं. 171 सुखलाल तक	
		11	म.नं. 174 दुल्या से म.नं. 187 मोनिका तक	
		12	म.नं. 188 कलुबाई से म.नं. 204 लालुबाई तक	
		13	म.नं. 205 रमेश से म.नं. 225 रोशनीबाई तक	
		14	म.नं. 227 लिम्बा से म.नं. 247 मंजुबाई तक	
		15	म.नं. 248 झुमाबाई से म.नं. 282 गोविन्द तक	
	बैडियापुरा	16	म.नं. 1 चंपलिया से म.नं. 16 वायलीबाई तक	
		17	म.नं. 17 रामसिंग से म.नं. 36 सीमा तक	
		18	म.नं. 38 काशीराम से म.नं. 50क जटूजी तक	
		19	म.नं. 51 छगन से म.नं. 268 सिरोटी तक	
		20	म.नं. 269 गपलिया से म.नं. 289 काहरी तक	

ग्राम पंचायत : बलवाडी
परिशिष्ट-5 (अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :—

सारणी

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण (5)
1	बलवाडी	1	म.नं. 4 हरी से म.नं. 17 शांता तक	अ.जा. 05
		2	म.नं. 20 जगदीश से म.नं. 36 संतोष तक	अ.ज.जा. 10
		3	म.नं. 37 नारायण से म.नं. 49 लिम्बाराम तक	पि. वर्ग 00
		4	म.नं. 51 शिवकरण से म.नं. 68 कैलाश तक	अनारक्षित 05
		5	म.नं. 70 कैलाश से म.नं. 86 पंढरी तक	महिला अ.जा. 03
		6	म.नं. 87 तुलसीराम से म.नं. 105क मोत्या तक	महिला अ.ज.जा. 05
		7	म.नं. 105ख श्यामा से म.नं. 124 मोहन तक	महिला पि. वर्ग 00
		8	म.नं. 126 संतोष से म.नं. 144 नर्मदा तक	महिला अनारक्षित 03
		9	म.नं. 145 विजय से म.नं. 169 नंदा तक	
	बलवाडी	10	म.नं. 172 पंढरी से म.नं. 192 मानसिंग तक	
	(प्रेमनगर)	11	म.नं. 193 रमेश से म.नं. 211 सखाराम तक	
		12	म.नं. 212 कालुराम से म.नं. 235ख भूरू तक	
		13	म.नं. 235ग प्रेमसिंह से म.नं. 246घ मदनलाल तक	
		14	म.नं. 249 दयाराम से म.नं. 259घ कृष्णा तक	
		15	म.नं. 262 चंद्रिका से म.नं. 281ख नानुराम तक	
		16	म.नं. 282 किशन से म.नं. 300 ग्यारसी तक	
		17	म.नं. 301 मंगत से म.नं. 314क मोतीराम तक	
		18	म.नं. 315 घिसी से म.नं. 336क पन्नालाल तक	
		19	म.नं. 337 कालु से म.नं. 339 धन्या तक	
		20	म.नं. 353 रामेश्वर से म.नं. 375 महेश तक	

ग्राम पंचायत : बरूड़
परिशिष्ट-5 (अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने

वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण (5)
1	बरूड़	1	म.नं. 1 जिवनसिंग से म.नं. 90 शिवनारायण तक	अ.जा. 03
		2	म.नं. 91 ईश्वर से म.नं. 178 बंशीलाल तक	अ.ज.जा. 10
		3	म.नं. 179 हिरालाल से म.नं. 259 लक्ष्मण तक	पि. वर्ग 02
		4	म.नं. 160 रामलाल से म.नं. 357 चम्पालाल तक	अनारक्षित 05
		5	म.नं. 358 राधेश्याम से म.नं. 445 गोर्वधन तक	महिला अ.जा. 02
		6	म.नं. 446 शंकरलाल से म.नं. 546 दिनेश तक	महिला अ.ज.जा. 05
		7	म.नं. 547 झनोका से म.नं. 623 कैलाश तक	महिला पि. वर्ग 01
		8	म.नं. 624 भारत से म.नं. 715 औंकार तक	महिला अनारक्षित 03
		9	म.नं. 716 गेंदाला से म.नं. 743 श्रीकृष्ण तक	
		10	म.नं. 744 हरीनारायण से म.नं. 863 सदाशिव तक	
		11	म.नं. 864 नाना से म.नं. 950 हरीश तक	
		12	म.नं. 951 मकबुल से म.नं. 1084 नारायण तक	
		13	म.नं. 1085 रामनाथ से म.नं. 1148 रामलाल तक	
		14	म.नं. 1149 भगवान से म.नं. 1212 रतन तक	
		15	म.नं. 1213 भवरसेठ से म.नं. 1292 टंटु तक	
		16	म.नं. 1293 गिरवर से म.नं. 1376 रमेश तक	
		17	म.नं. 1377 शोभाराम से म.नं. 1458 लक्ष्मण तक	
		18	म.नं. 1459 कैलाश से म.नं. 1610 देवराम तक	
		19	म.नं. 1611 विजय से म.नं. 1734 कलसिंग तक	
		20	म.नं. 1737 कैलाश से म.नं. 1830 भगवान तक	

ग्राम पंचायत : डालका

परिशिष्ट-5 (अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक (1)	ग्राम पंचायत का नाम (2)	वार्डों के क्रमांक (3)	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक (4)	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण (5)
1	डालका	1	म.नं. 2 राधेश्याम से म.नं. 29 शीतल तक	अ.जा. 03
		2	म.नं. 31 शंकर से म.नं. 53 महेश तक	अ.ज.जा. 10
		3	म.नं. 55 सुरेश से म.नं. 87 पारस तक	पि. वर्ग 02
		4	म.नं. 88 से बाउ लच्छा से म.नं. 118 देवदास तक	अनारक्षित 05

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	डालका	5	म.नं. 120 भगवान से म.नं. 139 आशाबाई तक	महिला अ.जा. 02
		6	म.नं. 141 शंकर से म.नं. 159 रूखड़ी तक	महिला अ.जा.जा. 05
		7	म.नं. 161 बुधा से म.नं. 183 सचिन तक	महिला पि. वर्ग 01
		8	म.नं. 184 कालूराम से म.नं. 201 'क' लक्ष्मीबाई तक	महिला अनारक्षित 03
		9	म.नं. 203 गोकुल से म.नं. 220 रेखाबाई तक	
		10	म.नं. 221 लेवा से म.नं. 240 सावित्रीबाई तक	
		11	म.नं. 241 बद्रि से म.नं. 264 हेमलता तक	
		12	म.नं. 265 तोताराम से म.नं. 289 मुकेश तक	
		13	म.नं. 291 पारूबाई से म.नं. 315 देवीलाल तक	
		14	म.नं. 316 गोदावरी से म.नं. 340 राजेन्द्र तक	
		15	म.नं. 341 महेश से म.नं. 370 हेमलता तक	
		16	म.नं. 371 उंकार से म.नं. 392 वर्षा तक	
		17	म.नं. 393 शंकर से म.नं. 413 लक्ष्मीबाई तक	
		18	म.नं. 437 गंगाराम से म.नं. 467 'क' सुधा तक	
		19	म.नं. 468 शिवराम से म.नं. 501 राधाबाई तक	
		20	म.नं. 502 राकेश से म.नं. 539 सेवकराम तक	

ग्राम पंचायत : दसंगा

परिशिष्ट-5 (अ)

मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों का क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	दसंगा	1	म.नं. 2 राजाराम से म.नं. 23/1 सीताराम तक	अ.जा. 01
		2	म.नं. 24 बिहारी से म.नं. 40 ग्यारसी तक	अ.जा.जा. 06
		3	म.नं. 41 से म.नं. 62 मथुरा तक	पि. वर्ग 01
		4	म.नं. 63 बाबू से म.नं. 88/1 दुलीचंद तक	अनारक्षित 03
		5	म.नं. 89 राजाराम से म.नं. 115 हीरालाल तक	महिला अ.जा. 01
	पान्यादड़	6	म.नं. 1 राजू से म.नं. 11 रेवाराम तक	महिला अ.जा.जा. 03
		7	म.नं. 13/1 हरेसिंह से म.नं. 25 शांता तक	महिला पि. वर्ग 01
		8	म.नं. 26 बजा से म.नं. 40 तोताराम तक	महिला अनारक्षित 02
		9	म.नं. 41 सकाराम से म.नं. 55 टन्ट्या तक	
		10	म.नं. 56 बाबुलाल से म.नं. 74 क काशीराम तक	
		11	म.नं. 75 टुटला से म.नं. 161 रेखा तक	

ग्राम पंचायत—बैडियाव

परिशिष्ट-5 (अ)

खरगोन, दिनांक 22 सितम्बर 2014

क्र. 13367-पंचा. निर्वाचन-2014-15.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
				प्रवर्ग	संख्या	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
1	बैडियाव	1	म.नं. 1 अनुपसिंग से म.नं. 22 कैलाश तक	अ.जा.	03	
		2	म.नं. 23 परसराम से म.नं. 38 जानकी तक	अ.ज.जा.	06	
		3	म.नं. 39 उंकार से म.नं. 59 गंदालाल तक	पि. वर्ग	00	
		4	म.नं. 60 रामलाल से म.नं. 96क रघुविर तक	अनारक्षित	03	
		दारापुर	5	म.नं. 1 दिनेश से म.नं. 15 गंधीर तक	महिला अ.जा.	02
			6	म.नं. 16 कमल से म.नं. 32 कडवा तक	महिला अ.ज.जा.	03
			7	म.नं. 34 अंतरसिंह से म.नं. 50 अमरसिंह तक	महिला पि. वर्ग	00
			8	म.नं. 51 कमल से म.नं. 59 बैमनीया तक	महिला अनारक्षित	02
		फाजिलपुरा	9	म.नं. 1 शंकर से म.नं. 22 कमल तक		
			10	म.नं. 23 बलीराम से म.नं. 71 कोठारिया तक		
		पुरानी भाडली	11	म.नं. 1 से म.नं. 19 तक		
			12	म.नं. 20 से म.नं. 30 अंत तक		

नीरज दुबे, कलेक्टर.

ग्राम पंचायत

परिशिष्ट-5 (अ)

खरगोन, दिनांक 8 मई 2014

क्र. 13367-पंचा. निर्वाचन-2014-15.—मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलेक्टर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ (3) में वर्णित वार्ड क्रमांकों में जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ (4) में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ (5) में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

खण्ड गोगावाँ

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं. से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सिगनुर	1	1 से 11/1 शांता बाई रडल्या से लुदी बाई हिरमल	अ.जा.	0
		2	12 से 26/1 कालु भलजी से राधेश्याम होल्या	अ.ज.जा.	10
		3	27 से 38 बिहारी किशन से लीला देवसिंग	अन्य पि. वर्ग	0
		4	39 से 50 सकाराम नानसिंग से लालचंद पिथिया	अनारक्षित	3
		5	52 से 60/2 विरूसिंह सरदार से फुलमती शिवचरण	महिला अ.जा.	0
		6	60/3 से 71 परसराम बागा से प्रियंका बाई सुरज	महिला अ.ज.जा.	5
		7	72/1 से 82 हिरालाल फुलसिंग सरदार दित्तिया	महिला पि. वर्ग	0
		8	83 से 36 केरिया पातल्या से सुरमी सिताराम	अनारक्षित महिला	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	सिगनुर	9	38 से 98/2 किनसिंग देवेंसिंग से सुमकोर मौलक सिंग	
	गोपालपुरा	10	1 से 8 दिलिप राजाराम से संगीता कमल सिंग	
		11	9 से 19 तक मुनसिंग गंजी से सुवाली बाई राजु	
		12	20/1 से 40 डोंगरिया गटल्या से बासु किशन	
		13	141 से 145 नजरी बाई झगडीया से विक्रम कुँवर सिंह	

खण्ड गोगावों

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1	घट्टी	1	1 से 14 अंतेश कालु से किरण दिनेश	अ.जा.	1		
		2	15 से 35 गीताबाई हरि से अनिता दिलिप	अ.ज.जा.	18		
		3	36 से 51 लाडकी छगन से अमित तोताराम	अन्य पि. वर्ग	0		
		4	52 से 81 छितर जन्तिया से बसंती गंगाराम	अनारक्षित	1		
		5	82 से 102 मांगीलाल गप्पु से कुसुम रमेश	महिला अ.जा.	1		
		6	103 से 115 रजान लालु से रविन्द्र हाउसीलाल	महिला अ.ज.जा.	9		
		7	116 से 130 जलाल गेला से भुरी बाई रामका	महिला पि. वर्ग	0		
		8	131 से 252 आपा हेमराज से पप्पु गेंदालाल	अनारक्षित महिला	0		
		महुमाण्डली		9	4 से 17 कालु से मुन्नी रामलाल		
				10	18 से 26 राल्या जवान सिंग से सहेदी रायसिंग		
				11	27 से 37/1 नरसिंग केरिया से टुनकि रूपसिंग		
				12	38 से 71 सुरपाल केरिया से सारिका सुरेश		
				13	72 से 84 जागली गमा से रेना वेरसिंग		
				14	85 से 96 टुना बाई रामा से सिताराम वेस्ता		
				15	97 से 115 अंचाबाई नहारसिंग से सकारी डकारिया		
				16	116 से 128 मांगीलाल खजान से अनिता गुजारिया		
				17	127 से 140 शोभाराम गटु से सुनिल लालसिंग		
				18	141 से 155 धरमसिंग खजान से गौरिलाल कालु		
				19	156 से 161 रहाग्या गेंदराम गौरिलाल छतरसिंग		
				20	162 से 186 देवेसिंग चांदडीया से गंगाबाई सुनिल		

खण्ड गोगावों

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सोलना	1	3 से 8 गुलाब गोटु से तुकाराम गिल्या	अ.जा.	0
		2	8/1 से 16 सौदान रमेश किरमा तेला	अ.ज.जा.	11

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	सोलना	3	17 से 27 थापा भारता से सीताराम कोटवाल	अन्य पि. वर्ग	0
		4	30 से 37 शिवराम शंकर से तुलसीराम महारिया	अनारक्षित	0
		5	38 से 45/1 धरमसिंग इसमल से अनिल चैनसिंग	महिला अ.जा.	0
		6	46 से 54 तोताराम रलजी से नानसिंग नहेरसिंग	महिला अ.ज.जा.	6
		7	55 से 61 रेसला निहाला से रमेश रालु	महिला पि. वर्ग	0
		8	62 से 77/1 धावली गुलाब से लालु सुमेर	अनारक्षित महिला	0
		9	78 से 88/1 जोखली भावला से रामदास वेस्ता		
		10	89 से 3/1 भिमसिंग मोती से दिनेश नानला		
	जुलवानिया	11	3/2 से 2 सुरेश गुलाबसिंग से शंकर इरभान		

खण्ड गोगावाँ

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नागझिरी	1	2 से 31 सुरेश कडवा से जमना बाई अमोद	अ.जा.	1
		2	32 से 64 जगदीश रणछोड से जयश्री जितेन्द्र	अ.ज.जा.	10
		3	65 से 105 रामचंद दगडु से गोपाल श्री कृष्ण	अन्य पि. वर्ग	4
		4	106 से 147 बट्टी पोमडु से चंद्रमणी जगदीश	अनारक्षित	5
		5	149 से 189 ग्यारसी बाई बिसन से प्रमीला बाई मोहन	महिला अ.जा.	1
		6	190 से 222 जगन्नाथ हरेसिंग से परमिला मनोज	महिला अ.ज.जा.	5
		7	223 से 265 भगवान खुस्याल से मधुबाई आशाराम	महिला पि. वर्ग	2
		8	268 से 297 पिंकी महाविर से रुखमणी बाई पन्नालाल	अनारक्षित महिला	2
		9	298 से 330 लाडकी बाई छोगालाल से उर्मीला श्याम		
		10	333 से 373 रामकरण पन्नालाल से राजबहादुर सिंह		
		11	375 से 423 लिला बाई विष्णुराव से परमानन्द बालकृष्ण		
		12	426 से 480 रामेश्वर गंगाराम से रानु बाई रविन्द्र		
		13	481 से 516 ओमप्रकाश मोतीराम से धनुबाई दगडु		
		14	517 से 558 बाबुलाल किशन से भारती परवीण		
		15	562 से 837 जगदीश गेंदालाल से रामप्यारी कडवा		
		16	838 से 892 अनुबाई से सीमा बाई		
		17	893 से 947 विनोद चंद्र शेखर से संतोषी अनिल		
		18	948 से 1013 गोडिया मांगीलाला से सीमा दिनेश		
		19	1014 से 1071 लक्ष्मण छज्जु से अमरावती पन्नालाल		
		20	1074/क से 1195/क सुरेश बाबु सिंग से ईश्वर घिसीलाल		

खण्ड गोगावों			सारणी		
अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कोठा खुर्द	1	1 (मंशाराम गोपोल) से 37 (अमना बाई नईम) तक	अ.जा.	2
		2	38 से 62 नानुराम बालाजी से धनु बाई दशरथ	अ.ज.जा.	9
		3	63 से 91 कडवा बंकट से लखनलाल दुलिचंद	अन्य पि. वर्ग	2
		4	95 से 119 फोगा रजान से दिलिप बाबुलाल	अनारक्षित	4
		5	120 से 160 कडवा जामसिंग से मांगीलाल चुन्निलाल	महिला अ.जा.	1
		6	161 से 179 अवन्ती बाई दुलीचंद से मांगीलाल हिरालाल	महिला अ.ज.जा.	5
		7	180 से 206 कुवरजी बावरीया से हिरालाल गंगाराम	महिला पि. वर्ग	1
		8	210 से 233 औंकार उन्दरिया से धन्नालाल छगन	अनारक्षित महिला	2
		9	234 से 252 नानु राम नराण सीताराम शंकर		
		10	253 से 276 हगरु सकाराम से पंढरी रामराव		
		11	277 से 301 पुरषोत्तम श्यामराव से पंढरी लछीराम		
		12	302 से 316 पुनमचंद दामा से रमेश तोताराम		
		13	317 से 346 रूखमणी बाई मंशाराम से आशाराम भिका जी		
		14	347 से 373 रामई बाई गंगाराम से ठाकुर सोमल्या		
		15	374 से 399/क कोलु बापु से कलसिंग हरदास		
		16	400 से 117 जगदीश पंढरी से कालु कोलु		
		17	128 से 415 लोकेश छोगालाला से रेवलसिंह झंझाड		

खण्ड गोगावों			सारणी			
अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	जगन्नाथपुरा	1	1 से 21 सुनिल मुन्ना से सुनिता सागर सिंह	अ.जा.	1	
		2	22 से 40 रूम सिंग से रामप्यारी	अ.ज.जा.	7	
		3	40/1 से 49 बंशीलाल जामसिंग से तुकाराम छगन	अन्य पि. वर्ग	2	
		4	50 से 55 मोतीया दित्या से बजारिया	अनारक्षित	3	
		डोल	5	1 से 70 कंचन से सुरज	महिला अ.जा.	1
		अवली	6	1 से 16 नुरि शिव	महिला अ.ज.जा.	4
		7	17 से 34 झापडी बाई से लक्ष्मी बाई	महिला पि. वर्ग	1	
		8	35 से 48/ख उदिया से माया बाई	अनारक्षित महिला	2	
		9	49 से 63 झबरी बाई से रेखा बाई			
		10	64 से 83 रामचंद्र से सरोज बाई			
		11	84 से 110 निहालो से रोशनी			
		12	110/क से 133 कालु से संजय			
		13	134 से 0/73 रमेश से मुन्नी बाई			

खण्ड गोगावों

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	लाखी	1	4 से 27 नाना काशिराम से रोशनी राजेश	अ.जा.	1
		2	32 से 51 तक हरिराम गडबड से मंजु धर्मेन्द्र	अ.ज.जा.	8
		3	52 से 71 मांगीलाल छगनलाल से पुजा सुनिल	अन्य पि. वर्ग	3
		4	72 से 86/ग भगवान झापडु से सीमा राकेश	अनारक्षित	4
		5	87 से 101 राजु गोपाल से शक्ति गिरधारी तक	महिला अ.जा.	1
		6	103 से 117 रूखमणी बाई कल्याण से मिथुन सतीश	महिला अ.ज.जा.	4
		7	119 से 138 श्यामा बाई रामालाल से बिलकेश सत्तार खॉ	महिला पि. वर्ग	2
		8	139 से 155 अब्बास खॉ से सुनिता ओमप्रकाश	अनारक्षित महिला	2
		9	157 से 172 अजुद्धया शोभाराम से कमला गणपती तक		
		10	173 से 186 तक राधेश्याम मांगीलाल से संतोष बाबुलाल		
		11	187 से 208 रेवाराम मांगीलाल से माया कमल		
		12	209 से 236 भुरी बाई उमर से शितल शांतिलाल		
		13	237 से 159/क बट्टी हटा से ज्योति कालु		
		14	259/क से 283 तक भागीरथ मंगल से सुनिता जितेन्द्र		
		15	284 से 306/क गट्टु नरसिंग से सिता गंगाराम		
		16	307/क से 318 भागु बाई भावसिंग से कमला सतिश		

खण्ड गोगावों

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	जामन्या	1	2 से 15 गोकुल मंगत से ममता बाई महेश	अ.जा.	1
		2	16 से 25 कैलाश नत्थु से महेश ओमप्रकाश	अ.ज.जा.	7
		3	26 से 37/क सजन बाई शिवराम से गोपाल दिलिप	अन्य पि. वर्ग	3
		4	38 से 51 चम्पालाल मकुंद से माया बाई प्रकाश	अनारक्षित	3
		5	53 से 61 राजकोर बाई नत्थु से गिरजा प्रकाश	महिला अ.जा.	1
		6	62 से 71 गोकुल मांगीलाल से संतोषी बाई बिसन	महिला अ.ज.जा.	4
		7	72 से 81 अमोल बाई किशन से राजु शंकर	महिला पि. वर्ग	2
		8	82 से 96 छन्नु सुखलाल से सतिश कैलाश	अनारक्षित महिला	1
		9	97 से 118/ए जगन गोपाल से प्रविण यशवंत		
	सिबार	10	00 से 3 बठाराम सोनिया से सुनिता शंकर		
		11	04 से 14/क घिसु बाई औंकार से लिला बाई जगदीश		
		12	15 से 29/झ दुधाजी देवाजी से ममता बाई गोविन्द तक		
		13	30 से 46 मनाजी औंकार से सुनिता कमल		
		14	47 से 57 नेहतु बाई गागाजी से नुरजी नकिसिंग		

खण्ड गोगावों

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बिस्टान	1	01 से 62/2 वंदना इन्दरसिंग से बस्कर मुकेश	अ.जा.	2
		2	68 से 130 जोगीलाल चिन्तामण से वैशाली विनय गुप्ता	अ.ज.जा.	10
		3	130/1 213 भोला राम लक्ष्मण से हरिओम कल्लु	अन्य पि. वर्ग	3
		4	214/ से 297/क नारायण कालु से पुष्पेन्द्र धन्नालाल	अनारक्षित	5
		5	298 से 369 शान्तिलाल भावलाल से रानु रामेश्वर	महिला अ.जा.	1
		6	370 से 437/2 संतोष रामनारायण से प्रेमलता महेश	महिला अ.ज.जा.	5
		7	437/3 से 504 जगदीश झापडु शाह से चिराग मांगीलाल	महिला पि. वर्ग	2
		8	505 से 574 पंढरी सिताराम से आरती जितेन्द्र	अनारक्षित महिला	2
		9	576 से 634/1 सुनिता रामनाराण से भारती पंढरी		
		10	634/2 से 744/1 प्रभु नत्थु से निलेश्वरी रामकिशन		
		11	747 से 807/ग शिवराम कपुरचंद से भावना धन्नालाल		
		12	808 से 882 महेश केशव लखन जितेन्द्र		
		13	883 से 935/क गीताबाई शिवराम से दुर्गा ओमप्रकाश		
		14	936 से 1009 मगला राधेश्याम से हुसैन ईस्माईल		
		15	1010 से 1096 सुमतियामनि भुषण से शबाना ऐजाज		
		16	1097 से 1193/1 रामलाल मदन से शान्ति जगदीश		
		17	1194 से 1294 नासिर मो. कातीर मो. से चम्पा कैलाश		
		18	1295 से 1372/क मांगीलाल पुन्या से अर्जुन लक्ष्मण		
		19	1374 से 1445 आशाराम दयाराम से ज्योति दिलिप		
		20	1446 से 1522 सखाराम मंगल्या से भूरेसिंह गोविन्द सिंह		

खण्ड गोगावों

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	रूपखेडा	1	02 से 14/अ सरदार काशिराम से मंजु चम्पालाल	अ.जा.	0
		2	14/ख से 31/2 फुदा हजारिया से जगदीश नत्थु	अ.ज.जा.	18
		3	32 से 40/ख तेला सोदु से भगाबाई खुमसिंग	अन्य पि. वर्ग	0
		4	41 से 53 राजेश कनसिंग से पारसिंग मांगीलाल	अनारक्षित	2
		5	53/2 से 67 शांता जीवन से बंसन्ती देवीसिंग	महिला अ.जा.	0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	रूपखेडा	6	68 से 78 गंगाराम दुरसिंग से सारिका पन्नालाल	महिला अ.ज.जा.	9
		7	79 से 92 सुरभान दुरसिंग से सुका कोटवाल	महिला पि. वर्ग	0
		8	93 से 111 मिरली से बंसन्ती	अनारक्षित महिला	1
		9	112 से 128 ज्ञानसिंग से भगडा		
		10	128 से 137 जगन गरदीया से सीमा रामु		
		11	137 से 143 भावसिंग के घर से रायसिंग		
		12	144 से 148 प्यारसिंग के घर से झुमा के घर तक		
		13	148 से 141 सुनिल रूमसिंग से कोटवाल		
	मेहरघट्टी	14	1 से 12 नवसर से सीमा		
		15	13 से 19 किशन गुरुजी से गीता		
		16	16 से 23 गिलदार से रेखा		
		17	24 से 30 गोकुल से मनीषा		
		18	31 से 40 प्रधान से रमेश		
		19	41 से 60 मकडी से रीना		
		20	60 से 171/अ गौरैलाल से किर्ती		

खण्ड गोगावाँ

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	खेडी खुर्द	1	1 से 19 कुसुम हरीराम से रीना हुकुम	अ.जा.	7
		2	20 से 41 मीठाराम पुन्या से रीता लोकेन्द्र	अ.ज.जा.	8
		3	43 से 65 गेंदाबाई से अखिलेश	अन्य पि. वर्ग	0
		4	66 से 81 लाडकी वाल्या से अंतिम नानुराम	अनारक्षित	0
		5	82 से 94 पुनमचंद शंकर से राहुल जगदीश	महिला अ.जा.	4
		6	96 से 114 तुकाराम नानु से अजय सेवकराम	महिला अ.ज.जा.	4
		7	115 से 131 चम्पालाल कुवर सिंह से रितेश	महिला पि. वर्ग	0
		8	132 से 160 मधुरा बाई बाबु से सीमा वल्लभ	अनारक्षित महिला	0
डोगरगांव		9	1 से 14 दीपा महेश से सावित्री राधेश्याम		
		10	15 से 28 केशव गणपत		
		11	29 से 38 धनसिंग चम्पालाल से रईस		
		12	39 से 51 शोभाराम से राधिका		
		13	52 से 68 उदयसिंग से रेखा जवानसिंग		
		14	70 से 93 रूखडिया से भावना अशोक		
		15	94 से 97 सलु बाई से प्रिया सुभाष		

खण्ड गोगावाँ

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बिलाली	1	1 से 12/ख रीना हरिओम से अमजद आबिद	अ.जा.	1
		2	14 से 37 तोताराम फत्तु से आमिर भिकारू	अ.ज.जा.	7
		3	38 से 60 माधव मिठाराम से सीमा सुकेश	अन्य पि. वर्ग	3
		4	64 से 76 मांगीलाल फकीरा से संगीता मोहन	अनारक्षित	3
		5	77 से 92/क लाडकी मंशाराम से जगदीश राजाराम	महिला अ.जा.	1
		6	93 से 104 सुन्दर किशन से किरण महेश	महिला अ.ज.जा.	4
		7	105 से 122 टुटला नंदिया से कोमल लिमडा	महिला पि. वर्ग	2
		8	123 से 133 सलिता जयराम से सपना प्रभु	अनारक्षित महिला	1
		9	134 से 148 पारू शिवा से मनीषा कमलेश		
		10	149 से 164 रामप्यारी रतन से गिता दिपक		
		11	167 से 183 गबरू शंकर से चन्द्रकला अर्जुन		
		12	184 से 192 नानकराम फत्तु से संगीता लोकेश		
		13	193 से 201 विरतु कालु से फलुरूपसिंग		
		14	202 से अन्त चमकी कालु से सेवकराम दिपचंद		

खण्ड गोगावाँ

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	टेमरना	1	1 से 14 शिवराम रामकिशन से धर्मेन्द्र हिरालाल	अ.जा.	2
		2	15 से 26 गेंदाबाई मंगत से अर्जुन शिवराम	अ.ज.जा.	10
		3	26/1 से 42 सोम्मर नत्थु से दिपीका नरेन्द्र	अन्य पि. वर्ग	1
		4	45 से 60 कंचन भागीरथ से कामिनी यशवंत	अनारक्षित	4
		5	61 से 68 अमोलबाई रामलाल से रीता यशवंत	महिला अ.जा.	1
		6	69 से 74 खुश्याल मोतीराम से विजय बदामसिंग	महिला अ.ज.जा.	5
		7	74/क से 84 रोहित बदामसिंग से चंचल मनोहर	महिला पि. वर्ग	1
		8	85 से 99 किरण कोशिक से सोनु हिरालाल	अनारक्षित महिला	2
		9	100 से 120 मिठाराम शंकर से सुरली पप्पु		
		10	122 से 133 गिलदार पहासिंग ले लालबाई नत्थु		
		11	134 से 143 सातु वालसिंग से पारी बाई सुरेश		
		12	144 से 154 नराण सोम्मर से नानकराम रूमाल		
		13	156 से 167 गिता केशरिया से झिना रतन		
		14	169 से 179 मस्टर पहाडसिंग से रेखा महरिया		
		15	180 से 187 गवलसिंग शंकर से दिनेश तुकाराम		
		16	188 से 208 रामदास रेवाराम से निशा नानसिंग		
		17	210 से 222 दगडिया मोति से रेखा बाई रामसिंग		

खण्ड गोगावों			सारणी		
अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	पिपलाई	1	1 से 15/1 नहाली भावसिंग से आसा धरमसिंग	अ.जा.	0
		2	16 से 28/1 मोतीराम धवलीया से ममता राधेश्याम	अ.ज.जा.	10
		3	29 से 47 ईलादी बाई विरभान से गुलाबी बाई डेडु	अन्य पि. वर्ग	1
		4	48 से 65 सिकराम से अन्त तक	अनारक्षित	3
		5	66 से 77 सुगणा बाई नत्थु से ममता नानकराम	महिला अ.जा.	0
		6	78 से 91/2 सुन्दर कोल्या से लीला देवराम	महिला अ.ज.जा.	5
		7	92 से 107 लच्छीराम शोभाराम से मुकेश गोविन्द	महिला पि. वर्ग	1
		8	108 से 124 रामसिंग लच्छी राम से राजेश नरसिंग	अनारक्षित महिला	2
		9	126 से 140 गंगाराम केना से रंगु बाई शंकर		
		10	146 से अन्त तक श्यामलाल मोहन से अन्त		
	बिसनपुरा	11	02 से 14 दिनेश धरमा से कस्तुरी मदन		
		12	14 से 27 मदन जामसिंग से रेकली बाई राधेश्याम		
		13	28 से 48 छगन राम सिंग से देवराम गुरज्या		
		14	48/1 से अन्त तक मनीषा देवराम से सुनता भुरला		

खण्ड गोगावों			सारणी			
अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
				प्रवर्ग	संख्या	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	सुरपाला	1	1 से 17/1 मुन्ना तेलसिंग से रामजी हिराजी	अ.जा.	1	
		2	17/2 से 32/2 पप्पु रामाजी से सीताराम अर्जुन	अ.ज.जा.	8	
		3	33 से 43 कंचन बाई रमेश से अशरबबी असलम	अन्य पि. वर्ग	3	
		4	44 से 60 भुरेखा करीम से सालीनी श्याम	अनारक्षित	4	
		5	61 से 71 गीताबाई शंकर से भावना मनोहर	महिला अ.जा.	1	
		6	71/1 से 86 बालीबाई रामजी से रोहित आत्माराम	महिला अ.ज.जा.	4	
		7	87 से ए राजकुमार गोपाल से शायबी रामसिंग	महिला पि. वर्ग	2	
		बोरगांव	8	1 से 20/1 दिनेश रेसला से ममता भगवान	अनारक्षित महिला	2
			9	21 से 40 शंकर बालाराम से आसमीन नवाब		
			10	41/क से 65 जुम्मा फकिरा से इन्दिरा कमलसिंग		
			11	67 से 79 रेवाराम सबल से मनोज सिंह राजेन्द्र सिंह		
			12	80 से 92 दुलेसिंह सितराम से माया संतोष		
			13	93 से 108 लाडकी मंगत तसे संतोषी ओमप्रकाश		
			14	110 से 124 गोपी गेंदालाल से पंदमा मुकेश		
			15	125 से 144 रमेश बाबु से संपिका सुखलाल		
			16	145 से 147/ख रमेश उमराव से छोटू शंकर		

खण्ड गोगावों

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
				प्रवर्ग	संख्या		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1	कुण्डिया	1	1 से 13 कोयल मिठारा से मिठाराम बालु	अ.जा.	2		
		2	14 से 33 श्यामा मोतीराम से लवकुश लच्छीराम	अ.ज.जा.	8		
		3	34 से 62 मथुरालाल लच्छीराम से मुन्नसी बटु खॉ	अन्य पि. वर्ग	2		
		4	63 से 85 दिपक बंसन्तीलाल से राधेश्याम बीसन	अनारक्षित	4		
		5	86 से 120 श्यालु बाबुलाल से सलिता रूपाजी	महिला अ.जा.	1		
		6	121 से 139 जानकी शोभाराम से रमेश रामलाल	महिला अ.ज.जा.	4		
		7	144 से 166 छोगालाल गणपत से डोगर हस्विया	महिला पि. वर्ग	1		
		8	167 से 211 केशर मांगीलाल से भुरेलाल छितर	अनारक्षित महिला	2		
		ठिबगांव खुर्द		9	5 से 34 माया बाई लक्ष्मण से भगवान मोतीलाल		
				10	37 से 53 घ बद्रीलाल शोभाराम से दिनेश नारायण		
				11	54 से 80 छगन रामलाल से छब्बु चंदिया		
				12	81 से 102 तक रणछोड चंदिया से बाबु गणपत		
				13	103 से 126 कालु गणपत से हरचद बोखार		
				14	127 से 150 नथी कालु से गेंदालाल काशीराम		
				15	151 से 163 शिवराम शम्भु से बाबु गंगाराम		
				16	164 से 186 बुदि बाई हंसराज से मंगत बालीया		

खण्ड गोगावों

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	देवली	1	01 से 22 तक सुरेश रामसिंग से सेवक तुकाराम	अ.जा.	3
		2	23 से 45 भारत बाबुसिंग से हरिनारायण लक्ष्मी नारायण	अ.ज.जा.	9
		3	45/क से लक्ष्मी नारायण देवराम से 71 दिपक तुकाराम	अन्य पि. वर्ग	1
		4	72 से 111 रमेश तुकाराम से भगवान सिंह नवल सिंह	अनारक्षित	4
		5	112 से 138 जितेन्द्र भवरसिंह से विष्णु मोतीराम	महिला अ.जा.	2
		6	139 से 169 पंढरी मांगीलाल से अल्केश राजाराम	महिला अ.ज.जा.	5
		7	171 से 192/2 प्रेमलाल भिव्या से रूखमणी हुकुम	महिला पि. वर्ग	1
		8	193 से 222 सुमेरसिंग नत्थु से राजेन्द्र झबर	अनारक्षित महिला	2
		9	223 से 246 ननु दिरयाव से किशोर दौलत सिंह		
		10	247 से 281 नानी बाई ध्यानसिंग से दिनेश नकला		
		11	282 से 315 बाटी बाई स्माईल से शांतिलाल दशरथ		
		12	317 से 343 पंढरी मांगीलाल से सरदार निमडीया		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	देवली	13	345 से 366 रामसिंग चमटा से लिखारिया चाकरीया		
		14	367 से 190/1 धुनचुरी बाई मोंगला से मोहन शंकर		
	बनिहार	15	01 से 41 तक जायमति रामेश्वर से रिछा वाहरिया		
		16	42 से 404 ज्ञानसिंग वाहरिया से रूप सिंग मानसिंग		
		17	405 से 64 दुलसिंग नादला से दुर्गा गायत्री अशोक		

खण्ड गोगावों

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कोठा बुजुर्ग	1	1 से 29 तक दिलिप हजारीया से प्रकाश शोभाराम	अ.जा.	1
		2	30 से 55 सेंवन्ती बाई देवचंद से सुरेश नारायण	अ.ज.जा.	6
		3	57 से 83 नत्थु झापडू से हिरालाल फत्तु तक	अन्य पि. वर्ग	2
		4	85 से 113 नत्थु हिरालाल से गोविन्द गणपत	अनारक्षित	3
		5	114 से 133 गिरधारी मुकुन्द से राजेन्द्र चम्पालाल	महिला अ.जा.	1
		6	134 से 162 जशोदा रामलाल से मुकेश तोताराम	महिला अ.ज.जा.	3
		7	163 से 179 शांता दयाराम से राधेश्याम भुरालाल	महिला पि. वर्ग	1
		8	180 से 223 रेखा बाई मंशाराम से मुन्नालाल रजान	अनारक्षित महिला	2
		9	224 से 54 खेत्या हस्लया से रितेश लक्ष्मण		
		10	57 से 117 मजूला नत्थु से हरिओम जगदीश		
		11	118 से 177 राजेश कालु राम से भूरसिंग रूखडिया		
		12	179 से 246 जागती राधेश्याम से चूनानसिंग रामसिंग		

खण्ड गोगावों

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बिलखेड	1	1/8 से 29 भावना गजानंद से नरेन्द्र सदाशिव	अ.जा.	1
		2	30 से 47 रेवाराम मोहन से अंबिका यशवंत	अ.ज.जा.	7
		3	48 से 80 किशोर नारायण से चिन्ताराम शोभाराम	अन्य पि. वर्ग	2
		4	82 से 98 नथी गेंदालाल से रमेशचंद शंकरलाल	अनारक्षित	3
		5	99 से 144 सुरेशचंद्र बाबुलाल से छाया मुकेश तक	महिला अ.जा.	1
		6	115 से 132 गंगाराम बाउ से राहुल उधव	महिला अ.ज.जा.	4
		7	132/क से 150 गेंदाला बुद्धिया से चम्पालाल छित्तु	महिला पि. वर्ग	1
		8	151 से 168 लच्छी नरोत्तम से महेश रामलाल	अनारक्षित महिला	2
		9	169 से 187 औंकार छित्तु से यामिनी महेश		
		10	187/क 198 राहुल डेजिया से महेंद्र राजाराम		
		11	198/क 214 गौतम राजाराम से गोपी बोखार		
		12	215 से 235 बसु बिसन से रामसेवक शोभाराम		
		13	236 से 1365/क शम्भु जादम दीपक कालुराम		

खण्ड गोगावों

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बीड बुर्जुग	1	2 से 21 करण शिवराम से राहुल दुल्लिचंद	अ.जा.	3
		2	24 से 35 बद्रीलाल बालाराम से संजय मुलचंद	अ.ज.जा.	9
		3	36 से 51 नाना पुनमचंद से पार्वती प्रेमचंद	अन्य पि. वर्ग	2
		4	54 से 74 फततुलाल भगवान से राजु कालु राम	अनारक्षित	4
		5	76 से 94 नारायण बाबु से राजेश गेंदालाल	महिला अ.जा.	2
		6	95 से 111 रमु रधुनाथ से रेखा महेन्द्र	महिला अ.ज.जा.	5
		7	112 से 120 जशोदा नानाराम से आशिष तेजराम तक	महिला पि. वर्ग	1
		8	121 से 132 मिठाराम शोभाराम से प्रविण दिनेश तक	अनारक्षित महिला	2
		9	133 से 145 तारू बाइ घिस्या से राधा बाई अनिल		
		10	146 से 158 शिवराम नरसिंग से प्रकाश जगन		
		11	159 से 181 नारायण गन्या से सारिका कमलेश		
		12	182 से 202 गेंदा खुबा से दिपक संतोष		
बिजलगांव		13	1 से 19 महेश छोटेलाल से अखिलेश भगवान		
		14	20 से 34 प्रभु छोटीया से कोमल कमलेश		
		15	35 से 53 बलीराम मांगीलाल से रूखसाना जुलेखों		
		16	53/1 से 71 पारू बाई नत्थु से राखि दिपक		
		17	73 से 85 खातुन रसुल से हरिराम धन्नालाल		
		18	86 से 100 रम्भा झापडीया से जितेन्द्र श्यामलाल		

खण्ड गोगावों

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	शाहपुरा	1	5 से 45/1 श्यामलाल लक्ष्मण से हसीना बी	अ.जा.	2
		2	45/2 से 66 मो. उस्मानगनी से जाकीर हुसैन तक	अ.ज.जा.	10
		3	66 से 85 हलीमा रेहमान से इरफान ईस्माईल तक	अन्य पि. वर्ग	3
		4	87/112 अ. अजीज अ. करीम के मकान से चेतन शांतीलाल	अनारक्षित	5
		5	112 क से/ 129 हलीमा बी मो. हुसैन से रूखसाना गुलाम हुसैन	महिला अ.जा.	1
		6	129/1 से 151 आबीदा मो. अ.करीम से लतीफ सत्तार	महिला अ.ज.जा.	5
		7	152/161 वैरसिंग सौमारिया से शबाना इकराम	महिला पि. वर्ग	2
		8	161/1 से 189/1 फरिदा मुस्लिम से हिना सद्दाम	अनारक्षित महिला	2
		9	190 से 208 हासम याकुब से जफर युसुफ		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	शाहपुरा	10	208/1 से 226 फीरोज दिलावर से साईना रफिक		
		11	227 से 246 टंटु शाह टुकडु शाह से निकीता देविलाल		
		12	247 से 256/छ/2 ओमप्रकाश लक्ष्मण से आयशा इद्रीस		
		13	256/छ/3 से यासिन एहमद से युसुफ गनी तक		
		14	159/2 से 274 रूबीना सादिक से रबीया उस्मान गनी		
		15	274/क से 287/च मो. हासीम-यासीन से सलमा लियाकत		
		16	287/छ से 302 से करणसिंह राजाराम से जयंत कैलाश तक		
		17	303 से 337 शाहिद गुलजार से अनिता अशोक		
		18	337/1 से 365 सुखदेव गला से सुशिला पप्पु		
		19	366 से 367 कमला आन्नदी से अफसाना शेरू तक		
		20	367/1/क से 378/ड अकलीम हनिफ शाह से राबीया गुलाम हुसैन तक		

खण्ड गोगावों

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	मांगरूल खुर्द	1	1 से 8 अनारसिंह से उमेद सिंह	अ.जा.	2
		2	9 से 20 रामसिंह सोलकी से कल्लु रतन	अ.ज.जा.	6
		3	21 से 43 राकेश मनोहर से आशाराम	अन्य पि. वर्ग	0
		4	44 से 57 सावित्री बाई फकीरा से गिरधारी मयाराम	अनारक्षित	3
		5	58 से 73 राजकुवर मांगीलाल से दगडी फकीरा	महिला अ.जा.	1
		6	74 से 92 रणछोड से बलीराम	महिला अ.ज.जा.	3
		7	93 से 108 बागसिंग नेनसिंह से रमेश नवल	महिला पि. वर्ग	0
		8	109 से 264 अमरसिंह सबल से अनिल शंकर	अनारक्षित महिला	2
		9	265 से 284 भगवान मांगीलाल से धनसिंग सिताराम		
		10	285 से 297 दौलत सिताराम से देवली गबरू		
		11	298 से 307 तोताराम नत्थु से जगदीश सीताराम		

खण्ड गोगावों

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	घुघरियाखेडी	1	1 से 22 तक आन्नदराम राजाराम से कालु शिवराम	अ.जा.	0
		2	23 से 45 तक सुशीला बाई चम्पालाल रमाबाई संजय	अ.ज.जा.	9

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	घुघरियाखेडी	3	46 से 72 मंगत नन्दु से मनीषा दीपक	अन्य पि. वर्ग	4
		4	73 से 91 रामलाल गेंदालाल से संगीता प्रभु	अनारक्षित	4
		5	93 से 108 कडवी बाई लिम्बा रमाबाई बाबुलाल	महिला अ.जा.	0
		6	109 से 225 शिवराम दगडु से राहुल राजाराम	महिला अ.ज.जा.	5
		7	129 से 144 पुरषोत्तम रतन लाल से पवन सुरेश	महिला पि. वर्ग	2
		8	145 से 173 अशोक लिम्बा से संजय कडवा	अनारक्षित महिला	2
		9	176 से 202 जगदीश मोतीराम से सीमा सुनिल		
		10	202 से 220 बंसन्ती लक्ष्मण से दीपक राजाराम		
		11	221 से 239 बंसन्ती फुलसिंह से गम्पा जवानसिंग		
		12	241 से 259 गोकुल गंगाराम से लक्ष्मी भगवान		
		13	260 से 273 भीलु मंशाराम से शीला मोरसिंह		
		14	274 से 292 तारा कासम अन्नपुर्णा मालाकार		
		15	293 से 314 दुर्गाबाई निशांत विजय		
		16	316 से 334 कालु सिताराम से आशा राधेश्याम		
		17	335 से 341 बाबुलाल बिरबल से प्रभुराम कैलाश		

खण्ड गोगावों

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बैजापुर	1	1 से 12 तक गंगाराम पुनमचंद्र से अनिल शेरू तक	अ.जा.	1
		2	13 से 27 तक मोहब्बत बाबुसिंह से भावना मोतीराम तक	अ.ज.जा.	6
		3	28 से 37 तक दरियांव गोपाल से रिंकी रविन्द्र तक	अन्य पि. वर्ग	2
		4	38 से 50 तक भुवाने मांगीलाल से देवकी बाई अनवरियां तक	अनारक्षित	3
		5	51 से 109 तक रामलाल कलासि से सपना संतोष तक	महिला अ.जा.	1
		6	4 से 20 तक (मौसमपुरा) पिंकी विजय से सीमा दिनेश तक	महिला अ.ज.जा.	3
		7	22 से 35 तक (मौसमपुरा) जानकी छितु से राजेश मिठाराम तक	महिला पि. वर्ग	1
		8	36 से 58 तक (मौसमपुरा) कालु चुन्नालाल से पदमा बाई विनोद तक	अनारक्षित महिला	2
		9	11 से 15 तक (खारदा) बेचर घिसीलाल से प्रभाबाई जितेन्द्र तक		
		10	17 से 36 तक (खारदा) लक्ष्मण मांगीलाल से महेश नन्नु तक		
		11	37 से 64 तक (खारदा) फूलचंद्र धिराजी से पिंकी बाई देवेन्द्र तक		
		12	1 से 27 तक (सुतारखेडी) शेरू सखाराम से ललीत दिनेश तक		

खण्ड गोगावों

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	गोवाडी	1	1 से 10 तक घिस्या नंदुजी से सचिन मोहन तक	अ.जा.	2
		2	11 से 22 तक अंचोला बाई गोकुल से कुंती उमेश तक	अ.ज.जा.	6
		3	23 से 42 तक जगदिश टुटला से बसंती दीपक तक	अन्य पि. वर्ग	0
		4	83 से 56 तक सोनत कैलाश से कालु वल्लभ तक	अनारक्षित	3
		5	57 से 71 तक मोजीलाल झबर से कुसुम रघुराम तक	महिला अ.जा.	1
		6	72 से 83 तक रामकिशन दगडु से जीवन सुनिल तक	महिला अ.ज.जा.	3
		7	84 से 97 तक कला बाई नाना से राहुल बलीराम तक	महिला पि. वर्ग	0
		8	98 से 112क तक जडाव जगहन से राजेन्द्र पंढरी तक	अनारक्षित महिला	2
		9	113 से 127 तक रूकमा बाई गेंदालाल से सचिन दिनेश तक		
		10	128 से 142 तक छोगालाल नत्थु से सेवती कन्हैया तक		
		11	143 से 920 तक हिरालाल तिरमक से सपना आत्माराम तक		

खण्ड गोगावों

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	पेनपुर	1	14 से 38 तक गुडकिया चमारिया से दिलीप रणछोड तक	अ.जा.	0
		2	39 से 55घ तक भगवान भिव्या से राहुल रामनारायण तक	अ.ज.जा.	10
		3	58 से 75क तक लाडकी बाई मोतीलाल से अनिल राजाराम तक	अन्य पि. वर्ग	5
		4	76ख से 94क तक पंढरी रामलाल से पारस भागीरथ तक	अनारक्षित	4
		5	98 से 112 तक गोपी बाई किशन से ताराबाई लक्ष्मीनारायण तक	महिला अ.जा.	0
		6	113 से 132 तक सुंदरलाल कालु से सुनिल सुंदरलाल तक	महिला अ.ज.जा.	5
		7	133 से 146 तक बाड किशन से दिनेश रामलाल तक	महिला पि. वर्ग	3
		8	147 से 159 तक राधेश्याम कडवा से जोगीलाल दयाराम तक	अनारक्षित महिला	2
		9	160 से 175 तक प्यारी बाई मुरार से धमेंद्र वर्मा तक		
		10	176 से 190 तक बाबु चिनदिया से धमेंद्र धनसिंग तक		
		11	191 से 207 तक ओमप्रकाश लक्ष्मणसिंह से सेवतीबाई शैतानसिंह तक		
		12	208 से 222 तक झबरसिंह सौभागसिंह से कुलदीप करपालसिंह तक		
		13	225 से 238 तक नरेंद्रसिंह बापुसिंह से राजपाल मोतेसिंह तक		
		14	239 से 248 तक प्रहलादसिंह ध्यानसिंह से संजु जगदिश तक		
		15	249 से 266 तक द्वारकीबाई शंकर से रेखा चौहान तक		
		16	267 से 282 तक सुरेंद्रसिंह शंकरसिंह से उर्मिलाबाई विजेंद्रसिंह तक		
		17	283 से 296 तक श्रीपालसिंह कडवेसिंह से दुर्गाबाई सुनिल तक		
		18	297 से 311 तक नैनसिंह धनसिंह से झुमकीबाई शिवा तक		
		19	312 से 324ख तक सायला पहाडसिंह से संतोष भायला तक		

खण्ड गोगावाँ			सारणी		
अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	लिमवाडी	1	1 से 13/क दुधल्या रडवा से बिना वहारसिया	अ.जा.	0
		2	14 से 19 भवरसिंग देसला से लालबाई रामेश्वर	अ.ज.जा.	11
		3	24 से 38/क फुलसिंग रामा से अन्नपूर्णा गंगाराम	अन्य पि. वर्ग	0
		4	39 से 51 चन्दलीबाई भाचरिया से सोहन जयराम	अनारक्षित	0
		5	52 से 57 मसरीबाई केश्या से अर्जुन अब्दुल	महिला अ.जा.	0
		6	58 से 65 कुवरसिंग अनसिंग से रंजनाबाई रामचंद	महिला अ.ज.जा.	6
	गाडाघाट	7	1 से 14 भगवान नवल से तुलसीबाई छगन	महिला पि. वर्ग	0
		8	18 से 34/2 कैलाश घिस्या से ग्यारसी बाई रामलाल	अनारक्षित महिला	0
		9	35 से 50 बाला गोटीया से सचिन सोहन		
		10	53 से 64 जीवन गंगाराम से सारिका गुलाबसिंग		
		11	66 से 371 लालसिंग गारसिंग से रूखमणी गणपत		

खण्ड गोगावाँ			सारणी		
अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कुम्हारखेडा	1	1 से 19 घिसीबाई कैलाश से गिरजा धर्मेन्द्र	अ.जा.	3
		2	20 से 36 कल्याण ध्यानसिंग कृष्णा भंवर	अ.ज.जा.	9
		3	37 से 55 रामयी अर्जुन गुड्डीबाई गंजु	अन्य पि. वर्ग	2
		4	56 से 69 छगन रिछु से सुनिल कैलाश	अनारक्षित	4
		5	73 से 87 जमनाबाई करसन से अक्षय शेरसिंग	महिला अ.जा.	2
		6	88 से 101 रामयी औंकार से शिवराम लच्छीराम	महिला अ.ज.जा.	5
		7	102 से 116 राजाराम मांगीलाल से शुभम रोहित	महिला पि. वर्ग	1
		8	117 से 128 संज्जनसिंग रामलाल से लताबाई संतोष	अनारक्षित महिला	2
		9	129 से 136 दरियाव रामलाल से रूपाली राजेश		
		10	137 से 152 मंगत गंगाराम से गायत्री खुस्याल		
		11	155 से 168 मंशाराम बालु से सलमान राजु		
		12	171 से 190 खातुन कमरुद्दिन से सुल्तान मोमीन		
		13	191 से 203 हबिब जुम्मा से रिक्कु कमल		
		14	204 से 218 शिवराम भिका से जयदिप ठाकुर		
		15	219 से 227 मानसिंग नैनसिंग से नागेश राधेश्याम		
		16	228 से 242 जतन गुलाब सिंग से गणेश सिताराम		
		17	243 से 245 रामु लच्छीराम से नुरी अलकेश		
नागघट्टी	18	1 से 1091/ग देवलीबाई से सुमन रमेश			

खण्ड गोगावों

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	मेहरजा	1	2 से 24 पठानिया वेरसिंग से संतोषी संतोष	अ.जा.	3
		2	25 से 42 जोगिया छितु से प्रर्मिला भगवान	अ.ज.जा.	5
		3	43 से 57 ग्यारसीबाई से सोनु गजराजसिंह	अन्य पि. वर्ग	0
		4	58 से 80 नवलसिंग बांदर से अखिलेश भारत	अनारक्षित	2
		5	81 से 97 चन्द्रसिंग गुलाबसिंग से विद्या विजय	महिला अ.जा.	2
		6	98 से 110 जानकी अनारसिंह जानकी बलिराम	महिला अ.ज.जा.	3
		7	111 से 131 कैलाश मांगीलाल से सुनिल रामकरण	महिला पि. वर्ग	0
		8	132 से 150 कालु शोभ्या से अंजु सखाराम	अनारक्षित महिला	1
		9	151 से 165 शंकर नत्थु से शान्ति कमलेश		
		10	165/क से 89/क अन्त बलिराम कालुराम से तारा बाई गौलु		

खण्ड गोगावों

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	राजपुरा	1	1 से 16 सीतराम नत्थु से सचिन रमेश	अ.जा.	6
		2	16/ख से 38/क गडबड गेंदालाल से ज्योति गणेश	अ.ज.जा.	9
		3	39 से 81 कैलाश शंकर से सईद लियाकत	अन्य पि. वर्ग	0
		4	82 से 98/क युसुफ सुपु से श्याम नटवर	अनारक्षित	2
		5	99 से 125 शंकर धन्नालाल से रतना दिनेश	महिला अ.जा.	3
		6	127 से 154 मयाराम बालु में तेजस्वनी अंकेश	महिला अ.ज.जा.	5
		7	155 से 190 सुरेश रामेश्वर से वंदना कालु राम	महिला पि. वर्ग	0
		8	191 से 215 गजराबाई रघुनाथ से कमल रामचंद्र	अनारक्षित महिला	1
		9	216/2 से 241 मंगत कालु से निर्मला दयाराम		
		10	241/क से 265 कन्हैया लाला से रेखा सुखलाल		
		11	266 से 289/2 बोंदर जामसिंग से पिकी दिलीप		
		12	289/3 से 16 घ संतोष मोतीराम से सपना सतनाम		
		13	1 से 22 अनोखीलाल छगन से सपना मयाराम		
		14	23 से 41 जयकिशन गोकुल से रूपाली राजेन्द्र		
		15	43 से 55 मांगीलाल बाउ से अनिल देवराम		
		16	57 से 71 तुलसीराम मांगीलाल से कविता शिवराम		
		डाबरिया	17	1 से 120/क दामोदर कन्हैया से खुमसिंह रेमसिंह	

खण्ड गोगावों

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	पिपरखेडा	1	1 से 23 रूमलबाई मुकेश से सुनिताबाई संतोष	अ.जा.	0
		2	24 से 36 रामसिंह रूपसिंह से लाडकी लालसिंह	अ.ज.जा.	10
		3	36/क से 57 बाजलीबाई गनस्या से अमलेश गेलसिंग	अन्य पि. वर्ग	0
		4	58 से 79 गौराबाई नकला से संजय जामसिंग	अनारक्षित	1
		5	80 से 107/क ठाकुर गमला से मुनिया बालु	महिला अ.जा.	0
		6	107/ख से 128 माधवसिंह वेस्ता से गंगलिबाई इंटा	महिला अ.ज.जा.	5
		7	128 से 29/च विश्राम धुधरिया से रोशनी बल्लु	महिला पि. वर्ग	0
	शाबासपुरा	8	1 से 13 बालु कालु से संतोष मालसिंह	अनारक्षित महिला	1
		9	13 से 31 बबलु राधाकिशन से मसरी सकरिया		
	उदयपुरा	10	31 से 42 कैलाश हरेसिंग से आशाबाई गमला		
		11	1 से ए पंचानन दशरथ से वेस्ता मोहन		

खण्ड गोगावों

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	दयालपुरा	1	2 से 11/क जयंतीबाई से गेंदालाल से कृष्णा जगदीश	अ.जा.	3
		2	12 से 25 तुलसीबाई मोतीराम से अजय सखाराम	अ.ज.जा.	10
		3	26 से 44 मांगीलाल हिरा से सीता घंमडी	अन्य पि. वर्ग	2
		4	44/क से 63 शिवजी रामा से प्रविण मंशराम	अनारक्षित	5
		5	64 से 85 मिश्रीलाल पुन्या से राधा कैलाश	महिला अ.जा.	2
		6	87 से 104 निला फतु से सलमा मेहमुद	महिला अ.ज.जा.	5
		7	105 से 118 बाबु छितर से अरविन्द्र बलिराम	महिला पि. वर्ग	1
		8	119 से 140 जगदीश शंकर से सजुबाई मुकेश	अनारक्षित महिला	2
		9	141 से 157 केसरबाई कालु से रविन्द्र भागीरथ		
		10	158 से 182 कडवा हेमा से नारायण नत्थु		
		11	182/क से 233 कला मांगीलाल से गणेश बट्टी		
		12	234 से 261 कुन्तीबाई तुलाराम से हरिराम भवानीराम		
		13	262 से 283 दुर्गाराम भवानीराम से जागृति पुरषोत्तम		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	दयालपुरा	14	284 से 306 गेंदालाल मंगीलाल से पारू बाई मथुरालाल		
		15	307 से 328 सलीता गेंदालाल से मोनिका राजेश		
		16	329 से 349 हिरालाल नत्थु से रिंकी संतोष		
		17	350 से 372 पारूबाई तुकाराम से गोपोल पंडरी		
		18	372/क से 385 सुरेश देवचंद से सीमाबाई कमल		
		19	386 से 401 दिलिप बट्टी से राधा धर्मेन्द्र		
		20	401/क से 425 चम्पालाल मांगीलाल से धन्नालाल जगन		

खण्ड गोगावों

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बेहरापुर टेमा	1	3 से 26/ख धन्नालाल नत्थु से किरण संतोष	अ.जा.	5
		2	27 से 46/1 मोहन नत्थु से योगेश बलीराम	अ.ज.जा.	10
		3	47 से 76 लाडकी गंगाराम से बबलु बसंत	अन्य पि. वर्ग	0
		4	78 से 95 सीताराम नत्थु से रविन्द्र अर्जुन	अनारक्षित	5
		5	95/क से 112 पंडरी पुनमचंद से लक्ष्मी बाई कृष्णा	महिला अ.जा.	3
		6	113 से 135 रामकिशन नत्थु से सीमा दिनेश	महिला अ.ज.जा.	5
		7	136 से 160/ख कडवा शोभाराम से संगीता दिपक	महिला पि. वर्ग	0
		8	161 से 182 रामकृष्ण शंकर लाल से योगेश गम्भीरदास	अनारक्षित महिला	2
		9	184 से 202 देवराम चुन्नीलाल से सरबती अशोक		
		10	204 से 23 आशाराम बाउ से आरती तारचंद		
		11	23/1 से 226 हरचंद छज्जु से पवन मथुरालाल		
		12	226/क से 253 यशवंत राधेश्याम से अजय राजाराम		
		13	254 से 283 गणेश आशाराम से भारती अनिल		
		14	285 से 316 मंशाराम कल्याण से गजानन्द रामलाल		
		15	317 से 349 जगन्नाथनारायण से पुनमचंद हिरालाल		
		16	350 से 373 काली बाउ से देवका किशोर		
		17	379 से 476 नत्थु धिसिलाल से रविन्द्र ओमप्रकाश		
		18	406/ख से 432 शिवराम सीताराम से प्रविण विश्वनाथ		
		19	433 से 461 श्यामलाल गणपत से बसु श्यामलाल		
		20	462 से 15/क मुखतियार बालदार से सलिता बल्लु		

खण्ड गोगावों

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बड़गांव	1	1 से 30 मांगीबाई रामालाल से लक्ष्मी संतोष	अ.जा.	5
		2	31 से 69 मांगीलाल भीका से अन्नुबाई बरमु	अ.ज.जा.	10
		3	70 से 113 यशवंत राजाराम से अनिल सत्यनारायण	अन्य पि. वर्ग	0
		4	105 से 148/2 रमेश छगन से मनिषा हरिओम	अनारक्षित	5
		5	149 से 187/2 मोहन भिलिया से नितु राकेश	महिला अ.जा.	3
		6	190/1 से 438/क रामसिंग गंगाराम से नागेश्वर धुलिया	महिला अ.ज.जा.	5
		7	219/1 से 270 गबरू दयाराम से सुधा विरेन्द्र	महिला पि. वर्ग	0
		8	273 से 312 पंढरी चम्पालाल से ममता नामदेव	अनारक्षित महिला	2
		9	313 से 339 नत्थु शिवा से किर्ती महेन्द्र		
		10	340 से 358 किशोर नारायण से धमेन्द्र रामकरण		
		11	360/1 से 383 लक्ष्मण दास मंदीर से कमलेश फत्तु		
		12	103/5 से 396/2 कंचन कन्हैया से रोहित अनिल		
		13	397 से 422 राधेश्याम चम्पोलोल से तोताराम ईश्वर		
		14	423 से 460 मांगीबाई मांगीलाल से ज्योति शांतिलाल		
		15	460/3 से 477 हिरालाल पुन्या से किर्ती गणेश		
		16	477/3 से 512 फत्तु दगडु से शारदा अन्तिम		
		17	513 से 550/2 राधेश्याम लाल से सुमन नरसिंग		
		18	555 से 622/क कला मांगीलाल से कविता कडवा		
		19	622/ख से 660/2 अरूण ओमप्रकाश से सारिका जितेन्द्र		
		20	660/3 से 765 किशन गोन्या से दिपिका अश्विन		

खण्ड गोगावों

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कुकडोल	1	1 से 35 बसुबाई गुलाबसिंग से बबलु भारत	अ.जा.	3
		2	36 से 72 लक्ष्मीबाई कुवर जी से कमलाबाई मोहन	अ.ज.जा.	10
		3	73 से 103 कमलाबाई हिरालाल से वर्षाबाई कल्याण	अन्य पि. वर्ग	2
		4	106 से 130 नानुराम गंगाराम से रेखा मनोज	अनारक्षित	5
		5	132 से 161 कु. प्रिया भगवान से कविता धर्मेन्द्र	महिला अ.जा.	2
		6	162 से 185 सुशिलालबाई अमरसिंग से आरति राधेश्याम	महिला अ.ज.जा.	5
		7	186 से 219 कडवा सीताराम से श्याम नत्थु	महिला पि. वर्ग	1
		8	220 से 242 अजुद्धयाबाई उमराव से शर्मिला राजेश	अनारक्षित महिला	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	कुकडोल	9	243 से 268 किशोर नत्थु से दिपिका कैलाश		
		10	272 से 281 गौरी शंकर मोतीलाल से उमाकांती राजकुमार		
		11	282 से 298 नहारसिंग मोहन से कुमारी ज्योति नारायण		
		12	300 से 343 पारूबाई गंगाराम से सुनिताबाई प्रेमलाल		
		13	344 से 363 मोहब्बत मोतीराम से साईजाबाई ज्ञानसिंग		
		14	364 से 380 राधेश्याम तेजा से सुरेश मोहन		
		15	381 से 399 नत्थु गोविन्द से कृष्णा रामलाल		
		16	400 से 425 रामेश्वर कालुराम से कंचन रमेश		
		17	426 से 438 सुरेश अमरसिंह से सीमा सुखलाल		
		18	439 से 459 रफिक खॉ अमिर खॉ से जयपाल नारायण		
		19	460 से 478 युसुफ मसुर से राजेन्द्र गंगाराम		
		20	481 से 525 सुखलाल गणपत से रजनी राकेश		

खण्ड गोगावों

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	रेटवों	1	1 से 14 केकडिया भुरू से सयदीबाई दरबार	अ.जा.	0
		2	14/क से 30 दशरथ छितर से रमाबाई बीरू	अ.ज.जा.	12
		3	31 से 55 संतुबाई नत्थु से अनिल होल्कर	अन्य पि. वर्ग	0
		4	56 से 69 रामलाल रामसिंग से रेखा बाई शांतिलाल	अनारक्षित	0
		5	69/क से 86 सुरमीबाई भाईराम से ममता सुखलाल	महिला अ.जा.	0
		6	87 से 104 रामु अनसिंग से पिंकी गलसिंग	महिला अ.ज.जा.	6
		7	105 से 120 सोनाबाई जयराम से जगदीश मुनसिंग	महिला पि. वर्ग	0
		8	122 से 142 कमलाबाई दला से बिन्दाबाई बहादर	अनारक्षित महिला	0
		9	143 से 159 अनसिंग दला से संजनाबाई भावसिंग		
		10	161 से 175 कलीबाई सुरपाल से धनुबाई धुमसिंग		
		11	175/क से 196 सकरीबाई कालू से रूपालीबाई रामलाल		
		12	197 से 215 सुकलाल दवलसिंग से सुगरीबाई सुकलाल		

खण्ड गोगावों

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	मगरिया	1	1 से 19 राधेश्याम गंगाराम से भागवत नाना	अ.जा.	3
		2	20 से 41 रतन पोडिया से धर्मिस्टा देवी शोभाराम	अ.ज.जा.	10
		3	42 से 64 शिवकोर कालु से मंगती गंगाराम	अन्य पि. वर्ग	2
		4	65 से 87 रेवाराम गंगाराम से आशाबाई कैलाश वर्मा	अनारक्षित	5
		5	88 से 100 बिरोजबाई सिगदार से जागृति रमेश	महिला अ.जा.	2
		6	101 से 122/ख रामेश्वर गोपोल से सीमा मोंगीलाल	महिला अ.ज.जा.	5
		7	124 से 135 नवलसिंग छितर से उषाबाई नवीनत	महिला पि. वर्ग	1
		8	134 से 163 कडवा सडिया से मधु रविन्द्र	अनारक्षित महिला	2
		9	164 से 187 जगदीश छितर से मोतीराम नत्थु		
		10	188 से 209 सीताराम मुकुन्द से लक्ष्मी रूपेश		
		11	209/क से 244 सतीश पंढरी से गंगा राकेश		
		12	225 से 258 अमर बाबुलाल से संतोष गुलाब सिंग		
		13	259 से 216 मंशाराम से शंकर से ज्योति प्रविण		
खेडीखानपुरा		14	1 से 18/क जीवीबाई हिरालाल से ममताबाई दिनेश		
		15	19 से 35/क नानीबाई मागीलाल से रोहित सुरेश		
		16	36 से 58/क रेवाराम काशिराम से भुरीबाई छगन		
		17	60 से 85 नाना कन्हैया से ज्योतिबाई रामचंद्र		
		18	87 से 119 रतन गन्या से विनोद रमेश		
		19	121 से 141 कैलाश नत्थु से सुरज लोकेश		
		20	142 से 114 कैलाश फत्तु से गणेश तुकाराम		

खण्ड गोगावों

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	उमरखली	1	1 से 47/ख प्रभा जगदीश से रंजना महेश	अ.जा.	3
		2	48 से 81 गजरी भिल्या से साधना मधु	अ.ज.जा.	10
		3	82 से 130 सालकराम पुन्या से उमेश मोतीया	अन्य पि. वर्ग	2
		4	131 से 166 नन्नु गेंदालाल से निलाबाई सुखलाल	अनारक्षित	5
		5	167 से 205 सुखडिया भिलू से श्याम पंढरी	महिला अ.जा.	2
		6	207 से 250 भागलबाई मांगीलाल से पिंकी राजेश	महिला अ.ज.जा.	5
		7	251 से 282 हरि दुलिया से रूबिना युनुस	महिला पि. वर्ग	1
		8	284 से 294 जशोदा नारायण से पुजा चंदन	अनारक्षित महिला	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उमरखली	9	320 से 356/त रानु कमलेश से पुष्पाबाई सुरेश			
	10	370 से 382 शांताबाई औकार से दिपक संजय			
	11	383 से 425/ग रूखमणी पुनमचंद से यशवंत परमेश्वर			
	12	428 से 452 गोपीबाई गोविन्द से धर्मेन्द्र गुलाबचंद			
	13	453 से 497 ममताबाई भारत से गोपोल रूखडीया			
	14	498 से 522 प्रकाश दामा से विजय भारत			
	15	523 से 572 काजल अमित से मांगीबाई रakesh			
	16	574 से (534) 1 से 99 जयसिंग शंकर से दुर्गा जगदीश			
	17	635 से 677/ख सुकमा संतोष से सुभाष प्यारा			
	18	679 से 720 दिलिप ठाकुर से ममता दिनेश			
	19	721 से 764 कडवीबाई बाबु से मोतमबाई सुरेश			
	20	766 से (818) ए से 710 मंगल सिंग जोगडा से विशाल रमेश			

खण्ड गोगावाँ

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
(1)	(2)	(3)	(4)	प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
1	दशनावल	1	1 से 147 भोला रामेश्वर सुमेरिया भाईला	अ.जा.	0
		2	148 से 292 नानला गोटिया से शेरू सखाराम	अ.ज.जा.	10
		3	293 से 436 माणकचंद्र भागीरथ से पापिया राय	अन्य पि. वर्ग	5
		4	437 से 581 नानकराम भिलाजी से रेखाबाई	अनारक्षित	5
		5	582 से 728 केरिया गला से सविताबाई कैलाश	महिला अ.जा.	0
		6	729 से 866 पानीबाई मानसिंग से पुनीबाई श्रवण	महिला अ.ज.जा.	5
		7	867 से 990 गन्नु सबल से बबलु किशन	महिला पि. वर्ग	3
		8	191 से 1109 राधेश्याम शिवराम से लल्लु अर्जुन	अनारक्षित महिला	2
		9	1110 से 1255 नेकाबाई मुन्ना से जयराम मगन		
		10	1256 से 1367 दरबार बदिद्या से पिंकी विष्णु		
		11	1 से 156 प्रकाश मोतीराम से सागर तकु		
		12	157 से 313 अमरसिंग रूखडिया से ममता ज्ञानसिंग		
		13	314 से 469 मांगीलाल गुरुमुख से लक्ष्मण दाउ		
		14	470 से 627 सरीचंद्र भाग्या से छाया गोविन्द्र		
		15	628 से 784 छगन दशरथ से बनिया कवर सिंह		
		16	785 से 939 छतरसिंह सुरा से पुनिबाई लखन		
		17	940 से 1096 भोपा मांगलिया से सुमन बाबा		
		18	1097 से 1255 भागिरथ पुरा से नानी सीताराम		
		19	1256 से 1411 बायजाबाई कुलासिंग से चिदडीबाई मैलाश		
		20	1412 से 1563 अर्जुन रायसिंग से बायजा		

खण्ड गोगावाँ

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	गोगावाँ	1	3 से 67क तक कल्लोबाई हसन अली से रिचा शिवनारायण तक	अ.जा.	2
		2	69 से 121ख पुरुषोत्तम बालाराम से सायना मालीक तक	अ.ज.जा.	10
		3	121ग से 74/2 तक हसीना युसुफ से दिपक चंपालाल तक	अन्य पि. वर्ग	3
		4	0 से 292/1 तक मथुराबाई रमेश से युनुस मुसाजी	अनारक्षित	5
		5	293 से 352 तक हलीमा उस्मानगनी से मां. असगर अ. रसीद तक	महिला अ.जा.	1
		6	352/1 से 402 तक बानो बी रमजान से बलीराम बटलानाथ तक	महिला अ.ज.जा.	5
		7	403 से 318/1 तक शंकर नाथ जगन्नाथ से मो. कासम युनुस तक	महिला पि. वर्ग	2
		8	319 से 440 तक रामई भिलाजी से ममता मयाराम तक	अनारक्षित महिला	2
		9	441 से 503/1 तक फरीदा अकलीम से रूखसार बी असफाक तक		
		10	503/2 से 570 तक हुराबी सुलेमान से महेन्द्र सुनिल कुमार तक		
		11	571 से 636 तक अब्दुला युसुफजी से जयश्री दिनेश कुमार तक		
		12	638/1 से 710 तक चंद्रकांता छगनलाल से किरण राजेन्द्र तक		
		13	710अ से 775 तक समोतीबाई रामकरण से प्रहलाद राजेंद्र तक		
		14	776 से 837 तक मांगीलाल टुटला से टीना अजय तक		
		15	838 से 906/1 तक जगदिश शंकरलाल से गंगा मांगीलाल तक		
		16	909/1 से 960 तक भगवान गप्पु से रूपाली तोमर तक		
		17	961 से 996 तक राजकुंवर दगडु से गायत्री उदयसिंह चौहान		
		18	997 से 1074 तक हिरू डोंगरिया से नूर फातमा मो. जुनैद तक		
		19	1075 से 1121/2 तक अ. हमीद अ. रहीम से आशया कयुम तक		
		20	1121/3 से 1134 तक अनवरजी दाउद खत्री से आशिया सद्दाम हुसैन तक		

खण्ड गोगावाँ

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बलगाँव	1	1 से 21 तक मिश्रीया पूरणसिंह दीपिका दिनेश तक	अ.जा.	2
		2	22 से 34 तक मनाहर मांगीलाल से रेखा प्रताप तक	अ.ज.जा.	12
		3	35 से 56 तक ओंकार भगवान से सपना पुनमचंद्र तक	अन्य पि. वर्ग	0
		4	59 से 84 तक रामलाल बाल्या से सुनिता संतोष तक	अनारक्षित	3
		5	85 से 102 तक भावलिया शंकर से संगीता नवनीत तक	महिला अ.जा.	1
		6	103 से 199 तक शांतीलाल गजराजसिंह से संजय तक	महिला अ.ज.जा.	6
		7	1 से 12 तक/मोघन कविता पवन से सावन सुखलाल तक	महिला पि. वर्ग	0
		8	13 से 25 तक/ मोघन बुदी बाई रतन से जितेंद्र शंकर तक	अनारक्षित महिला	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	बलगांव	9	26 से 39 तक/ मोघन सुखलाल खेमा से सुषमा हमेरसिंह तक		
		10	39क से 52 तक/ मोघन सुरेश गमरसिंह से दशरी दितलाल तक		
		11	53 से 63 तक/ मोघन अमरीबाई ओकार से रेखा थावरिया तक		
		12	64 से 81 तक/ मोघन बालु जुवानसिंह से सलमा मेहताब तक		
		13	82 से 88 तक/ मोघन देवरिया केरिया से		
		14	1 से 15 तक/ आगरबाई भगाबाई लालसिंह से सेवा छतरसिंह तक		
		15	16 से 29 तक/ आगरबाई प्यारी टका से मिठाराम सकरिया तक		
		16	30 से 41 तक/ आगरबाई राधु गिदा से अजुबाई हरिश तक		
		17	41 से 84 तक/ आगरबाई गटल्या तेरसिंग से विसन गन्या तक		

खण्ड गोगावाँ

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ठिबगांव बु.	1	0 से 25 तक फिरोजा फिरोज से रेवाशंकर हिराचंद तक	अ.जा.	4
		2	26 से 70 तक बसंत शेरूलाल से किरण कमल तक	अ.ज.जा.	10
		3	70 से 331 तक अनिल चतरू से भारत पुनमचंद्र तक	अन्य पि. वर्ग	1
		4	334 से 346/2 तक टुटा गोविंद से नरेंद्र संतोष तक	अनारक्षित	5
		5	347 से 370 तक रेवा गणपत से लोकेन्द्र नानु तक	महिला अ.जा.	2
		6	371 से ए तक लक्ष्मण सखाराम से आरती कुशवाह तक	महिला अ.ज.जा.	5
		7	1क से 38 तक पूजा गजानंद से रजीया बी अमजद तक	महिला पि. वर्ग	1
		8	39 से 72 तक मुस्तकीम सिकंदर से श्वेता गौतम तक	अनारक्षित महिला	3
		9	74 से 105 तक विठ्ठल नारायण से सुलोचना छब्बु तक		
		10	106 से 125 तक डोंगर करसन से अजय हुकुम तक		
		11	126 से 149 तक गणपती गोकुल से रक्षा कैलाश तक		
		12	150 से 172 तक मांगीलाल घिसीलाल से नरेंद्र शिवजी तक		
		13	174 से 189 तक दशरथ गणपत से कृष्णकांत माणकचंद तक		
		14	190 से 205/3 तक बिलकिस करीम से अकांक्षा आनंदराम तक		
		15	206 से 223 तक यशवंत लक्ष्मण से प्रभाबाई सीताराम तक		
		16	225 से 250 तक रामई गबरू से शांतनु राजेश्वर तक		
		17	250/1 से 267/1 तक गेंदालाल छोगालाल से राजेन्द्र रामसिंग तक		
		18	267/2 से 298 तक कडवी प्रतासिंह से प्रवीण श्यामलाल तक		
		19	299 से 316 तक सीताराम ओंकार से सुमित तोताराम तक		
		20	317 से 329 तक रामसिंग डोंगरसिंह से जितेन्द्र राजाराम तक		

खण्ड गोगावों

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	हिरापुर	1	1 से 11 तक सोम्मरिया बेरसिंह से जितेंद्र रेवाराम तक	अ.जा.	0
		2	12 से 35 तक राजाराम मंगत से लुटीया जयसिंग तक	अ.ज.जा.	8
		3	37 से 55 तक नन्नु शिवजी से जितेंद्र पवन तक	अन्य पि. वर्ग	3
		4	56 से 74 तक गोपाल रतन से गिरिजा गजु तक	अनारक्षित	4
		5	75 से 84 तक धनसिंग राधवा से मालती तक	महिला अ.जा.	0
		6	84 से 99 तक भोलु फत्तु से राजपाल तक	महिला अ.ज.जा.	4
		7	100 से 120 तक जाली बाबु से सुनिल हबेसिंह तक	महिला पि. वर्ग	2
		8	124 से 186 तक ग्यारसी शिवराम से किरण बाई तक	अनारक्षित महिला	2
		9	1 से 92 तक (टेमरनी) सरदार लालसिंह से खेना कमल तक		
		10	1 से 15 तक (जोजनखेडी) भुरमल छुटान से साईना राकेश तक		
		11	15/1 से 27 तक गजा से संतोष तक		
		12	28 से 35 तक मुनसिंह नुरा से गुली तक		
		13	36 से 45 तक झुना नरसिंह से शिला सुमेर तक		
		14	46 से 54 तक रायसिंह राजा से काशीराम तक		
		15	55 से 75 तक फगरी डोंगरसिंग से झिनीराम ज्ञानसिंग तक		

खण्ड गोगावों

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	देवलगांव	1	2 से 25 तक धमेन्द्र ओमप्रकाश से कैलाश रामसिंग तक	अ.जा.	4
		2	26 से 50 लाडकीबाई शंकरलाल से दशरथ रामलाल तक	अ.ज.जा.	10
		3	51 से 72 गुलाब सिंग मांगीलाल से अमृत शंकर तक	अन्य पि. वर्ग	1
		4	73 से 107 गुलाब सिंग गंगाराम से कविता महेन्द्र तक	अनारक्षित	5
		5	108 से 131 मनोहर फत्तुसिंग से छाया मुकेश तक	महिला अ.जा.	2
		6	132 से 158 नयनसिंग उमरावसिंग से कलाबाई करण तक	महिला अ.ज.जा.	5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	देवल्गांव	7	159 से 192 सुमेर शोभाराम से जागृति शिवराम तक	महिला पि. वर्ग	1
		8	194 से 231/क शिवकरण सबलजी से सरदार गोपाल तक	अनारक्षित महिला	2
		9	235 से 261 दाना जी दुलाजी से सुमित अजय तक		
		10	262 से 303 जरदार गरीबा से सरिका सुनिल तक		
		11	304 से 326 नवसी नानक्या से सल्मा रफीक तक		
		12	327 से 356 कालु लतीफ से सचिन जगदीश तक		
		13	357 से 384 गीता किशोर से मनोज निल्या तक		
		14	385 से 409 कोशलया राजाराम से सपना जितेन्द्र तक		
		15	410 से 439 गुलाबबाई सिताराम से सेवन्ति लक्ष्मण तक		
		16	440 से 471/क सीताबाई लक्ष्मण से जयदीप महेन्द्र तक		
		17	473 से 501 तक नवलसिंग नत्थु से रानु विजय		
		18	502 से 529 भगवान गंगाराम से रजनी राजु तक		
		19	530 से 561 तुकाराम दयाराम से नरेन्द्र राम तक		
		20	562 से 422 तक बाबु चम्पालाल से माया जितेन्द्र तक		

खण्ड गोगावों

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग (5)	संख्या (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	महम्मदपुर	1	1 से 29 कृष्णराव जोशी से आन्नदराम वर्मा	अ.जा.	3
		2	30 से 58 बाबुलाल वर्मा से जहिर अब्बास	अ.ज.जा.	10
		3	59 से 89 नवाब से हकिम फत्ते खॉ	अन्य पि. वर्ग	2
		4	90 से 125/क अहम्मद अजीम से किरण धनसिंग	अनारक्षित	5
		5	127 से 152 गजेन्द्र से गोपाल	महिला अ.जा.	2
		6	154 से 185 नत्थु सिंग से बलरामसिंग	महिला अ.ज.जा.	5
		7	187 से 219 त्रिभुवसिंह से सुरज सिंह	महिला पि. वर्ग	1
		8	220 से 254/क भगवान से ईस्माईल	अनारक्षित महिला	2
		9	254/ख से 292 हबिब से भानु प्रताप		
		10	293 से 324/क मोतीलाल से दशरथ		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	महम्मदपुर	11	325 से 350 अब्बा से भंवर सिंह		
		12	351 से 385 शेरसिंह से छोटु		
		13	387 से 421 सल्लाउद्दीन से विनोद		
		14	424 से 470 दलशेर से सुखलाल		
		15	471 से 515/क मंगतु से रमेश		
		16	516 से 545 नाना जोग्या से शेख रसिद		
		17	546 से 564 अकली से तस्लिम		
		18	565 से 574/झ हकीम से जाकिर		
		19	574/ढ से 611/क सुरजमल से धर्मेन्द्र रामेश्वर		
		20	611/ख से अन्त सुल्तानपुरा बाबुलाल से मुकेश बाबुलाल		

खण्ड गोगावाँ

सारणी

अनु- क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नम्बर से मकान नं. तक	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	गोपालपुरा	1	1 से 13 बबलु ध्याना से इरफान रमजान	अ.जा.	2
		2	14 से 26 अल्लतार रहिम से विजय भगवान	अ.ज.जा.	6
		3	27 से 36 बिस्मिल्ला छोटे खाँ से सलमान जहुर	अन्य पि. वर्ग	1
		4	37 से 52 ईकबाल अब्दुल से रूखमणी रामचंद्र	अनारक्षित	3
		5	53 से 76 मोहन नरसिंह से ताहिरा जफर	महिला अ.जा.	1
		6	79 से 100 रमजान ऐहमद से सिमरन कोर राजेन्द्र सिंग	महिला अ.ज.जा.	3
		7	101 से 113 रामा टिकम से प्रविण परसराम	महिला पि. वर्ग	0
		8	114 से 119 गोपाल बालाजी से राहुल मांगीलाल	अनारक्षित महिला	2
		9	120 से 133/क मोहन दिपा से सीताराम लछया		
		10	134 से 145 अदलि रूपसिंह से मंगतिया गोविन्द		
		11	146 से 160 रामसिंग शोभाराम से रेखा बाबु		
		12	162 से 181 रूपाशंकर से प्रमोद सुखलाल तक एवं दानापुर 2 अमर किशोर से अंत तक		

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

खरगोन, दिनांक 8 मई 2014

ग्राम पंचायत
परिशिष्ट 5(अ)

क्र. 13367-पंचा. निर्वाचन-2014-15.—

मध्य प्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 12 के साथ पठित मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एतद् द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ-दो में अंकित ग्राम पंचायत को स्तम्भ तीन में वर्णित वार्ड क्रमांको में, जिनकी सीमा उनके सामने स्तम्भ चार में उल्लेखित अनुसार होगी, विभाजित करते हैं तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या स्तम्भ-5 में अंकित अनुसार अवधारित कर सर्वसंबंधितों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गावों के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
				प्रवर्ग	संख्या		
1	2	3	4	5	6		
1	भोइंदा	1	5 धनु अमरसिंह	से 42	करण किशोरसिंह	तक अ.जा.	2
2		2	42 आनंदबाई करणसिंह	से 71	रानु बाबु	तक अ.ज.जा.	5
3		3	73 जगदीश भगवान	से 100	अंतिम विक्रम	तक अन्य पिछड़ा वर्ग	5
4		4	101 दादू मांगीलाल	से 142	सावित्री मुकेश	तक अनारक्षित	8
5		5	143 मांगीलाल धिस्या	से 176क	किरण लखन	तक महिला अ.जा.	1
6		6	178 टंदुराम गोपाल	से 210	किर्ती लोकेन	तक महिला अ.ज.जा.	3
7		7	211 दादू सौदान	से 239	अंकित संतोष	तक महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
8		8	240 संशिला रमेशचंद्र	से 271	रुखसार अकबर	तक महिला अनारक्षित	4
9		9	272 दूले नब्बे	से 298ज	मालती बुट्टु	तक	
10		10	299 रमेश मला	से 329क	मनु चेतन	तक	
11		11	329ख लखन पुन्या	से 353क	दुर्गा बबलु	तक	
12		12	353 ख बालु बाउ	से 383क	पिंटु जगन	तक	
13		13	385 कन्हैया बाबु	से 406	विनोद शिवराम	तक	
14		14	407 कला तुकाराम	से 674	सायकोर धिरजसिंह	तक	
	कठोरा						
15	घाटबडिया	15	1 लक्ष्मी शिवराम	से 29	शोभाबाई कालु	तक	
16		16	30 महेश अर्जन	से 61	मेघा मोहन	तक	
17		17	63 केलाश दयाराम	से 86	धिरेन्द्र सुमेरसिंह	तक	
18		18	87 दौलत बिशन	से 106क	तारु थावरसिंह	तक	
19		19	107 धनसिंह हरेसिंह	से 138	कोमल मुकेश	तक	
20		20	139 बिरोज विश्राम	से 164	देवगिरी रामगीरी	तक	
	विरान						
	भाटबडिया						

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गावों के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
				प्रवर्ग	संख्या		
1	2	3	4	5	6		
1	घिचली	1	0 लक्ष्मी रतन	से 19/1	ममता बिजू	तक अ.जा.	2
2		2	20 कुसुमबाई धिसीलाल	से 35/2	भुवानीराम दुलीचंद	तक अ.ज.जा.	3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3		3	36 भूरीबाई सदु	से 53	सुजुता धर्मन्द्र तक अन्य पिछडा वर्ग 5
4		4	54 कालु रणछोड	से 71	प्रेमलता प्यारा तक अनारक्षित 9
5		5	72 उमराव मकुन्द	से 86	आशा सुकदेव तक महिला अ.जा. 1
6		6	87 कशरबाई हरि	से 98	सुनिता ओमप्रकाश तक महिला अ.ज.जा. 2
7		7	99 उंकार मांगीलाल	से 117	मोनिका जयसिंह तक महिला अन्य पिछडा वर्ग 3
8		8	118 बुदी तेजसिंह	से 128/1	चन्द्रपाल रामसिंह तक महिला अनारक्षित 4
9		9	129/1 रमेश धनसिंह	से 138	विजयश्री कुलददीपसिंह तक 1
10		10	139 शेरसिंह दरीयावसिंह	से 152	बुलबुल सागरसिंह तक 2
11		11	153 मानसिंह पोलसिंह	से 161/3	ममता जितेन्द्र तक 3
12		12	162 रेवाराम जगन्नाथ	से 168	भावना लक्ष्मणसिंह तक 4
13		13	177 मिठया घिस्या	से 200	राधेश्याम गुलाबराव तक 5
14		14	169 मनोहर भगवानसिंह	से 176	पुजा करणसिंह तक 6
15		15	299/1 राजाराम गनजी	से 239/1	सीमाबाई सुमेरसिंह तक 7
16		16	240 राजलबाई कालु	से 272/2	मिथुन अशोक तक 8
17		17	61 ममता नानुराम	से 257	मनिषा मोबत तक 9
18		18	258 देवेसिंह दयाराम	से 264/1	रविन्द्र बदामसिंह तक 10
19	(अदलपुरा)	19	7 गेन्दाबाई रणजित	से 15	अर्जुन भीलुसिंह तक 11
विरान	ज्ञानपुरा	विरान			
विरान	खेमापुरा	विरान			
विरान	कोठरा	विरान			

सारणी

सीमा गावं के मकान नं.

आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गावं के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4		5	6
1	खलबुजुर्ग	1	2 राकेश काशीराम	से 49ग	शेलेन प्रतापसिंह तक अ.जा.	2
2		2	49घ मनोहर एड्डु	से 81ज	निर्मला जितेन तक अ.ज.जा.	6
3		3	81ज1 शिवबहादर टिन्नीराम	से 114ख	पुष्कराज श्रीराम तक अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	116 बालकदास राघवजी	से 146ड1	संगीता गोवर्धन तक अनारक्षित	7
5		5	146च1 काशीनाथ दित्यानाथ	से 102	विजय चकधर तक महिला अ.जा.	1
6		6	109 प्रशात नरहरी	से 171/1	मंजु गबु तक महिला अ.ज.जा.	3
7		7	173/2 छगन रात्या	से 192ज	विमला जगदीश तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
8		8	193क भारत नत्थुसिंह	से 199ड	छाया लाखन तक महिला अनारक्षित	3
9		9	199च भारत तुलसीराम	से 207/9	गरिमा सुभाष तक 1	
10		10	207/10 शेरसिंह अनोपसिंह	से 239क	मली खेमा तक 2	
11		11	240 मुली आनंद	से 194ग	किरण जगदीश तक 3	
12	खलखुर्द	12	2 जसमतसिंह दौलतसिंह	से 70	संगीता लोकेन तक 4	
13		13	71 विजयसिंह गोदु	से 112/1	गिरजा सुमेर तक 5	
14		14	112/2 मंशाराम दौलत	से 143	केशर जगत्या तक 6	
15		15	144 बंशीलाल रूमाल	से 182/2	नवीन हरचंद तक 7	
16		16	182क अमर राजाराम	से 122	काली सुखलाल तक 8	
17	(पानवा)	17	3 मांगीलाल जिवा	से 32	करण रामा तक 9	
18		18	32 दिनेश रामा	से 64	रुखड़ी रामा तक 10	
19		19	64/1 जंगत्या रामा	से 105	रेखा अशोक तक 11	
20		20	106 नत्थु धन्नाजी	से 127	प्रमिला अजय तक 12	

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गावों के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण					
				प्रवर्ग	संख्या				
1	2	3	4	5	6				
1	बलगांव	1	6	किरण संतोष	से	15	झबर गिरधारी	तक अ.जा.	2
2		2	15/2	चैनसिंह माधव	से	29	मनिष जगदीश	तक अ.ज.जा.	2
3		3	32	कमला पांचीलाल	से	45	हेमन्त शंकरलाल	तक अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	49	धपी दयाराम	से	65	रातेन्द किशोर	तक अनारक्षित	11
5		5	66	रामू धन्नालाल	से	80	मनिषा ठाकुरलाल	तक महिला अ.जा.	1
6		6	82	सुशीला नागेश्वर	से	90	जितेन्द्र हरिराम	तक महिला अ.ज.जा.	1
7		7	92	मंगल साविर	से	106	किरण महेश	तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
8		8	107	मंगी राजाराम	से	122/2	कालु रसुलखां	तक महिला अनारक्षित	5
9		9	123/2	हुसैन रजाकखां	से	133अ	कुसुम गेन्दालाल	तक	
10		10	134	गीता मोहन	से	158अ	अनिता पुन्या	तक	
11		11	158/4	मोहन देवचंद	से	280	असलम काला	तक	
12	(ढालखेडा)	12	4	अंजली धर्मेन्द्र	से	18	काजूबाई बापूसिंह	तक	
13		13	19	सनूबाई कालूसिंह	से	30	लखन राधेश्याम	तक	
14		14	31	फूलबाई दरियावसिंह	से	46	योगेशसिंह गोपालसिंह	तक	
15		15	48	रणजित भोलूसिंह	से	68	रत्न भारतसिंह	तक	
16		16	69	देवीसिंह नाहरसिंह	से	121/1	हेमैन्दसिंह ईश्वरसिंह	तक	
17	(अकबरपुरा)	17	1	राजु नारायण	से	125/3	नागेश्वर मंगल	तक	
18		18	25/क	घनश्याम नन्दु	से	154अ	शोभाबाई विक्रम	तक	
19	(जालनपुरा)	19	7	गीताबाई बदाम	से	32	गोविन्द रमेश	तक	
20		20	33	बिरोजबाई मंगल्या	से	43क	रेमसिंग चमारिया	तक	

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गावों के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण					
				प्रवर्ग	संख्या				
1	2	3	4	5	6				
1	पथोरा	1	1	ताराबाई धन्नाला	से	27	महेश पन्नालाल	तक अ.जा.	2
2		2	28	मोतीलाल हिरालाल	से	49	सेफालीबाई महेश	तक अ.ज.जा.	3
3		3	50/1	रमेश तुलसीराम	से	89/1	रेखा दिलीप	तक अन्य पिछडा वर्ग	4
4		4	89/2	दिनेश बाबुलाल	से	92/1	अमित रामचंद	तक अनारक्षित	8
5		5	93	रामकोरबाई मगत्या	से	115/2	उषा महेन्द्र	तक महिला अ.जा.	1
6		6	115/3	कल्याण नत्थु	से	130/1	माधुरी रविन्द्र	तक महिला अ.ज.जा.	2
7		7	130/2	रेवाबाई मंशाराम	से	146	सत्सम सुरेश	तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
8		8	148	महादेव रामा	से	162	रेवा श्याम	तक महिला अनारक्षित	4
9		9	164	दिलीप रामेश्वर	से	181	लवकुश सिताराम	तक	
10		10	182	रमाबाई शिवराम	से	194	विजय चंदरसिंग	तक	
11		11	194अ	कैलाश जामसिंह	से	202/1	कंचनबाई दिलीप	तक	
12		12	202/ट	मनोज हबु	से	202/ड	धर्मेन्द्र पुनमचंद	तक	
13		13	204	रमेश जोगीलाल	से	225अ	उषा दशरथ	तक	
14		14	226	बालमुकुन्द रामा	से	239	जिवनबाई संजय	तक	
15		15	240	आनंदराम पुजन	से	263/2	संजय प्रभु	तक	
16		16	266	हरिराम प्रभु	से	285	चंदा दलु	तक	
17		17	286	कैलाश शंकर	से	310	विनिता कमलेश	तक	

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
				प्रवर्ग	संख्या		
1	2	3	4	5	6		
1	बालसमुद	1	39/1/1 भगवती अजय	से	427ख विश्राम भगडा	तक अ.जा.	2
2		2	429/2 सिगदार रामसिंग	से	509 वंदना प्रविण	तक अ.ज.जा.	3
3		3	513 सेवती जगन्नाथ	से	577/1 रजनी सचीन	तक अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	578 राजुबाई रामेश्वर	से	624 रामा बालु	तक अनारक्षित	10
5		5	3 बुदीया रडतीया	से	119 पंकज लुणकरण	तक महिला अ.जा.	1
6		6	121/5 कालु चंपालाल	से	224 सावन राधेश्याम	तक महिला अ.ज.जा.	2
7		7	225 कला रघुनाथ	से	291 मालती सचीन	तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
8		8	292 कुसुम विश्वनाथ	से	349 संजय कौलाश	तक महिला अनारक्षित	5
9		9	625 रामप्यारी मोदी	से	698 अलका गोपाल	तक	
10		10	699 गुलाबचंद नत्थु	से	749 ईरम रमीज	तक	
11		11	750 शौकत इब्राहिम	से	806 राशीदा शादिक	तक	
12		12	809 हाजरा रहीम	से	772/2 गुलनाज मोहनसीन	तक	
13		13	39ठ दिनेश सिताराम	से	905क कार्तिक कैलाश	तक	
14		14	906 मुन्नी रमेश	से	959 रविन तुलसीराम	तक	
15		15	961 कोयल थावरिया	से	1001ण लक्ष्मी सुखलाल	तक	
16		16	1001घ शिवराम कालु	से	979ग जितेन्द्र हिरदाराम	तक	
17		17	119/2 संदीप ताराचंद	से	1060क मुकेश जगदीश	तक	
18		18	1060ग कला बोदर	से	1118घ रामकुवर मोहनसिंग	तक	
19		19	1119 जुगु जाहिर	से	1169 राजल चंपालाल	तक	
20		20	1169क लिम्प्या बल्लु	से	10814क जकिया ईकबाल	तक	
—	मैजमपुर विरान	—					

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
				प्रवर्ग	संख्या		
1	2	3	4	5	6		
1	डोंगरगांव	1	2 अनार बंशीलाल	से	14 भावना माखन	तक अ.जा.	1
2		2	15 कैलाश भगवान	से	28 किरण पूर्णाशंकर	तक अ.ज.जा.	2
3		3	30 राधेश्याम भगवान	से	44अ मंजुला रणछोड	तक अन्य पिछडा वर्ग	3
4		4	46 गोपीचंद रणछोड	से	55 रूपेश गंगाराम	तक अनारक्षित	7
5		5	56 गंगाबाई तुकाराम	से	76 रीना जिमेन्द्र	तक महिला अ.जा.	1
6		6	77 सुमन दीनानाथ	से	89 सारिका गणेश	तक महिला अ.ज.जा.	1
7		7	90 रेखाबाई मंशाराम	से	109 अनिता राजेश	तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
8		8	110 समोति छोटया	से	350 परितना शिवराम	तक महिला अनारक्षित	3
9	बोथू	9	1 रणछोड एडिया	से	13 कन्हैया शंकर	तक	
10		10	13 दर्गाबाई कन्हैया	से	25 शुभम पूनमचंद	तक	
11		11	26 बुदिया बालु	से	39 अशोक मंशाराम	तक	
12		12	40 कालु पुनिया	से	50 सचिन सुरजसिंह	तक	
13		13	51 दयाबाई भगवान	से	40 अंगुरी कमलसिंह	अंततक	
विरान	रेहमतपुर	विरान					

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण				
				प्रवर्ग	संख्या			
1	2	3	4	5	6			
1	सायता	1	1	शेरू लक्ष्मण	से 8	संदिप नारायण	तक अ.जा.	6
2		2	9	मनोहरसिंह बाबु	से 18	सिता कुश्रंत	तक अ.ज.जा.	1
3		3	18क	छगनलाल राजाराम	से 30	अजय अंमाराम	तक अन्य पिछडा वर्ग	4
4		4	31	जडावबाई पूनम	से 46	गायत्री कमल	तक अनारक्षित	5
5		5	47	गणेश मंगत	से 65	महेश परमानंद	तक महिला अ.जा.	3
6		6	66	मंशाराम फत्तु	से 80	राधा संकाराम	तक महिला अ.ज.जा.	1
7		7	81	दुर्गा शेरू	से 105	सिमा धर्मेन	तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
8		8	106	द्रोपदा तुकाराम	से 116	अनु महेश	तक महिला अनारक्षित	2
9		9	117	दरियाव मयाराम	से 139/1	अनिता राव	तक	
10		10	140	अनुबाई फत्तु	से 152	आत्माराम भूरेलाल	तक	
11		11	153	जगन्नाथ दरियाव	से 166/1	राजशे सबल	तक	
12		12	167	पन्नालाल दयाराम	से 1क	अंकित शेरू	तक	
	नावडाटोडी(मुबार काबाद)							
13		13	1	राधेश्याम जयपाल	से 15	शंकर राकेश	तक	
14		14	16	नवल रामा	से 30	ज्योति कमलेश	तक	
15		15	30/1	देवराम बाबुलाल	से 44	ममता गबु	तक	
16		16	45	कालु दोलत	से 85/1	मांगी हुकुमचंद	अंततक	
-	(लखनगांव)	-	-					

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण				
				प्रवर्ग	संख्या			
1	2	3	4	5	6			
1	माकड़खेड़ा	1	0	महन्त पालयोगी गुरुअमासिं से	13	अनिता दशरथ	तक अ.जा.	7
2		2	14	हरी शंकर	से 34	इंदू रामदीदार	तक अ.ज.जा.	3
3		3	35	बाबुलाल दगडु	से 47	धीरज विष्णु पाटीदार	तक अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	48	ताराचंद धन्नालाल	से 62	शरद मुकेश पंवार	तक अनारक्षित	5
5		5	63	मांगीलाल पिठठल	से 73	शुभमसिंह राजेन्दसिंह	तक महिला अ.जा.	4
6		6	74	मधु झापुसिंह	से 85	हेमलता दुष्यन्त जोशी	तक महिला अ.ज.जा.	2
7		7	87	रालु वेस्ता	से 99/1	रानु भारत	तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
8		8	103	मनुभाई लक्ष्मण	से 118/1	सावित्रीबाई कालुराम	तक महिला अनारक्षित	2
9		9	119	इन्दरसिंह मोहनसिंह	से 136	रामचंद हरिराम	तक	
10		10	137	मोहन चंपालाल	से 153क1	विशाखा मनोहर रूईवाले	तक	
11		11	154	भालेराव देवाजी	से 166	गणेश रमेश	तक	
12		12	166/1	मोहन मांगीलाल	से 181	दीपक गोडिया	तक	
13		13	182	मांगीलाल पन्नालाल	से 200	भोला नहारु	तक	
14		14	201	फत्तु बावलया	से 200झ	सारिका हुकुम सांवनेर	तक	
15		15	209ण	मडु नानूराम	से 218	अनिता विजय	तक	
16		16	219	कौसरबाई चुन्नीलाल	से 241	संतोष फुलचन्द	तक	
17		17	242	झलु बाबु	से 259	सरसत कालु	तक	
18		18	260	मंशाराम जयराम	से 278	सीमा मुकेश	तक	
19		19	279	तोताराम हीरालाल	से 298	कमला केलाश	तक	
20		20	299	गीता राजाराम	से ए	वन्दना काशीराम	तक	

सारणी

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
			1	2	3	4	प्रवर्ग	संख्या	
1	मोगावा	1	1	प्रदीप राजनाथ	से	24	मीना विरेन्द्र	तक अ.जा.	3
2		2	25	नारायण बाबुलाल	से	44	किरण रोहित	तक अ.ज.जा.	0
3		3	45	कन्हैयालाल हंसराज	से	67	माया कालु	तक अन्य पिछडा वर्ग	3
4		4	68	मोतिराम निर्भयसिंग	से	84	सीमा अजयसिंह	तक अनारक्षित	6
5		5	87	लक्ष्मी विजयसिंह	से	115	रितेश हंसराज	तक महिला अ.जा.	2
6		6	116	तोताराम भील्या	से	139	रामलाल सखाराम	तक महिला अ.ज.जा.	0
7		7	140	लक्ष्मी नत्थु	से	154अ	अजय श्यामलाल	तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
8		8	154/ख	शेरू भूराजी	से	180	सुरभि देवेन्द्र	तक महिला अनारक्षित	3
9		9	183	कडवा चम्पालाल	से	222	कुसुमबाई चुन्नीलाल	तक	
10	ब्राम्हणगांव	10	2	पुनीबाई अमरसिंह	से	33	पिकीबाई विक्रमसिंह	तक	
11		11	35	भगवानसिंह मेहतापसिंह	से	59	कमलेश भगवान	तक	
12		12	60	प्रेमचंद नत्थु	से	82	अंतुबाई प्रतापसिंह	तक	

सारणी

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
			1	2	3	4	प्रवर्ग	संख्या	
1	दोगावा	1	1	देवेन्द्र कैलाश	से	12ख	विजयसिंह रतनसिंह	तक अ.जा.	3
2		2	14/क	जितेन्द्र शिवेसिंह	से	23	रूपाली भगवान	तक अ.ज.जा.	1
3		3	24	भुवानेसिंह नवलसिंह	से	36	अयोध्याबाई दरियावसिंह	तक अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	37धक	रमेशचंद मोतरीम	से	54/2	देवकीबाई अमरसिंह	तक अनारक्षित	11
5		5	57	देवकीबाई अमरसिंह	से	85	सुमन धन्नालाल	तक महिला अ.जा.	2
6		6	86	रामकिशन ताराचंद	से	102	मीना परमानंद	तक महिला अ.ज.जा.	1
7		7	102क	सपना लच्छीराम	से	120क	गोरा पण्डु	तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
8		8	120घ	लच्छीराम सिगदार	से	143	शितल आशीष	तक महिला अनारक्षित	5
9		9	144	रमेशचंद गेंदालाल	से	166	सपना सुनील	तक	
10		10	168	बलवन्तसिंह लक्ष्मण	से	189	विरेन्द्र तरुवर	तक	
11		11	191क	शोभाराम गणपत	से	207क	राधाबाई काशीराम	तक	
12		12	207/ख	कैलाश पंढरीनाथ	से	226	राहुल बबन	तक	
13		13	227क	दुर्गाबाई गुलाबसिंह	से	247	कृष्णाबाई राजेन्द्र	तक	
14		14	248	नेहरुसिंह कालुसिंह	से	268	माया सुनिल	तक	
15		15	269	सेवकराम रामलाल	से	276	नरसिंह बुदीया	तक	
16		16	277	कैलाश मांगीलाल	से	284	वासुदेव रेवाराम	तक	
17		17	286	गीताबाई जगन्नाथ	से	309	मीना सतीश	तक	
18		18	310	अकलीमखां हुसेनखां	से	334	आरती अजय	तक	
19		19	337	रतन आशाराम	से	341/8	सुनिल लक्ष्मण	तक	
20		20	341/9	रामलाल बाबूलाल	से	980	मधु शांतिलाल	तक	

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6	
1	बड़गांव	1	1	सोना सोभाराम से 19	माया संजय तक अ.जा.	5
2		2	20	गंगा नानूराम से 42	हारून मुंशी तक अ.ज.जा.	5
3		3	43	जानकी दगदीश से 63	सिमा सिताराम तक अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	64	कमला रमेशचंद्र से 76	सचिन नंनु तक अनारक्षित	5
5		5	77	धनु गंगाराम से 97	सोनू दिपक तक महिला अ.जा.	3
6		6	98	सिताराम सबल्या से 119	राहुल मंशाराम तक महिला अ.ज.जा.	3
7		7	120	पन्नालाल छटिया से 139	संगीता भगवान तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
8		8	140	किशन राजाराम से 163	उमिना मेहमूद तक महिला अनारक्षित	2
9		9	164	रमेश धन्नालाल से 189	धन्नालाल सिताराम तक	
10		10	191	मन्ना रामसिंग से 417क	ईशाक साबिर तक	
11		11	13	लिला सुंदर से 200	शारदा मुकेश तक	
12		12	200/1	नानूराम पांचीलाल से 228/1	सिमा छगन तक	
13		13	229	भगरी रूखडिया से 418	नसीम सौराब तक	
14	कठोरा	14	1	जगदीश आनंदराम से 9	संतोषी कमल तक	
15		15	10	मीठाराम मांगीलाल से 21	शांतीलाल उमेश तक	
16		16	22	लीला गेंदालाल से 36	अर्चना लक्ष्मीचंद तक	
17		17	37	बसंती कालु से 50	अन्नपूर्णा राधेश्याम तक	
18		18	51	ओमप्रकाश चंपालाल से 73	संगीता कालु तक	
19		19	74	मोतिराम रणछोड से 91	गुडडी राजेश तक	
20		20	92	सिताराम दयाराम से 118	कडवी जगदीश तक	

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
					प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6	
1	छोटी कसरावद	1	4	सुखदेव सिताराम से 29	रविन कालुसिंग तक अ.जा.	3
2		2	30	चैनसिंग गुलाब से 55	पुनी बाबुसिंग तक अ.ज.जा.	4
3		3	56	सुरेन धनसिंग से 79	विजय ओमप्रकाश तक अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	80	बाबुलाल सुखलाल से 106/1	पिंकी अनिल तक अनारक्षित	8
5		5	106/2	किशोरी मिश्रीलाल से 136	मुकेश सिताराम तक महिला अ.जा.	2
6		6	137	ओमप्रकाश मोजीलाल से 159/1	गुलदस्ता कमल तक महिला अ.ज.जा.	2
7		7	159/2	जानकी हिम्मत से 175	पुजा मोहनसिंग तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
8		8	176	अंतर माधव से 208	मरू जोगूसिंग तक महिला अनारक्षित	4
9		9	209	पर्वतसिंग घुसाई से 236	रेखा दुलेसिंग तक	
10		10	238	दुले बट्टी से 286	कमलेश गजराजसिंग तक	
11		11	266/1	अनार लक्ष्मण से 299	रुकसार रमजान तक	
12		12	300	सकावत आलम से 335/1	सुनिता कमल तक	
13		13	336	नंनु सोभाराम से 376	सिमा पन्नालाल तक	
14		14	179	सिमा श्रवण से 421	रंजना सुनिल तक	
15		15	422	कुनन भिलु से 440	भुपेन राधेश्याम तक	
16	(अहिल्यापुरा)	16	1	जगदीश राजाराम से 16	सोना प्रकाश तक	
17		17	18	सुभाष अंबाराम से 36क	बहादुर धनसिंग तक	
18		18	39	रुकमा आत्माराम से 63	सरोज संतोष तक	
19		19	64	रामलाल अर्जुन से 81क	निरू संजय तक	
20		20	81ख	बजरंग लालसिंग से 95	देवका दिलीप तक	
विरान	शाहबाद	विरान				

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण					
				प्रवर्ग	संख्या				
1	2	3	4	5	6				
1	भीलगांव	1	2	बाघसिंह गप्पुसिंह	से	29	अरुण गणेश	तक अ.जा.	3
2		2	31	श्रीराम हरि	से	47	राजेन्द्र भुवानीराम	तक अ.ज.जा.	7
3		3	48	रामेशवर हरि	से	75	सपना शंकरलाल	तक अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	76	राजनाथ शंकरलाल	से	97	राधा विजयसिंह	तक अनारक्षित	5
5		5	98	शांताबाई धनसिंह	से	118	कविता गोपालसिंह	तक महिला अ.जा.	2
6		6	119	सरदार चंदरसिंह	से	142	गणेश दगुलाल	तक महिला अ.ज.जा.	4
7		7	143	नत्थु नरसिंह	से	163	निशा राजेन्द्र	तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
8		8	164	मिश्रीलाल उंकार	से	185	आशा मुकेश	तक महिला अनारक्षित	2
9		9	186	नानुराम बंकट	से	345	माधुरी अनिल	तक	
10		10	346	सरसत गेंदालाल	से	376	रेशमा अर्जुन	तक	
11		11	377	मंगीबाई गुलाबसिंह	से	411	रेखा श्याम	तक	
12		12	412	भोला बदिया	से	208	मनोज अमीचंद	तक	
13		13	209	उर्वशी भीमसिंह	से	248	राजकुमार अमरसिंह	तक	
14		14	249	रमकुबाई गंगाराम	से	281	राजु भारत	तक	
15		15	282	लाडकीबाई गजरिया	से	303	नवल नानुराम	तक	
16		16	304	ताराचंद गुमजी	से	325	लीलाबाई सुरेश	तक	
17	अरिहंतनगर	17	1	कैलाश डोगरसिंह	से	36क	अतिम बाला हरिआंम	तक	
18		18	37	राधेश्याम जगन्नाथ	से	77/2	सुनिता नीरज	तक	
19		19	78	पंढरीनाथ मांगीलाल	से	102	दिपीका रूखडु	तक	
20		20	103	पुरुषोत्तम गौरीशकर	से	ग30	रमिला शिवराम		

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण					
				प्रवर्ग	संख्या				
1	2	3	4	5	6				
1	काटकुर	1	1	रामप्यारी आशाराम	से	25	सावन कृष्णकांत	तक अ.जा.	6
2		2	26	रेवाराम बेचर	से	51	लक्ष्मी खुमसिंग	तक अ.ज.जा.	2
3		3	53	भारत हरचंद	से	66	ललीत लक्ष्मण	तक अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	67	बाबुलाल गणपत	से	80	सीमा ओमप्रकाश	तक अनारक्षित	7
5		5	81	अननपूर्ण गजानंद	से	97	लखन उमराव	तक महिला अ.जा.	3
6		6	98	चंपालाल तोताराम	से	121	प्रियंका पाटीदार	तक महिला अ.ज.जा.	1
7	एककलघारिया	7	1	पुनी एडिया	से	31	अनिल विठठल	तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
8		8	32	पुनी शिवराम	से	57	सुलोचना संतोष	तक महिला अनारक्षित	3
9		9	58	तोताराम भिल्या	से	87	राजु छगन	तक	
10		10	92	किशोर दशरथ	से	117क	राहुल मुकेश	तक	
11		11	118	बसु दरियाव	से	157	बुदिया झापडिया	तक	
12		12	157	बुदिया झापडिया	से	187क	कालू भुरेसिंह	तक	
13		13	188	प्रभु सखाराम	से	207	माया लोकेश	तक	
14		14	208	मोतिराम देवचंद	से	289	कल्याण नहार	तक	
15	चिचलाय	15	1	नानी मौजा	से	23	मथुरा चंपालाल	तक	
16		16	25	द्वारका गेंदालाल	से	55	भारती भुवानीराम	तक	
17		17	56	डालु सिताराम	से	79	सुनिता हिरदाराम	तक	
18		18	81	भीक्या लक्ष्मण	से	99	महेन गिरधारी	तक	
19		19	100	किशन बाल्या	से	121	कुंती सचिन	तक	
20		20	122	शेरू कालु	से	146	कविता कालु	तक	

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गावों के मकान नं.				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4				5	6	
1	साटकुर	1	1	सजन नन्दु	से	26	राघु दामा	तक अ.जा.	3
2		2	27	कालु गिल्या	से	51क	भारती दिपक	तक अ.ज.जा.	0
3		3	53	सकरी बाबु	से	68	जयदीप शांतीलाल	तक अन्य पिछडा वर्ग	4
4		4	69	शांताबाई हुकुमचंद	से	93	लोकेश नारायण	तक अनारक्षित	7
5		5	95	पारुबाई परमानंद	से	110	दयाबाई जवरचंद	तक महिला अ.जा.	2
6		6	111	परमानंद देवचंद	से	127	कुश भगवान	तक महिला अ.ज.जा.	0
7		7	128	राधाबाई भगवान	से	137	वंदना महेन्द्र	तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
8		8	139	सरदार बालु	से	168	आशिष राजेन्द्र	तक महिला अनारक्षित	3
9		9	169	जुम्माखां अल्लाबली	से	189	गोविन्द्र मथुरालाल	तक	
10		10	191	शेरू अमराजी	से	235	रानु कैलाश	तक	
11		11	236	गंगाराम छगन	से	260	निशा अभिशेख	तक	
12		12	261	प्रतापसिंहि हट्टेसिंह	से	282	आरती लोकेश	तक	
13		13	283	किशोर नथुसिंह	से	308	हेमलता लोकेन्द्र	तक	
14		14	314	किशोर मोतेसिंह	से	338	सुनिता मांगीलाल	अंततक	
—	नाथ्यापुरा विरान	—	—						

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गावों के मकान नं.				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4				5	6	
1	बलखड़	1	1	माधुरी गोकुल पटेल	से	16/2	रुखसार मशीद	तक अ.जा.	1
2		2	17	रुकसाना सददाम	से	32	अशफाक सकीरखां	तक अ.ज.जा.	1
3		3	33	भुरूखां जुम्मा	से	56	नाजनीन सुनुसखा	तक अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	56/2	सतर युसुफ	से	772	जेहरुनिशा काला	तक अनारक्षित	13
5		5	78/2	रशीद जरदार	से	99	शबनम फरियार	तक महिला अ.जा.	1
6		6	100	इब्बहिम गुलाब	से	126	सुनीता श्याम	तक महिला अ.ज.जा.	1
7		7	128	द्वारकी मंगु	से	1582	सालम बलंदेवसिंह	तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
8		8	152/क	भगवान बलदेव	से	168	अफसाना मकसुद	तक महिला अनारक्षित	6
9		9	169	भागुबाई बेणीराम	से	198	अजयसिंह विजयसिंह	तक	
10		10	199	रेवाबाई सरदार	से	210	भारती मधु	तक	
11		11	211	जानकी दयाराम	से	245क	सुनीता राजेन्द्र	तक	
12		12	245ख	शिवजी शोभाराम	से	262ख	इजु हसीर	तक	
13		13	270	साईना अमानुददीन	से	299	सलमा मोहसीन	तक	
14		14	300	कमाल शमशेर	से	325/1	बारकीबाई कालु	तक	
15	महाराजखेड़ी	15	4	उंकार गोपाल	से	28	संगीता महेश	तक	
16		16	29	जगदीश बेचर	से	46	राहुल अशोक	तक	
17		17	47	रामकोर भगवान	से	69	वंदना दयाचंद	तक	
18		18	70/1	मांगी गोकुल	से	102	कैलाश दयाराम	तक	
19		19	102	चन्दु कैलाश	से	134	रुबीना मोहसीन	तक	
20		20	135	छोटे खां नुरखां	से	122/1	इब्बहिम याकुब	तक	
—	गोठान्या विरान	—	—						

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गावों के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
				प्रवर्ग	संख्या		
1	2	3	4	5	6		
1	निमरानी	1	1 अरुण श्यामराव	से 35/ख	उमा कडवा	तक अ.जा.	4
2		2	35/ग दशरथ मांगीलाल	से 60/2	अर्चना दिलीप	तक अ.ज.जा.	3
3		3	60/2/ख संतोष पढरीनाथ	से 88/क	सुनिता अर्जुन	तक अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	89 रामस्वरूप विरजीचंद	से 123	छाया राहुल	तक अनारक्षित	8
5		5	124 अमरसिंह मोहनसिंह	से 167/क	आशा आनंद	तक महिला अ.जा.	2
6		6	170 लक्ष्मीबाई कालु	से 206/2	पिंकी महादेव	तक महिला अ.ज.जा.	2
7		7	208 नसिम मुनफतरखां	से 233	कपिल आमप्रकाश	तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
8		8	234 संकुतना जगन्नाथ	से 256	मनीषा नयनसिंह	तक महिला अनारक्षित	4
9		9	256/1 नन्दकिशोर मेवालाल	से 26/ग	धर्मन्द्र देवराम	तक	
10		10	291 विमला राधेश्याम	से 328/1	सावित्री हरि	तक	
11		11	330 पंकज सुधांशु	से 352/ग	बेबीबाई आदिनाथ	तक	
12		12	352/घ सुनिता किशाना	से 393/1	गीताबाई कमल	तक	
13		13	393/2 बाबुखा अल्लाबेली	से 436	सायरा अयूब	तक	
14		14	437 शेखमोहम्मद दगडु	से 467/घ	रुकसाना अरमान	तक	
15		15	468 साबीर धिसेखां	से 505/क	अखिलेश कैलाश	तक	
16		16	510 अमरिया मला	से 542/4	दिपिका शिवकरण	तक	
17		17	543 नर्मदाबाई रतनसिंह	से 566	बनम असलम	तक	
18		18	577 लक्ष्मीबाई उंकार	से 615/क	तमना मुन्ना	तक	
19		19	615/ख सिध्दीका रमजान	से 645/9	सपना प्रदीप	तक	
20		20	645/10 अनिल गिरधर	से 603ड	यास्मिन	अंततक	

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गावों के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
				प्रवर्ग	संख्या		
1	2	3	4	5	6		
1	मगरखेड़ी	1	1 कालुराम बिहारीलाल	से 39क	संगीता सुभाष	तक अ.जा.	3
2		2	40ख रेवा उमा	से 55क	रानु भारत	तक अ.ज.जा.	3
3		3	56 राजाराम उंकार	से 69क	नर्मदा नानुराम	तक अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	74 धनु हरचंद	से 100	बरखामुकेश	तक अनारक्षित	9
5		5	101 सेवंती दयाराम	से 121	गौतम वेणीराम	तक महिला अ.जा.	2
6		6	123 गणपत नारायण	से 142	निशा बाबुलाल	तक महिला अ.ज.जा.	2
7		7	143 झापडी नरसिंग	से 163	दिनेश हिरालाल	तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
8		8	164 नराण बरनाथ	से 180	बबिता राधेश्याम	तक महिला अनारक्षित	4
9		9	181 सकुंतला धनसिंग	से 194/6	राधा संतोष	तक	
10		10	194/7 दिलीप संजय	से 202	अनिता सुनिल	तक	
11		11	208 देवचंद रामलाल	से 218/3	संगीता रामनाथ	तक	
12		12	218/4 रमाकांत श्रीराम	से 219ख	कमलेश बाईसुरेश	तक	
13		13	219ग शोभाराम नवलसिंग	से 223	रिंकी जगदीश	तक	
14		14	223/1 संतराम खोलवार	से 251	हिना रमेश	तक	
15		15	251क भारत धिसीलाल	से 1184क	रमेश बाबुलालराव	अंततक	
16	पीपलझोपा	16	1 महादेव गेंदालाल	से 24	कुसुम नानुराम	तक	
17		17	29 भुल्या नानंक्या	से 51	माधरी रामेश्वर	तक	
18		18	52 सौदानसिंग नाना	से 66	संगीता शिवलाल	तक	
19		19	67 जानकी संकट	से 75	काशीराम देवराम	तक	
20		20	75क रमेश दशरथ	से 96	पुरुषोत्तम सिताराम		
विरान	मोहाड़िया	विरान					

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4				5	6	
1	सत्राटी	1	1	संतोष कालु	से	26	सानु भगवान	तक अ.जा.	4
2		2	27	पेमा बाउ	से	47	गौतम भारतसिंह	तक अ.ज.जा.	4
3		3	48	राजाराम माधव	से	61	रीना देवेशिंह	तक अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	62	चंपालाल धिसालाल	से	84	सावित्री बबन	तक अनारक्षित	7
5		5	84	गुलाबबाई मुरार	से	99	मनोज सेरेशचंद	तक महिला अ.जा.	2
6		6	100	नरेन्द्र शिवराम	से	121	प्रियका लालुराम	तक महिला अ.ज.जा.	2
7		7	122	द्वारका कालु	से	141	नानुराम जगदीश	तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
8		8	141	गजु मल्या	से	170	संतोषी देवेन्द्र	तक महिला अनारक्षित	3
9		9	171	सेरेश मांगीलाल	से	5	अरविन्द्र सिंहासन	तक	
10		10	5/180	विजयप्रताप जमुनाप्रसाद	से	सी/13	कमलेश ब्रजमोहन	तक	
11		11	सी 13	रजनीश आर.पी. महाजन	से	सी 36	अर्चना संजय	तक	
12		12	एएफ 37	ओमप्रकाश बाला	से	वा 2	शिवकुमार दीनानाथ	तक	
13		13	वा 2	योगेन्द्रनाथ विश्वनाथ	से	वा 3	जयप्रकाश रामसुरत	तक	
14		14	वा 3	बृजेश शंकरदयाल	से	वा 1	नुतन यादव	तक	
15		15	वा 2	ज्ञानेश्वर नागराज	से	वा 415	हेमराज माधोलाल	तक	
16	नगावा	16	1	प्यारसिंह हरिसिंह	से	17	सुशीला सजनसिंह	तक	
17		17	18	किशन पुन्या	से	32	सुखलाल भीमसिंह	तक	
18		18	33	लिलाबाई कमल	से	224	लाडकीबाई सरदार	तक	
19		19	226	अशोक बल्लु	से	242	रीना भागीरथ	तक	
20		20	243	छोगालाल कालु	से	240 /1	उमाबाई बाबुलाल	तक	

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4				5	6	
1	जरोली	1	1	दयाराम शंकर	से	17	पुनी लक्ष्मण	तक अ.जा.	4
2		2	18	रमेश गुलाब	से	34	भावना भारत	तक अ.ज.जा.	8
3		3	36	नानूराम सुखलाल	से	52	रमेश रामसिंह	तक अन्य पिछडा वर्ग	0
4		4	52क	जामसिंह नाना	से	69क	माधुरी पवन	तक अनारक्षित	3
5		5	70	राजाराम नाना	से	82	दिपक शिवदास	तक महिला अ.जा.	2
6		6	83	शिवजी कमलाराम	से	101	अनिता चंदर	तक महिला अ.ज.जा.	4
7		7	102	त्रिलोक शोभाराम	से	120	राहुल हिरालाल	तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	0
8		8	121	जयराम बोंदर	से	134	चिमन उंकार	तक महिला अनारक्षित	2
9		9	135	पहाडसिंग रामा	से	147	रानी रमेशचंद्र	तक	
10		10	148	मंगती बंकट	से	173	शेलेन्द्र तुलसीराम	तक	
11		11	173क	मंगी अंबाराम	से	212	मनोज कैलाश	तक	
12		12	213	राजेश मिश्रीलाल	से	162	सलिता मडया	तक	
13		13	163	दिनेश मडया	से	194	सुमन मुन्नालाल	तक	
14		14	195	गोविंद एडिया	से	212	ममता दिनेश	तक	
15		15	213	शोभाबाई ध्यानसिंह	से	236	शेरु श्रवण	अंततक	

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
			3	4	से	16क	प्रवर्ग	संख्या	
1	मकुन्दपुरा	1	1	पुरणसिंग नारायण	से	16क	शेलेन कैलाश	तक अ.जा.	1
2		2	17	प्रभाकर रामेश्वर	से	46	अर्चना हरिसिंह	तक अ.ज.जा.	1
3		3	47	हंसराज केवल	से	76	सोनू रिकू	तक अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4	लेण्डीपुरा	4	77	तोताबाई मांगीलाल	से	141/29	इशाद युसुफ	तक अनारक्षित	5
5		5	141ख	गुलाब इस्माईल	से	178	संगीता अनार	तक महिला अ.जा.	1
6		6	178ख	श्यामलाल शोभाराम	से	13घ	जितेन छगन	तक महिला अ.ज.जा.	1
7		7	13ज	छगनलाल बेचर	से	115	आनंद गोपाल	तक महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	1
8		8	118	राकेश मानसिंह	से	163	किर्ती रमेश	तक महिला अनारक्षित	2
9		9	166	लक्ष्मीनारायण अनंतराम	से	414ख	मदिना गुलाब		
10	ओरंगपुरा	10	1	कन्हैया प्रेमचंद	से	16/1	हेमराज प्रकाश		

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
			3	4	से	12	प्रवर्ग	संख्या	
1	खड़कवानी	1	1	सलिम इशुक	से	12	शयदा सफी	तक अ.जा.	1
2		2	13	अरमान गुलातार	से	32	अरविंद गोकुल	तक अ.ज.जा.	2
3		3	33	कालु अकबर	से	50	भुरी रंजु	तक अन्य पिछड़ा वर्ग	5
4		4	51	जाकिर जाफर	से	76	नदीना मुंशी	तक अनारक्षित	12
5		5	77	मांगी शंकर	से	94	जैबा प्रिया	तक महिला अ.जा.	1
6		6	95	मामुर मजहर	से	110	राजु सामिर	तक महिला अ.ज.जा.	1
7		7	112	कौशलया गजानंद	से	121/1	ललीता जगन्नाथ	तक महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
8		8	112	जलु सदामत	से	135	गुलसुफा अलताफू	तक महिला अनारक्षित	6
9		9	136	साकी मेहबूब	से	204	सपना हिरालाल	तक	
10		10	205	गजानंद मांगीलाल	से	227	सिराज मुमताज	तक	
11		11	228	भुरी इशुक	से	261	वसीम युनुस	तक	
12		12	262	रुकमणी गिरधारी	से	297	जुम्मर रमजानी	तक	
13		13	298	छोटु सत्तार	से	319घ	सकु हुकुम	तक	
14		14	2/2	शाहरुख इकबाल	से	147	बदरू ईशुक	तक	
15		15	150	समिरा हमिदखां	से	164	भुरी सुकुल	तक	
16		16	165	कैलाश विश्राम	से	181	निर्मल रमेश	तक	
17		17	183	बोंदर रणछोड	से	205	किरण जितेन	तक	
18		18	206	शिवकन्या अनारसिंग	से	232	नजराना इकबाल	तक	
19		19	233	रुकमान सददाम	से	285	रिहाना मोहिन	तक	
20		20	287	मोहन आनिया	से	963	अशफाक वाहिद	तक	
विरान	बिलखेड़	विरान							
विरान	खडकेल	विरान							

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गावों के मकान नं.				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4				5	6	
1	अहीरधामनोद	1	2	हिरालाल बोदर	से	19	कविता अनिल	तक अ.जा.	1
2		2	20	मरू गंगाराम	से	32	रजनी कमल	तक अ.ज.जा.	0
3		3	33	शेरू कालु	से	48	दिपीका संजय	तक अन्य पिछडा वर्ग	4
4		4	49	लाडकी देवराम	से	61	दिनेश जयराम	तक अनारक्षित	10
5		5	62	धन्या गंगाराम	से	84	भावना संतोष	तक महिला अ.जा.	1
6		6	85	लक्ष्मण कन्हैया	से	100	महेश तारामचंद	तक महिला अ.ज.जा.	0
7		7	101	नरसिंह बिहारी	से	129	गंगाराम शोभाराम	तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
8		8	130	जियालाल गंगाराम	से	144	मिनाक्षी गोपीलाल	तक महिला अनारक्षित	5
9		9	145	तोताराम रामा	से	162	मिनाक्षी धर्मेन्द्र	तक	
10		10	164	केशर नरसिंह	से	177	बबिता राजेन्द्र	तक	
11		11	178	रुखमणी दगडू	से	185	पवन गोकुल	तक	
12		12	186	लक्ष्मी लक्ष्मण	से	204/1	लक्ष्मी सुरेश	तक	
13		13	204/2	कालु मंशाराम	से	226	गेंदालाल शंकर	तक	
14		14	227	बाबु देवचंद	से	245	निर्मला रणछोड	तक	
15		15	246	सागर रणछोड	से	ए	कली अलावे	तक	

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गावों के मकान नं.				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4				5	6	
1	नायदड़	1	1	धुंदरीबाई वेरसिंग	से	4	बुदा ईडु	तक अ.जा.	0
2		2	5	सागर वेरसिंग	से	10	शांता भीलु	तक अ.ज.जा.	20
3		3	11	प्रेमसिंग गोटिया	से	18	लिलु अंतरसिंग	तक अन्य पिछडा वर्ग	0
4		4	18क	शोभाराम लालु	से	34	दिलीप हिरालाल	तक अनारक्षित	0
5		5	37	जगन भुरा	से	54	रेखा ज्ञानसिंग	तक महिला अ.जा.	0
6		6	55	बहादुर बाथु	से	74	बारकी मेहकाल	तक महिला अ.ज.जा.	10
7		7	75	झाबाबाई मदन	से	87	प्रमिला रमेश	तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	0
8		8	88	गोबरिया भुरला	से	102	सावली रूपसिंग	तक महिला अनारक्षित	0
9		9	103	ध्यानसिंह दशरथ	से	129	सलीता राजेश	तक	
10		10	1	भारत रिछू	से	15	शारदा देवसिंग	तक	
11		11	16	सुरेश किशन	से	135	मेहताब लालसिंग	तक	
12		12	135/1	रामसिंह सिगदार	से	150	मुकेश रमेसिंग	तक	
13		13	151	बनसिंग पुंजा	से	174	बुदी दला	तक	
14		14	175	सेकडिया कुकडिया	से	196	रिना जालम	तक	
15		15	197	कुवरबाई मोटला	से	218	बबलु छगन	तक	
16		16	219	पुन्या नुरा	से	235	कमला केकडिया	तक	
17		17	236	काशिराम सिगदार	से	252	दिलीप रमेश	तक	
18		18	253	गजरीबाई दलसिंग	से	270	नरसिंह मेहकाल	अंततक	
19	मेहतपुरा	19	271	नथीबाई छगन	से	280	रेखा निहालसिंह	तक	
20		20	281	आपसिंग बाथु	से	297	झिगंलीबाई भावसिंग	अंततक	

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
				प्रवर्ग	संख्या		
1	2	3	4	5	6		
1	रेगवा	1	1/2 बाबु मंगत	से 32/1	अनु गिरधारी	तक अ.जा.	1
2		2	33 भगवान रामलाल	से 71	धर्मन्द्र हुकुमचंद	तक अ.ज.जा.	0
3		3	73 जयामती गोकुल	से 111/1/2	कमला दरियाव	तक अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	111बी1 सचिन गजानंद	से 156	गंभीर भागीरथ	तक अनारक्षित	14
5		5	156/1 कमलसिंह नत्थुसिंह	से 183	बबलु कडवा	तक महिला अ.जा.	1
6		6	184 शोभाराम मंशाराम	से 207	रीना विनोद	तक महिला अ.ज.जा.	0
7		7	208 रामरतन मकुन्द	से 237	सुनिता रामकरण	तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
8		8	238 कन्हैया कालु	से 271	सोनु महादेव	तक महिला अनारक्षित	7
9		9	273 पारु भोलु	से 301	संतोष भीलू	तक	
10		10	302 सिताराम बाबुलाल	से 335	सुरेश दिनेश	तक	
11		11	336 घिसीबाई मंगत	से 360	मंजुला संतोष	तक	
12		12	361 सरसत दयाराम	से 382	सिमा गणेश	तक	
13		13	383 तुलसी रघुनाथ	से 409	दिपक बलीराम	तक	
14		14	410 तोताराम गंगाराम	से 434	बबलु महेश	तक	
15		15	435 मदन गणपत	से 477	कौशल रघुवीर	तक	
16	सोनखेंडी	16	2 श्रीराम भीलु	से 43	जितेन्द्र रेवाराम	तक	
17		17	45 रेवाराम नंदराम	से 70	महादेव दुलीचंद	तक	
18		18	71 ऐडु भुक्कण	से 94	सोहन नवलसिंह	तक	
19		19	95 राधेश्याम नंदराम	से 129/1	इंदर दशरथ	तक	
20		20	132 मांगीलाल हिरालाल	से 167	बीना दशरथ	तक	
विरान	बहादरपुरा	विरान					

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
				प्रवर्ग	संख्या		
1	2	3	4	5	6		
1	रूपखेड़ा	1	2 मयाराम माधव	से 26	रिना जितेन्द्र	तक अ.जा.	1
2		2	27 रणछोड गोविन्द	से 43	रुखमणी जयराम	तक अ.ज.जा.	3
3		3	45 नरेन्द्र कालुराम	से 69	ईश्वर आनंदराम	तक अन्य पिछडा वर्ग	4
4		4	69क शोभाराम कृवरजी	से 83	माधुरी सतीष	तक अनारक्षित	9
5		5	84 मांगीलाल घुसाई	से 101	लवकुश अभिचंद	तक महिला अ.जा.	1
6		6	102 सडु गोविंद	से 113क	बिना महेश	तक महिला अ.ज.जा.	2
7		7	113ग उंकार नत्थु	से 132	सावित्री मांगीलाल	तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
8		8	113 राधेश्याम भावसिंह	से 154	दुर्गा विश्राम	तक महिला अनारक्षित	4
9		9	155 जाति दयाराम	से 172	हेमंत महिमाराम	तक	
10		10	173 सखाराम शंकर	से 189	गजेन्द्र कैलाश	तक	
11		11	190 कनवर उंकार	से 210	सुकमा हिरालाल	तक	
12	काछीपुरा	12	1 रजनी राजेश	से 24	लालु भोलु	तक	
13		13	25 मोहन शम्भु	से 38क	लवकुश आशाराम	तक	
14		14	38ख सुकलाल तोताराम	से 53	संगीता मनोहर	तक	
15		15	54 चिदर गोपाल	से 72	हरिराम कैलाश	तक	
16		16	72/2 देवेन कडवा	से 91	शिला कनु	तक	
17		17	92 कडवा दगडिया	से 109	सुकमा सुरेश	तक	

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4				5	6	
1	सलीमपुरा	1	4	सचिन कडवा	से	30	धर्मन्द्र रमेश	तक अ.जा.	6
2		2	31	शांता सुका	से	50	हरिराम कडवा	तक अ.ज.जा.	0
3		3	51	लक्ष्मी राजाराम	से	78	प्रविण तुकाराम	तक अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	80	रमती फत्तु	से	110	माया सुखदेव	तक अनारक्षित	9
5		5	111	कैलाश परसराम	से	131	शांतीलाल ताराचंद	तक महिला अ.जा.	3
6		6	134	बसु रामकरण	से	149	रवि धन्नालाल	तक महिला अ.ज.जा.	0
7		7	151	हिरालाल मोहन	से	164	कविता ठाकुर	तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
8		8	166	संतोष नत्थु	से	177	कोमल गणेश	तक महिला अनारक्षित	4
9		9	178	जमना धन्नालाल	से	186	शितल पटेल	तक	
10		10	187	जाति तुकाराम	से	193	यशवंत शेरसिंह	तक	
11		11	194	शिवकोर लक्ष्मण	से	209	शोभा अशोक	तक	
12		12	210	हरि गंगाराम	से	237	पुनमचंद महादेव	तक	
13	पागाखेड़ी	13	1	नारायण सिताराम	से	16	लक्ष्मी हिम्मत	तक	
14		14	17	कमला तोताराम	से	35	बंसती अंतर	तक	
15		15	36	गोविंद फत्तु	से	53	भावना सचिन	तक	
16		16	54	बाबुलाल शोभाराम	से	68	मालती प्रकाश	तक	
17		17	69	सखाराम दला	से	88	ममता भुपेन्द्र	तक	
18		18	89	सीताराम द्वारक्या	से	101	विरेन्द्र नत्थु	तक	
19		19	102	नत्थु सिगदार	से	113	आशा टालुराम	तक	
20		20	114	छगन मंगत	से	264	मनिषा मयाराम	तक	

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4				5	6	
1	गवला	1	1	फुलचंद मांगीलाल	से	14/1	दयाराम भागीरथ	तक अ.जा.	3
2		2	14/2	राजाराम दयारामू	से	31	संगीता हंमन्त	तक अ.ज.जा.	0
3		3	32	सुकई चंपालाल	से	47/3	मंजु तुलसीराम	तक अन्य पिछडा वर्ग	4
4		4	48	शंकर भावला	से	60	ज्योति राधेश्याम	तक अनारक्षित	8
5		5	61	आम्बाराम अर्जुन	से	75	ममता आम्बाराम	तक महिला अ.जा.	2
6		6	76	रामसिंह निहाला	से	89/3	भावना मुकेश	तक महिला अ.ज.जा.	0
7		7	89/4	शिवराम छोगालाल	से	105	प्रियका दिपक	तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
8		8	106	शंकर मोदी	से	118	रेखा कालु	तक महिला अनारक्षित	4
9	साडली	9	1	मंशाराम नरसिंह	से	14/1	राकेश काशीराम	तक	
10		10	14/2	बालु सिताराम	से	29/2	गायत्री संतोष	तक	
11		11	30	ठाकुर सिताराम	से	51	अनिता शिवजी	तक	
12		12	52	गुलाब श्रवण	से	65	साधना रामकरण	तक	
13		13	66	फुन्दा धनिया	से	76/क	ललीता मोहन	तक	
14		14	76/ख	धनसिंह धुमा	से	88	शिला दयानंद	तक	
15		15	89	केशर लक्ष्मण	से	100/ग	मंगती मनोहर	तक	
विरान	आवल्या	विरान							

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
				प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4	5	6	
1	बामंदी	1	1	हरीराम सखाराम से 32	सेवती कैलाश तक अ.जा.	2
2		2	34/4	मोतिराम शोभाराम से 54६1	राधा खुश्याल तक अ.ज.जा.	1
3		3	54 /2	सखाराम शोभाराम से 80६1	सपना आत्माराम तक अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	80 /2	सिताराम रामलाल से 97	रोहित जगदीश तक अनारक्षित	12
5		5	98	शोभाराम सखाराम से 116	माया महेश तक महिला अ.जा.	1
6		6	117	बुलचंद घिसीया से 133	सुमित राजाराम तक महिला अ.ज.जा.	1
7		7	134	विमलचंद पन्नालाल से 158/क	दुर्गाबाई मिश्रीलाल तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
8		8	160	प्रताप नत्थु से 186 /2	पिंकी संतोष तक महिला अनारक्षित	6
9		9	189	तारुबाई भगवान से 210	राहुल नंदराम तक	
10		10	210/ 1	काशीराम गोकुल से 230	शांति घनश्याम तक	
11		11	231	रेवाराम भोलु से 245	रंचना संतोष तक	
12		12	245६1	कमल हिरालाल से 275	मीना जगदीश तक	
13		13	276	गंगाराम भगवान से 307	निरज रामचंद तक	
14		14	307६1	रामचंद शिवराम से 335	सुनिता संतोष तक	
15		15	336	धुमा गोकुल से 360	नाजिया मुकदर तक	
16		16	361६2	भागीरथ तुकारात से 385	नसरीन असुफाक तक	
17		17	387	काली कडवा से 418 /1	मीना दिनेश तक	
18		18	418 /2	खेमलाल बाबुलाल से 454 /3	सलीता किशोर तक	
19		19	455	कडवी शोभाराम से 479	अशोक कालुराम तक	
20		20	479 /1	रविशंकर धनजी से 510इ	रानी वसीम तक	

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
				प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4	5	6	
1	जलखों	1	1	शेरू गोकुल से 14क	जयन्तीबाई सेवकराम तक अ.जा.	1
2		2	14/ग	भीमा मयाराम से 30	वर्षा धर्मेन्द्र तक अ.ज.जा.	9
3		3	32	शिवराम मंशाराम से 54	नरेन्द्र दादुराम तक अन्य पिछडा वर्ग	0
4		4	56	मंगीलाल गणपत से 67	संगीता धर्मेन्द्र तक अनारक्षित	8
5		5	68	शिवराम गणपत से 86	सीमा शांतिलाल तक महिला अ.जा.	1
6		6	91	उंकार विश्राम से 116	राधा मुन्नालाल तक महिला अ.ज.जा.	4
7		7	118	सखाराम फत्तु से 126	राजकुमारी संतोष तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	0
8		8	126क	उर्मिला राजेन्द्र से 144	उर्मिला अशोक तक महिला अनारक्षित	4
9		9	144क	ज्योति नाहरू से 152	मनिषा तिलाकचंद तक	
10		10	153	जातिबाई शोभाराम से 169	सुनिताबाई लोभीराम तक	
11		11	170	गंगाबाई तुकाराम से 1185	कलाबाई शिवराम तक	
12	तितरान्या	12	1	द्वारकी भुवान से 16	लाली मंगन तक	
13		13	17	सदु बुचर से 32	संगीता पहाडसिंह तक	
14		14	33	साबरबाई कन्हैया से 51	सीता रमेश तक	
15		15	52	नन्दु रामसिंह से 71	संतोष बाबु तक	
16		16	73	सहाबबाई नत्थु से 91	मलकी मेहकाल तक	
17		17	92	मेहकाल सोकल्या से 105	नरसिंग रूखडिया तक	
18	बिलवा	18	1	न्याहलसिंह नानसिंह से 15ख	ममता रणजित तक	
-	व थुवाखेड़ी	-	-			

सारणी

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	कार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित कार्डों की संख्या का विवरण			
				प्रवर्ग	संख्या		
1	2	3	4	5	6		
1	डोलानी	1	1 तुलसीराम शंकर	से	11 लखन संतोष	तक अ.जा.	0
2		2	12 चतुर धन्नालाल	से	24 लक्ष्मी आशाराम	तक अ.ज.जा.	14
3		3	26 बाबुलाल बाला	से	44 फुंदा रायसिंग	तक अन्य पिछडा वर्ग	0
4		4	45 चमार हारला	से	62 पानु प्रकाश	तक अनारक्षित	2
5		5	63 कुंदनी बदिया	से	75 सुरमा प्रहलाद	तक महिला अ.जा.	0
6		6	76 झापडिया हेमरिया	से	88 सुरली मुकेश	तक महिला अ.ज.जा.	7
7		7	89 बोदरिया जामसिंग	से	95/1 गेंदालाल रूखडिया	तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	0
8		8	95/2 जयराम केरिया	से	108 फलकी बिसन	तक महिला अनारक्षित	1
9		9	109 बोदरी सोमला	से	118 सारिका केकड़ा	तक	
10		10	118/1 बिसन केकडिया	से	130 मडी नवलसिंग	तक	
11	जहांगीरपुरा	11	102 सायक मगन	से	15 द्वारकी राकेश	तक	
12		12	16 भगडा केकू	से	25 चंपालाल किशन	तक	
13		13	26 जगदीश भूरिया	से	42 पिंकी भुवान	तक	
14		14	43 रघुनाथ जामसिंग	से	54 नानुराम जमरे	तक	
15		15	55 सरदार वेरांग	से	66 सुनिल सुदरलाल	तक	
16		16	67 बदिया भिका	से	78 दिनेश छतरसिंग	तक	

सारणी

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	कार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित कार्डों की संख्या का विवरण			
				प्रवर्ग	संख्या		
1	2	3	4	5	6		
1	भैसावद	1	1 गजानंद टंटिया	से	14 सिमा भुरला	तक अ.जा.	1
2		2	15 मय श्रवण	से	25 कालुराम सोदान	तक अ.ज.जा.	14
3		3	26 चिंदर घिस्या	से	34 सरिदा शिदर	तक अन्य पिछडा वर्ग	0
4		4	36 भगवान घुसाई	से	47 मगन गुलाब	तक अनारक्षित	5
5		5	47/1 चुन्नीलाल हिरालाल	से	60 रेशम जलाल	तक महिला अ.जा.	1
6		6	61 नकली सुभान	से	76 नथली हिरालाल	तक महिला अ.ज.जा.	7
7		7	77 गुलाब नाथु	से	92 संतोषी रमेश	तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	0
8		8	93 कलसिंग मंगल्या	से	113 गणेश चैनसिंग	तक महिला अनारक्षित	2
9		9	114 मालसिंग जयराम	से	123 जयराम किशन	तक	
10		10	124 हरसिंग सेकडिया	से	138 रेखा रमेश	तक	
11		11	139 गोरलाल सुरभान	से	26 नंदू प्रेमलाल	तक	
12	दखनीपुरा	12	1 सुनिता बुदा	से	12 मंजु रमेश	तक	
13		13	13 गुलाबसिंग नथु	से	26 सुमन फुलसिंग	तक	
14		14	27 बिना केरिया	से	36 मुकेश काशीराम	तक	
15		15	37 भिकला झेतु	से	47 सुरेश रामसिंग	तक	
16		16	48 नानसिंग दलसिंग	से	63 दुर्गा नुरा	तक	
17	हिरापुर	17	1 मांगीलाल कलयाण	से	13 गुडडालाल मधु	तक	
18		18	14क फत्तु वेस्ता	से	30 लिला नवल	तक	
19		19	31 भावसिंग अनसिंग	से	43 मनोज सिताराम	तक	
20		20	44 काशीराम गणपत	से	58 ऐजला नरसिंग	तक	

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	कार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित कार्डों की संख्या का विवरण				
				प्रवर्ग	संख्या			
1	2	3	4	5	6			
1	मलतार	1	1	हुकुम गोविंद	से 19/1	पूनम सुनिल	तक अ.जा.	2
2		2	19/2	जगदीश सिताराम	से 31	विष्णु रमेश	तक अ.ज.जा.	10
3		3	32	सिताराम गणपत	से 43/2	बालकृष्ण तिलोकचंद	तक अन्य पिछडा वर्ग	0
4		4	44	गेंदालाल गंगाराम	से 71	वेणुका दिनेश	तक अनारक्षित	7
5		5	72	पंढरी हरिकिशन	से 81/2	उमेश बदरीलाल	तक महिला अ.जा.	1
6		6	82/1	अनार अर्जुन	से 98	राहुल सिताराम	तक महिला अ.ज.जा.	5
7		7	98	फत्तु दौला	से 109	दिपीका विरेन	तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	0
8		8	110/1	मोहन गणपत	से 125	गोरलाल लच्छीराम	तक महिला अनारक्षित	4
9		9	126	राजाराम करसन	से 145	सपना दगडू	तक	
10		10	148/1	सेवकराम घिसा	से 170	अजय लक्ष्मीनारायण	तक	
11		11	171	हेमंत जगन्नाथ	से 198	सिमा अमरसिंग	तक	
12		12	192	शेरू रामा	से 205	सुका भिकु	तक	
13	हतौला	13	1	धनय काशीराम	से 27	मिणा माणक	तक	
14		14	30/1	सेतुल छगन	से 52	कमला रूखडू	तक	
15		15	54	सुधा मांगीलाल	से 70	रूपाली महेन	तक	
16		16	71	कमला दौलत	से 97	राधा प्रताप	तक	
17		17	98	सावित्री फत्तु	से 118	कला हिरालाल	तक	
18		18	120	मोहन ऐरांग	से 148	सुनिल छगन	तक	
19		19	149	नानाकाला	से 147	चंपा सुखराम	तक	

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	कार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित कार्डों की संख्या का विवरण				
				प्रवर्ग	संख्या			
1	2	3	4	5	6			
1	बेगन्दी	1	2	राधा संतोष	से 20	धर्मेन उंकार	तक अ.जा.	1
2		2	21	काशीराम नत्थु	से 37	खुश्याल आनंदराम	तक अ.ज.जा.	11
3		3	38/1	पंढरी राजाराम	से 51	रेखा राकेश	तक अन्य पिछडा वर्ग	0
4		4	52	सुशिला हागरू	से 75/1	ललिता विजय	तक अनारक्षित	5
5		5	75/2	शिवराम किशन	से 90/2	सलिता देवराम	तक महिला अ.जा.	1
6		6	91/1	ज्ञानसिंग बोंदर	से 98	मंगला ध्यानसिंग	तक महिला अ.ज.जा.	6
7		7	99	बिच्छु ऐरांग	से 107/2	नजमा इम्तियाज	तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	0
8		8	108/1	शमशेर नजिया	से 117/1	साजिदा इस्राईल	तक महिला अनारक्षित	2
9		9	117/2	मुस्तफा नजीर	से 129	रमिला भिमसिंग	तक	
10		10	130	कुवरबाई लटिया	से 142	रेशमा अनारसिंग	तक	
11		11	144	कालु नानसिंग	से 159/1	हिरू प्रकाश	तक	
12		12	159/2	मेथली केरिया	से 181	पारू ध्यानसिंग	तक	
13		13	1	रमेश नहारसिंग	से 15	मंजु कैलाश	तक	
14		14	16	रूमाल रिछु	से 30	लाडकी वालसिंग	तक	
15		15	31	गंजी पुनिया	से 75/1	विजय मिश्रीलाल	तक	
16	बेगन्दा	16	78/1	महेश सदाशिव	से 123	सेलकी कुवारसिंग	तक	
17		17	124	सुनिल चमारिया	से 281	गुलसेर घिसा	तक	

सारणी

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गावों के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण				
				प्रवर्ग	संख्या			
1	2	3	4	5	6			
1	डाबरी	1	2	केशव झबरया	से 21	अखिलेश पुनमचंद	तक अ.जा.	1
2		2	22	राजाराम बाउ	से 40	सुभाष शंकर	तक अ.ज.जा.	12
3		3	41	प्रम नंदया	से 60	आशाराम बद्रीलाल	तक अन्य पिछडा वर्ग	0
4		4	61	सकरया गल्लु	से 77	मायार अनिल	तक अनारक्षित	2
5		5	88	दिलीप दशरथ	से 93	राकेश चंपालाल	तक महिला अ.जा.	1
6		6	94	मरू सिताराम	से 113	लाडकी राधेश्याम	तक महिला अ.ज.जा.	6
7		7	114	झापडी खुश्याल	से 127	राहुल शंकर	तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	0
8		8	128	दगडु मोत्या	से 140	माया जितेन्द्र	तक महिला अनारक्षित	1
9		9	145	मोहनलाल उमराव	से 151	राधा घनश्याम	तक	
10		10	152	बीना बुदन	से 163	वन्दना रमेश	तक	
11		11	164	कावेरी काल्या	से 176	रेशमा ग्यारसीलाल	तक	
12		12	178	मांगीलाल जसु	से 194	लाली सुखलाल	तक	
13		13	196	चन्दली मंगत्या	से 207	गोमती थवरीया	तक	
14		14	208	हाबडा फाटला	से 216	दशरी दरबार	तक	
15		15	216	रायकु दरबार	से 347	इसरत जाकीर	तक	

सारणी

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गावों के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण				
				प्रवर्ग	संख्या			
1	2	3	4	5	6			
1	साईखेड़ा	1	1	सिकदार भावसिंह	से 16	शेरू भुरला डावर	तक अ.जा.	0
2		2	17	फत्तु सेकडिया	से 34	मंजु नहारसिंह	तक अ.ज.जा.	14
3		3	35	जामसिंह गणस्या	से 57	रेखा अमरसिंह	तक अन्य पिछडा वर्ग	0
4		4	58	हरिया बदिया	से 72	तारू मुकेश	तक अनारक्षित	1
5		5	75	नानसिंह अमरसिंह	से 88	निर्मला गेन्दालाल	तक महिला अ.जा.	0
6		6	89	झबरसिंह निहाला	से 101	सुखराम जेमल्या	तक महिला अ.ज.जा.	7
7		7	102	भंगडीबाई जुवानसिंह	से 112	बीना दिनेश	तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	0
8		8	113	नवसीबाई अमरसिंह	से 128	संगीता रमेश	तक महिला अनारक्षित	1
9		9	130	हरपाल झापडीया	से 145	रामसिंह अमरसिंह	तक	
10		10	147	ध्यानसिंह कालु	से 169	शारदा कैलाश	तक	
11		11	170	सुमलीबाई गणस्या	से 193	अमरसिंह भुवानसिंह	तक	
12		12	193	कालीबाई ध्यानसिंह	से 207	सुनीता जितेन्द्र	तक	
13		13	208	रेवलीबाई कुल्या	से 227	रमकुबाई रायसिंह	तक	
14		14	228	झोतरीया नरसिंह	से 240	सघतुल अमरसिंह	तक	
15		15	241	बनस्या पहाडसिंह	से 253	गवरीबाई लालु	तक	

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण					
				प्रवर्ग	संख्या				
1	2	3	4	5	6				
1	रसवा	1	1	वेराग झोतरिया	से	22	राकेश रामा	तक अ.जा.	0
2		2	22/1	रन्गली रामा	से	33	सलसिंह ग्यारसा	तक अ.ज.जा.	19
3		3	33 / 1	अमरसिंह ग्यारसा	से	46 / 1	उमा शिवराम	तक अन्य पिछडा वर्ग	0
4		4	47	जुवानसिंह मडिया	से	71 / 1	महेन्द कुवारसिंग	तक अनारक्षित	1
5		5	72	जोग्या लच्छा	से	92	जानु काशीराम	तक महिला अ.जा.	0
6		6	93	निहाल खूमसिंह	से	110	बारकी रूपसिंह	तक महिला अ.ज.जा.	10
7		7	111	भादरसिंह धानसिंह	से	134	कामिनी धनसिंह	तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	0
8		8	138	सागरी दशरीया	से	156	गोरेलाल रुखडिया	तक महिला अनारक्षित	0
9		9	157	रायसिंह मुनसिंह	से	174	लीलु दशरथ	तक	
10		10	175	सोमला दल्या	से	195	गुलाब औंकर	तक	
11		11	196	झीना भुवान	से	213 / 1	बन्शीबाई सुभान	तक	
12		12	213 / 2	बनी केशरीया	से	231 / 1	नंदा मांहन	तक	
13		13	232	रूपसिंह झुरला	से	246	काली प्रकाश	तक	
14	दग्गड़खेड़ी	14	1	झेंदरी अमरसिंह	से	15	नजली जुवानसिंह	तक	
15		15	16	शंकर सदरिया	से	31	सुमन मांगीलाल	तक	
16		16	31/1	रामसिंह भीन्या	से	44	तारु सखाराम	तक	
17		17	45	राजु नरसिंह	से	57	किरण प्रताप	तक	
18		18	58	दलसिंह हरसिंह	से	78	फुन्दा शेरसिंह	तक	
19		19	79	सुरज शेरसिंह	से	96	संजय सुखलाल	तक	
20		20	97	हारिया वेस्ता	से	109	नेहा जगदीश	तक	

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण					
				प्रवर्ग	संख्या				
1	2	3	4	5	6				
1	सिनगुन	1	1/1	गंगा मोहन	से	28	रंजना ललित	तक अ.जा.	2
2		2	29	छितरी घिसालाल	से	70	सरसत संतोष	तक अ.ज.जा.	6
3		3	71	गजानंद जोगीलाल	से	96	सचिन शिवनारायण	तक अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	102/2	बंशीलाल झबरसिंग	से	146	उमा श्यामलाल	तक अनारक्षित	7
5		5	147	सुंदरलाल रामलाल	से	224	शांतीलाल गोविंद	तक महिला अ.जा.	1
6		6	226	प्रेमचंद धन्नालाल	से	269/2	उषा महेश	तक महिला अ.ज.जा.	3
7		7	273	डोगर छगन	से	312/2	पार्वती प्रदीप	तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
8		8	314	बलिराम दयाराम	से	339	दिनेश काशीराम	तक महिला अनारक्षित	3
9		9	340	जशोदा शिवराम	से	370	प्रिती संजय	तक	
10		10	371	बिहारी तुकाराम	से	402	ललिता हुकुम	तक	
11		11	403	जगदीश पोखर	से	443	रिना सुरेश	तक	
12		12	444	सकाराम हरचंद	से	475	बसंती संतोष	तक	
13		13	477	गोविंद माधव	से	519	द्वारकी जगदीश	तक	
14		14	519/1	सुमवान निहाला	से	565	जावेद महमूद	तक	
15		15	566	हुसेन कादर	से	599	राकेशकाशीराम	तक	
16		16	600	तुलसीराम शोभराम	से	652	रामई बाबु	तक	
17	भिर्जापुर	17	1	काल्या दगडिया	से	28	लालसिंग नहारसिंग	तक	
18		18	31	जुवानसिंग केकडिया	से	63/2	रमकु शंकर	तक	
19		19	63/3	शिवराम मडिया	से	185क	निरा कैलाश	तक	
20		20	186	सुभाष केशरिया	से	48एल	ललिता नेहरू	तक	

सारणी

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
			1	2	3	4	प्रवर्ग	संख्या	
1	टेमरनी	1	4	विजय मथुरालाल	से	190	श्याम पंडरी	तक अ.जा.	0
2		2	20	बदामसिंह दत्त्या	से	48	सुरज योगेश	तक अ.ज.जा.	10
3		3	50	जतन फततुसिंह	से	66ख	मां. सादिक इब्बहिम	तक अन्य पिछडा वर्ग	0
4		4	67	गोविन्द्र चुन्नीलाल	से	92	राधा हिरालाल	तक अनारक्षित	9
5		5	96 क	बलीराम जोगीला	से	118ख	किरण सुरेश	तक महिला अ.जा.	0
6		6	119	गंगाराम गोपाल	से	136	कडवा उमराव	तक महिला अ.ज.जा.	5
7		7	136क	कडवा मोतिराम	से	151	अजय उंकार	तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	0
8		8	151क	सालकराम नत्थु	से	164	दिलीप धमा	तक महिला अनारक्षित	5
9		9	167	उमकार दलिया	से	180ख	सगीता विजय	तक	
10		10	181	हलीब कासम	से	203	सीमा गणपती	तक	
11		11	203क	नानी गोपाल	से	225	विजय कैलाश	तक	
12		12	226	सलिता फकिरा	से	238	लखनलाल राजाराम	तक	
13		13	229	जोगीलाल कन्हैया	से	139/ख	अमजद मोहम्मद	तक	
14	सूर्वा कुण्डिया+भोकरि या	14	1	महेश तेरसिंह	से	16	अनीता राजु	तक	
15	कुसुमपुरा	15	1	गमला सुलबिया	से	23/5	पुनी नत्थु	तक	
16		16	1	पंडु गोर्धन	से	10	कमल सुरसिंह	तक	
17		17	11	वेलसिंग मुनसिंह	से	23	धर्माबाई बालु	तक	
18		18	23/1	लक्ष्मीबाई बालु	से	35	लक्ष्मीबाई सुभाष	तक	
19		19	36	नाकु तेरसिंह	से	322	रुखडिया धनसिंह	तक	
विरान	जामन्या	विरान							
विरान	मुख्यारपुरा	विरान							
विरान	साटनपुरा	विरान							

सारणी

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
			1	2	3	4	प्रवर्ग	संख्या	
1	रामपुरा	1	4	लाली सरदार	से	14	दिलीप फुदीया	तक अ.जा.	0
2		2	15	लुंगी नरसिंग	से	24	रेखा सुरेश	तक अ.ज.जा.	20
3		3	25	बुदा गमला	से	40 /3	जयसिंग नरसिंग	तक अन्य पिछडा वर्ग	0
4		4	41 /1	हिरली अमरिया	से	55	धनी सजन	तक अनारक्षित	0
5		5	57	गोरेलाल घमरिया	से	72	सीमा विनोद	महिला अ.जा.	0
6	भोपालपुरा	6	1	सुगन भंगडा	से	22 /2	नरसिंग बिलमण	तक महिला अ.ज.जा.	10
7		7	22 /3	बहादुर फुलसिंग	से	37 /2	निर्मला फुलसिंग	तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	0
8		8	38	मडिया हरसिंग	से	47	सोना प्रेमसिंग	तक महिला अनारक्षित	0
9		9	48	सखाराम नरसिंग	से	58 /4	अंति नवलसिंग	तक	
10		10	59	सुखली कोल्या	से	72	बारकी इडला	तक	
11		11	72 /2	गोरेलाल नकला	से	84 /2	छतरसिंह जयराम	तक	
12		12	85	मदन औंकार	से	95	लिलु अंतरसिंह	तक	
13		13	96	झुगगी बालु	से	106 /1	अमला दिनेश	तक	
14		14	107	रडति भावला	से	120 /1	शिला रुमसिंग	तक	
15		15	120 /2	भावसिंग दित्या	से	133	गीता गुलाबसिंग	तक	
16		16	134 /1	दशरथ दरियाव	से	148	कला भुरला	तक	
17		17	149 /1	नरसिंग हगरिया	से	161 /2	रेखा धनसिंग	तक	
18		18	162	मिश्री वालसिंग	से	174	लक्ष्मी गंदालाल	तक	
19		19	175	मुदुली फुलसिंग	से	186	रजनी काशीराम	तक	
20	बडिया (पाटियापुरा विरान)	20	1	रेशमा मोहन	से	12	रमेश नवलसिंग	तक	

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
			3	4	से	5	6		
1	बलकवाडा	1	1 / 2	महेन्द्र सोदानसिंह	से	46 / 1 / 5	सुमय्या तस्लीम	तक अ.जा.	2
2		2	46/1/6	शबाना सद्दाम	से	57	लालुप्रसाद रमेश	तक अ.ज.जा.	1
3		3	58	हुसैन गुलाब	से	97	रुबिना मुजस्सर	तक अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	98	रहीमबेग करीमबेग	से	129	सीमा महेश	तक अनारक्षित	12
5		5	130	कीसन बुलाजी	से	161	छाया शिव	तक महिला अ.जा.	1
6		6	162	राजाराम नारायण	से	193	चेतना केशरसिंह	तक महिला अ.ज.जा.	1
7		7	194	भूरीबाई रामसिंह	से	223	दुर्गेश कोमलसिंह	तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
8		8	223 / 1	विरेन्द्रसिंह दरियावसिंह	से	251	उमा ऋतुराजसिंह	तक महिला अनारक्षित	6
9		9	253	विक्रमसिंह हरेसिंह	से	289	शारदा मदन	तक	
10		10	292	गनी करीम	से	336 / 2	सलमान साबीर	तक	
11		11	336 / 3	बालुसिंह नंदराम	से	377	प्रिती तेजकरण	तक	
12		12	378	बनवारी मांगीलाल	से	414	आशिष अशोक	तक	
13		13	420	बिसमिल्ला दरबाखां	से	442	शबनम सिद्की	तक	
14		14	444	नानुराम गंगाराम	से	486	भागाबाई छगन	तक	
15		15	486क	प्रकाश छगन	से	511 / 1	इमरान रफीक	तक	
16		16	511 / 2	अजीज जामदार	से	545	सलमा कल्लु	तक	
17		17	548	हमीद बख्तावर	से	579	आजम लतीफ	तक	
18		18	580	कादर इब्राहीम	से	607	भोलाराम नन्नु	तक	
19		19	608	कमु राधेश्याम	से	495क	फरिदा हातीम	तक	
20	कातरिया	20	2	जयराम रतन्या	से	42	संतोष धन्या	अंततक	

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
			3	4	से	5	6		
1	बामंदा	1	1	दिलीप सुखराम	से	17	राजेश संतोष	तक अ.जा.	2
2		2	18	शोभाराम सुका	से	50 / 3	सुमन सेरेन्द्र	तक अ.ज.जा.	0
3		3	51	जमनाबाई सखाराम	से	68	प्रभाबाई गणपति	तक अन्य पिछडा वर्ग	4
4		4	70	चुनीबाई सालकराम	से	87	यशवंत कृणा	तक अनारक्षित	8
5		5	88	कुसुमबाई छगन	से	115	चन्द्रशेखर केशव यादव	तक महिला अ.जा.	1
6		6	116	माधु रेवाराम	से	126	कविता राजेश	तक महिला अ.ज.जा.	0
7		7	127	उंकार मंगत्या	से	145	नाईदा निजाम	तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
8		8	146	सैतुल रमजान	से	170	डोंगर कडवा	तक महिला अनारक्षित	4
9		9	171	मीठाराम मंगत्या	से	187 / 1	समीरखां सययद	तक	
10		10	191	लीलाबाई रणछोड	से	203	रिलु ईकबाल	तक	
11		11	204	अनीसा शकुखान	से	217	मंगला मोहन	तक	
12		12	218	कडवा नाना	से	236	परवेज मुन्शी	तक	
13		13	237	नन्धु बाल्या	से	285	जमीला निकाईल	तक	
14		14	286	फरियाद मैहराब	से	170	दीपक कडवा	अंततक	

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
			1	2	3	4	प्रवर्ग	संख्या	
1	बारदेवला	1	2	नुरा धन्ना	से	13	दिनेश ईडल्या	तक अ.जा.	0
2		2	13क	सुनिता रूपसिंग	से	26	सबनम अमजद	तक अ.ज.जा.	6
3		3	26क	चांदखा अल्लाबेली	से	40	सुभाष रूमसिंग	तक अन्य पिछडा वर्ग	0
4		4	41	माक्या जसलिया	से	56	सुनिता प्रकाश	तक अनारक्षित	4
5		5	57	मदा मालसिंग	से	71	सबनम सददाम	तक महिला अ.जा.	0
6		6	72	ईसाक युसुफ	से	86	नसिम अकरम	अंततव महिला अ.ज.जा.	3
7	फाजलपुरा	7	3	रामलाल रणछोड	से	25	वर्षा लालसिंग	तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	0
8		8	26	रामसिंग चंदरसिंग	से	45	निषा महिमाराम	तक महिला अनारक्षित	2
9		9	46	शोभाराम दशरथ	से	62	धना प्रताप	तक	
10		10	63	रुगनाथ केरिया	से	89	रंजना बट्टी	अंततक	

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
			1	2	3	4	प्रवर्ग	संख्या	
1	बेसरकुण्ड	1	4	गोविंद गणपत	से	22/1	सुलोचना ननूराम	तक अ.जा.	1
2		2	22/2	चंपालाल भोलु	से	35	अनिता भगवान	तक अ.ज.जा.	7
3		3	36	भुरी बाला	से	55	प्रमिला आनंदराम	तक अन्य पिछडा वर्ग	4
4		4	56	गेन्दा सुक्या	से	71	राहुल किशोर	तक अनारक्षित	5
5		5	71 /1	कविता शेरु	से	80	हेमलमा कालुराम	तक महिला अ.जा.	1
6		6	81	गटकरी मकुंद	से	97 /1	अल्का प्रेमलता	तक महिला अ.ज.जा.	4
7		7	97 /2	लीला बाबु	से	103	पावती कृष्णा	तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
8		8	108	रामेश्वर रणछोड	से	128	सीमाबाई सुभाष	तक महिला अनारक्षित	2
9		9	131	काली गेंदालाल	से	146	सुनीता मंगत	तक	
10		10	148	विश्राम बालु	से	182	रुकमा मेहताप	तक	
11		11	182 /1	सुशीला भारतसिंह	से	200	मन्या थावरिया	तक	
12	पोखर	12	1	सुभलीबाई गुलाबरसिंह	से	21	रामेश्वर सखाराम	तक	
13		13	22	नल्थु कनसिंह	से	35	वैशाली इडा	तक	
14		14	35 /1	राकेश ईडा	से	56	दिनी मुन्नालाल	तक	
15	धरमपुरी	15	1	ग्यानसिंह कनसिंह	से	16/1	गंगा खुमसिंह	तक	
16		16	16/3	देवीसिंह हरपाल	से	170	सन्तुबाई नानुराम	तक	
17	नारायणपुरा	17	1	मेहताप खुमन्या	से	25	गंगा जुवानसिंह	तक	
—	पोखरू(फाल्या)	—	—	—	—	—	—	—	—

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
			1	2	3	4	प्रवर्ग	संख्या	
1	खेडी	1	1	कडवी आशाराम	से	13क	सुनिता हरिराम	तक अ.जा.	2
2		2	13ख	शिवजी हजारी	से	31	सीमा बट्टी	तक अ.ज.जा.	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
3		3	32 परस्या सवजा	से	52 मनीषा देवदास	तक अन्य पिछडा वर्ग	3
4		4	56 काशीराम गोपाल	से	73 पिकी लवकेश	तक अनारक्षित	6
5		5	74 रामेश्वर राजाराम	से	110घ अनिल रेवाराम	तक महिला अ.जा.	1
6		6	111 मोहन मोत्या	से	129घ कुसुम किशोर	तक महिला अ.ज.जा.	1
7		7	130/1 रामलाल करसन	से	159 मेहताप बालसिंग	तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
8	जलज्योति	8	1 जसु शंकर	से	11 सोदर बिहारी	तक महिला अनारक्षित	3
9		9	12 झबरीया	से	27/1 संजय शशांतीलाल	तक	
10		10	27/2 प्रहलाद मोजिलाल	से	42 सलिता बद्दी	तक	
11		11	45 सरदार हजारी	से	62 अंकिता सिताराम	तक	
12		12	63 द्रोपादी पुन्जा	से	78 ममता शिवराम	तक	
13		13	78/1 भगवान गोदालाल	से	92 कडवा रामलाल		

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
				प्रवर्ग	संख्या		
1	2	3	4	5	6		
1	सैलानी	1	1 गुलाब अनारसिंग	से	15 सुनिला जयपाल	तक अ.जा.	2
2		2	16 दौलत बोंदर	से	26 कमला जशवंत	तक अ.ज.जा.	8
3		3	27 राजु बापूसिंह	से	41/2 दुर्गा मंकेश	तक अन्य पिछडा वर्ग	0
4		4	42 मंगती उंकार	से	60 दुर्गा रामसिंह	तक अनारक्षित	8
5		5	61 जानकीबाई प्रताप	से	77/1 आरती मिथुन	तक महिला अ.जा.	1
6		6	80 दयाराम छित्तु	से	106 सोनू राजेन्द्र	तक महिला अ.ज.जा.	4
7		7	108 मधुसुदन छोटेलाल	से	14 पिकी निहाल	तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	0
8	बाल्यापुरा	8	1 झापू शोभाग	से	14 राजेन रमेश	तक महिला अनारक्षित	4
9		9	15 सुकलाल मांगीलाल	से	28 भागवत लक्ष्मण	तक	
10		10	29 रामलाल फत्त	से	49/2 जीवन राजाराम	तक	
11	जावदा	11	1क धर्मेन बलिराम	से	14क जयलाल नत्थु	तक	
12		12	15क रूखमा कमनसिंह	से	35 अर्जुन रामदेव	तक	
13		13	38 भजन वागरिया	से	53 रामकुवर विक्रम	तक	
14		14	53क मुन्ना तोताराम	से	79 मनीषा परसराम	तक	
15		15	80क अमृत रेवाराम	से	93ख ताराचंद रमेश	तक	
16		16	94 जीवन चद्रशेखर	से	109क ज्योति धिरज	तक	
17		17	110क मोहन गजानंद	से	132क प्रमिला काशीराम	तक	
18		18	134 सोमली शोभाराम	से	146 सुंदर ईश्वर	तक	

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
				प्रवर्ग	संख्या		
1	2	3	4	5	6		
1	अघावण	1	1 खेमराज पुना	से	10 कमल झेतारू	तक अ.जा.	2
2		2	10क पिरम रामसिंह	से	28 शिव महेया	तक अ.ज.जा.	1
3		3	30 सोना सुपडिया	से	53 कमल टुटला	तक अन्य पिछडा वर्ग	3
4		4	54 संतोष रणछोड	से	79 कोमल घनश्याम	तक अनारक्षित	5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
5		5	80 तुकाराम बुदिया	से	99 किरण जगदीश	तक महिला अ.जा.	1
6		6	100 जानकी कैलाश	से	115 सुनिल दशरथ	तक महिला अ.ज.जा.	1
7		7	116 बंदी तुलसीराम	से	128ख रूपाली धर्मेन्द्र	तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
8		8	129 विक्रम सौभगसिंह	से	142 सारिका राजेश	तक महिला अनारक्षित	2
9		9	143 शिवराम बुदिया	से	171 संगीता मिश्रीलाल	तक	
10		10	171क पंढरी दगडु	से	210 उर्मिला सालकराम	तक	
11		11	211 जानकी जोगीलाल	से	78 राजनंदनी गोविन्द	तक	

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गावँ के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
				प्रवर्ग	संख्या		
1	2	3	4	5	6		
1	बिठेर	1	1	मावीबाई गंगाराम	से 10ग शिवराम मयाराम	तक अ.जा.	2
2		2	12	दयाबाई बाला	से 22क टिटू नराण	तक अ.ज.जा.	5
3		3	23	जवाहर नराण	से 40 रणजीत शेरू	तक अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	41	बाबू मंदौर	से 55क नेणु बाग्या	तक अनारक्षित	6
5		5	56	मंगल्या मोंत्या	से 73 सरवण मोरसिंह	तक महिला अ.जा.	1
6		6	75	झामा मोरसिंह	से 91ख चौधमल लक्ष्मण	तक महिला अ.ज.जा.	3
7		7	92	सारोबाई थावरिया	से 109 सजनीबाई अनारसिंह	तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
8		8	109/1	रेबसिंह भारत	से 122क हंसराज सखाराम	तक महिला अनारक्षित	3
9		9	124	रुख्मणीबाई चम्पालाल	से 134क रमाबाई बाबूलाल	तक	
10		10	135	गंगाराम देवचंद	से 148 सीताराम दशरथ	तक	
11		11	150	नानुबाई हंसराज	से 162 शेरू जगन	तक	
12		12	163	पुनमचंद लक्ष्मण	से 178 रीना दिलीप	तक	
13		13	179	गजानंद मांगीलाल	से 188 माणक पाला	तक	
14		14	188क	बबीता मांगीलाल	से 200 ताराचंद मांगीलाल	तक	
15	बाजिटपुरा	15	1	मोहन गोदूसिंग	से 20/1 खुमान रामसिंग	तक	
16		16	22	जुरसिंह बेरसिंग	से 34 रतनसिंह मांगीलाल	तक	
17		17	35	अनारसिंह कल्या	से 45/2 मालु सुकलाल	तक	
18		18	46	बूदासिंह सेकडिया	से 56 कालीबाई रुमसिंह	तक	

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गावँ के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
				प्रवर्ग	संख्या		
1	2	3	4	5	6		
1	ओझरा	1	1	बाबु रामा	से 32 सुकमाबाई मांगीलाल	तक अ.जा.	2
2		2	34	कालु मांगीलाल	से 47 रंजना अखिलेश	तक अ.ज.जा.	1
3		3	48	भुवानीराम पुन्या	से 83ख श्रीकृष्ण रणछोड	तक अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	87	टन्ट्या अमरित	से 127 रत्नबाइ सुरेन्द्र	तक अनारक्षित	12
5		5	128	राजाराम कल्याण	से 162 /2 किरण सुनिल	तक महिला अ.जा.	1
6		6	163	महादेव मंगत	से 180 /2 मंगुबाई बलीराम	तक महिला अ.ज.जा.	1
7		7	180 /2	संतोषी गणेश	से 213 हेमन्द्र रामलाल	तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
8		8	214	बोदर शंकर	से 238 /2 छाया विजेश	तक महिला अनारक्षित	6

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9		9	240 सकरीबाई बाछा	से 256	श्याम बद्रीलाल तक
10		10	257 बसकरबाई चन्दु	से 281	दुर्गा दीपक तक
11		11	282 रतन रामचंद	से 308	जितेन्द्र रामसिंह तक
12		12	310 बीनाबाई हीरा	से 333	गंगाबाई प्रकाश तक
13		13	334 सदिद्या हरजीया	से 359	बबलीबाई बबन तक
14		14	360 गोगलबाई बदिया	से 97	सरजु मुकेश तक
15	सावदा	15	6 रेवाराम एडु	से 27ख	रुकमा शंकर तक
16		16	27 / ग शोभाराम ध्यानसिंह	से 53ग	महेश तोताराम तक
17		17	53ख सीताबाई छगन	से 89	मनोज बलिराम तक
18		18	90 तुमाबाई बांखार	से 112	मालती विठठल तक
19		19	113 हिरालाल आशाराम	से 148क	विधासागर गट्टु तक
20		20	148क कमलाबाई विधासागर	से 165ख	प्रेमबाई सरदार तक

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
1	2	3	4	प्रवर्ग संख्या	
				5	6
1	गोपालपुरा	1	1/क कैलाशचंद बद्रीप्रसाद	से 21/ख सुनीताबाई महेशर तक अ.जा.	3
2		2	22 सखाराम दयाराम	से 52 गंगाबाई मौजीलाल तक अ.ज.जा.	6
3		3	52 श्रीराम मौजीलाल	से 68/क सीमा हुकुम तक अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	69 पार्वतीबाई छितु	से 92 ज्योतिबाई भगवान तक अनारक्षित	6
5		5	93 सूरजमल बागमल	से 113/च अमित रामलाल तक महिला अ.जा.	2
6		6	113/छ बलीराम किशन	से 125 सुनिता कडवा तक महिला अ.ज.जा.	3
7		7	136/क चम्पालाल बाबु	से 153/ख सेवन्ती गुलाबसिंह तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
8		8	154 सलुबाई गोवर्धन	से 167/1 कमलीबाई निहालसिंह तक महिला अनारक्षित	2
9		9	167/3 पातल मालसिंह	से 178/1 जीवन ध्यानु तक	
10		10	178/2 लीलाबाई सुरपाल	से 193 कमला सन्तोष तक	
11		11	194 छगन फुलसिंह	से 214/क देवराम मोहन तक	
12	करोदिया	12	215 मेहकाल गोपान	से 237 आशा हरिराम तक	
13		13	1 शिला रामचंद	से 20/क लाडकी छोगालाल तक	
14		14	21 दगडी राजाराम	से 35/क रघुनाथ हुकुम यादव तक	
15		15	39 रेवाराम गणपत	से 59 शिवराम भीका तक	
16		16	59 भिलई शिवराम	से 77 अरुण कालु यादव तक	
17		17	78 गंगा शोभाराम	से 94 मिनाक्षी ललीत तक	
18		18	96 तुकाराम दला	से 117 अनिता कमल तक	
19		19	118 नानीबाई सखाराम	से 147 संतोष बाबू तक	
20		20	148 बाल्या देवा	से ए आरती नेहरू तक	
-	भाडली(विरान)	-			

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गाव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
1	2	3	4	प्रवर्ग संख्या	
				5	6
1	रणगाव	1	1 देवराम कन्हैया	से 18 संगीता मुकेश तक अ.जा.	5
2		2	19 नान्य भगवान	से 42क शांती अशोक तक अ.ज.जा.	0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
3		3	43 कला गोडया	से	59 जयपाल दोला	तक अन्य पिछडा वर्ग	4
4		4	59क गिला भाईरमा	से	76 अंकिता अलोक	तक अनारक्षित	8
5		5	77क उमराव घुसाई	से	99 अंगुर भुरिया	तक महिला अ.जा.	3
6		6	100 चिंताराम रेवाराम	से	68 संगीता सुखदेव	तक महिला अ.जा.	0
7		7	2 मोतेसिंह गपपू	से	17 जयश्री पटेल	तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
8	कांकरियाव	8	18 कानू केशर	से	36 संगीता राजेश	तक महिला अनारक्षित	4
9		9	37 बंसती सोदान	से	50 राजकुमारी कैलाश	तक	
10		10	52 मंगी सोभाराम	से	59 रोहित शिवलाल	तक	
11		11	60 राजाराम शिवाजी	से	74 किरण रवि	तक	
12		12	1 एडू रामा	से	21ग माया तिलोक	तक	
13		13	22 चंदु नवल	से	35क सुनिता सौदान	तक	
14	मिर्जापुर	14	36 उमराव बाबु	से	51 मनिषा मुकाती	तक	
15		15	52 रेवाराम हरि	से	62 कपिल विजय	तक	
16		16	66 कमल पुन्या	से	81 सुनिता सुखदेव	तक	
17		17	82 शेरसिंह सोभाराम	से	101 उमिला पूनमचंद	तक	

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गावों के मकान नं.			आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
						प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4		5	6	
1	लेपा	1	1 भगतदास मोहनदास	से	20/1 दीपिका रमेश	तक अ.जा.	4
2		2	20/2 रमेश राघोराम	से	38 /2 प्रकाश गोरेलाल	तक अ.जा.	1
3		3	39 कालुराम मांगीलाल	से	54 /2 कुसुमबाई महेश	तक अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	55 /1 तोताराम दशरथ	से	64 किरणबाई अशोक	तक अनारक्षित	10
5		5	66 गुलाबचंद मांगीलाल	से	78क रंजनाबाई महेश	तक महिला अ.जा.	2
6		6	79 नारायण शोभाराम	से	96क संजय रमेश	तक महिला अ.जा.	1
7		7	97 /1 गेंदाबाई फत्तु	से	108 ललीताबाई रूखडू	तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
8		8	109 नबुबाई नानुराम	से	126 /2 मोनिका रवि केवट	तक महिला अनारक्षित	5
9		9	127 गोपाल भीकाजी	से	140 /1 आकाश मांगीलाल	तक	
10		10	141 गजानंद फत्तु	से	160 /1 लोभीराम लच्छीराम	तक	
11		11	160 /2 नानुराम रायसिंह	से	174 दीपिकाबाई अखिलेश	तक	
12		12	177 /1 रूखमणीबाई गेंदालाल	से	184 /क दिनेश सुभाष	तक	
13	टिगरियाव	13	2 भोलु सीताराम	से	24 कविता सुनिल	तक	
14		14	25/1 पूनीबाई नहारसिंह	से	48 चेतना धर्मेन्द्र	तक	
15		15	49 बसंत भील्या	से	72 दिप्ताबाई कृष्णा	तक	
16		16	73 लक्ष्मण गणपत	से	99 भारती रमेश	तक	
17		17	100 देवराम रामा	से	109 अंकिता मोहनलाल	तक	
18		18	110 गजानंद दल्लु	से	127 राधाबाई राजाराम	तक	
19		19	128 रामा सड्डु	से	139 संदीप नरायण	तक	
20		20	140 शंकरलाल पूनमचंद	से	169 रमा शंकर	तक	
—	लालपूरा (विरान)	—	—	—	—	—	—
—	बरखेडी (विरान)	—	—	—	—	—	—
—	बेरागढ (विरान)	—	—	—	—	—	—
—	हमीरपुरा (विरान)	—	—	—	—	—	—

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
				प्रवर्ग	संख्या		
1	2	3	4	5	6		
1	अमलाथा	1	1 छतरसिंग न्यादर	से	21 दिपीका राजेन	तक अ.जा.	4
2		2	22 अंतर अनार	से	53 रंजना नानुराम	तक अ.ज.जा.	1
3		3	54 धिरीलाल श्याम	से	72 रविन कैलाश	तक अन्य पिछड़ा वर्ग	5
4		4	73 बसु गोकुल	से	87 रंजना संजय	तक अनारक्षित	10
5		5	89 मोहनसिंह सोभाग	से	109 कुंता उदयसिंह	तक महिला अ.जा.	2
6		6	110 भवरसिंह मोतेसिंह	से	130 चेतना दिलीप सिंह	तक महिला अ.ज.जा.	1
7		7	130/1 भगवान गुलाब	से	153 राधा शिवपाल	तक महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
8		8	155 मोहन मोतेसिंह	से	166 योगेश कैलाश	तक महिला अनारक्षित	5
9		9	167/1 प्रतापसिंह शेर	से	200 न्यादरी लालखां	तक	
10		10	201 मुंशी लालखां	से	225 मनोज लखनलाल	तक	
11		11	226 शांता बाबू	से	245 धिरेन्द्र भारत	तक	
12		12	246 चंदर दौलत	से	273/2 सावित्री धन्नालाल	तक	
13		13	275 तरुवर मोतेसिंह	से	293/3 सलमा वाहिद	तक	
14		14	294 पीरू नबी	से	327 हसीना उमेश	तक	
15	नहारखेडी	15	1 अमीचंद उमराव	से	21 किरण कैलाश	तक	
16		16	22 रेवाराम एडु	से	39 रेखा सरवर	तक	
17		17	40 मांगीलाल गेहलिया	से	57 भावना गजानंद	तक	
18		18	58 कैलाश नारायण	से	70/2 अनिल आनंदराम	तक	
19		19	71 सुखदेव शोभाराम	से	88 सपना सुरेश	तक	
20		20	89 विजय हमीर	से	86 किरण बाघसिंह	तक	

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
				प्रवर्ग	संख्या		
1	2	3	4	5	6		
1	भट्टयाणबुजुर्ग	1	1 नंदन शिप्रसर	से	24 मंगती भगवान	तक अ.जा.	4
2		2	24क किशोर गणपत	से	41 भारती राधेश्याम	तक अ.ज.जा.	2
3		3	42 गबु सडिया	से	66 सुनिता कल्याण	तक अन्य पिछड़ा वर्ग	5
4		4	67 राधेश्याम रूपचंद	से	94 पूजा शंकर	तक अनारक्षित	9
5		5	94क ताराचंद मोतिलाल	से	112ख गायत्री कैलाश	तक महिला अ.जा.	2
6		6	113 चंपा हिरालाल	से	137 दुर्गा दिलीप	तक महिला अ.ज.जा.	1
7		7	138 कुंती मोहनसिंह	से	155 बबलू मदन	तक महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
8		8	156 नबी गणपत	से	181 राजेन दिलिया	तक महिला अनारक्षित	4
9		9	182 कमला भिलिया	से	195 ललित दिनेश	तक	
10		10	196 नानक्या चंपा	से	211 शांती रंजीतसिंग	तक	
11		11	211क तोताराम गोकुल	से	221 रितेश रामेश्वर	तक	
12		12	222 सुमन जगदीश	से	241 संजु प्रेमलाल	तक	
13		13	242 जयराम हिरालाल	से	260ख ज्योति रविन	तक	
14		14	260ग जमना हिरालाल	से	272 उमेश गणेश	तक	
15		15	273 छगन नत्थु	से	291 रिना राकेश	तक	
16		16	292 बाबु रेवाराम	से	307 दिपीका तुलसीराम	तक	
17		17	308 हिरसिंग लक्ष्मणसिंग	से	283 अनुसुईया परसराम	तक	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18	मलगांव	18	1 गजानंद बोदर	से 14क	शिवकन्या भुवानेसिंग तक
19		19	15 लक्ष्मी मांगीलाल	से 34	उंकार देवराम तक
20		20	35 कला गोपाल	से 55	देवकी देवेसिंग तक
-	कायतखेडी (विरान)	-			

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वाडों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वाडों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	भग्यापुर	1	1 कैलाश श्रवण	से 13	शक्ति गिरधारीलाल तक अ.जा. 2
2		2	14 जीवराज शंकर	से 34	गुलाब शिवा तक अ.ज.जा. 0
3		3	36 बालया भिका	से 60	चंदु विक्रमसिंग तक अन्य पिछडा वर्ग 4
4		4	61 गोदावरी नानूराम	से 75	कृष्ण लोभीराम तक अनारक्षित 8
5		5	76 दरियाव हिरालाल	से 51/1	सुमन प्रेमलाल तक महिला अ.जा. 1
6		6	98 सुमन श्रीराम	से 342	ज्योति महेन्द्र तक महिला अ.ज.जा. 0
7	तैल्याव	7	1 जितेन्द्र गजानंद	से 16	कुंदन नहारु तक महिला अन्य पिछडा वर्ग 2
8		8	17 मिरा सुखलाल	से 34	घनश्याम नंनु तक महिला अनारक्षित 4
9	ससावड	9	1 मोतन नाग्या	से 15/1	दिपीका जयसिंग तक 0
10		10	15/2 अमर दयाराम	से 29/1	रानी फारुख तक 0
11		11	29/2 पांजी वजीर खां	से 44	रेखा लखन तक 0
12		12	45 आत्माराम बालू	से 56/2	हसीना असलम तक 0
13		13	56/3 हिरालाल गोविंद	से 64	भूपेन्द्र इंदर तक 0
14		14	65 आनंद रणछोड	से 82	रविन्द्र राजाराम तक 0
-	मोहाली विरान	-			

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वाडों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वाडों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	पीपलगोन	1	1 गोगल गंगाराम	से 62	निमा तुलसीराम तक अ.जा. 4
2		2	63 कमला सियराम	से 112	सीता ओमप्रकाश तक अ.ज.जा. 2
3		3	113 कैलाश घिसीलाल	से 163	मधु हिरा तक अन्य पिछडा वर्ग 5
4		4	163क कैलाश बाला	से 222	स्वाती अनिल तक अनारक्षित 9
5		5	223 चिंतामणी नरेन	से 327	साविरा मोहम्मद तक महिला अ.जा. 2
6		6	328 मेहरबान मोहम्मद	से 352/1	सारिका गुलाबचंद तक महिला अ.ज.जा. 1
7		7	353 प्रकाशचंद्र प्रेमचंद	से 435/1	शांता भुरिया तक महिला अन्य पिछडा वर्ग 3
8		8	437 बाबु नंदा	से 490क	मृयंका पवन तक महिला अनारक्षित 4
9		9	491 फरहाद अब्दुल	से 540	राजेश शंकरलाल तक 0
10		10	540क दुर्गा विजय	से 599क	बसंती मुकेश तक 0
11		11	599ग संतोष हिरालाल	से 647	किरण सतीष तक 0
12		12	648 पुरुषोत्तम बुदिया	से 32/1	शबना कादर तक 0
13		13	33 नत्थु टिकाराम	से 75	लक्ष्मी मोहन तक 0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14		14	79 नानुराम मंगलया	से	122थ संगीता अशोक तक
15		15	122त दमू राजनाथ	से	51क दीपक शिवनारायण तक
16		16	52 कमल रायसिंग	से	84क सलीता अनुर तक
17		17	85 बनाबाई सद्दु	से	143 यशवंत मांगीलाल तक
18	खमलाय	18	4 रेवाराम डोगर	से	62 सौरभ रमेश तक
19		19	63 कमला गौरीशंकर	से	111 अनिल बाबु तक
20	खमलाय एवं शिवरामपुरा	20	112क चंपालाल बाल्या	से	166 संगीता अनार तक
—	सातधारा विरान	—		से	तक

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बाडी	1	1 अनारसिंह पदम	से	21 मनीषा दिलीप तक अ.जा. 5
2		2	22 गुलाब रामलाल	से	48 प्रभु रघुराम तक अ.ज.जा. 0
3		3	49 कस्तुरी हरि	से	72 मिनु राधेश्याम तक अन्य पिछडा वर्ग 5
4		4	73 लोकेन्द्र ओमप्रकाश	से	100 दुर्गा अजय तक अनारक्षित 10
5		5	100क अजय आशाराम	से	117 धर्मेन्द्र गजानंद तक महिला अ.जा. 3
6		6	118 आशाराम पदम	से	140 सचिन तोताराम तक महिला अ.ज.जा. 0
7		7	142 रेवाराम हरचंद	से	163 परविन नदीम तक महिला अन्य पिछडा वर्ग 2
8		8	175 सजन राजाराम	से	205 मांगी चंपालाल तक महिला अनारक्षित 5
9		9	206 नारायण नत्थु	से	230 साजियु मस्तफा तक
10		10	231 देवराम पदम	से	248ख संतोष संतोषी तक
11		11	249 बसु सकाराम	से	263 हिना अकिल तक
12		12	264 करीम पीरु	से	286 विशाल अशोक तक
13	दाभा	13	1 हिरालाल सुमान	से	24 अंजुला ताराचंद तक
14		14	25 स्वामी शरणानंद	से	43 शर्मीला गणेश तक
15		15	45 रमेशचंद्र मांगीलाल	से	68 रंजित भगवान तक
16		16	69 ग्यारसी बीसन	से	91 राधा शिवाजी तक
17		17	93 नत्थु चंपालाल	से	114 रविन आशाराम तक
18		18	115 भागीरथ ज्ञानसिंह	से	135 किर्ती उमेन तक
19		19	136 समरथ गदडु	से	150 आशा चंदु अंततक
20	गोलपुरा	20	1 गेंदालाल पुनाजी	से	48 अरविंद डुराम तक
—	राजपूरा(विरान)	—			

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	सामेडा	1	1 लोकेन गणेश	से	21 हिमांशु ज्ञानसिंग तक अ.जा. 3
2		2	22 आनंद गंगाराम	से	49क जितेन रेवाराम तक अ.ज.जा. 0
3		3	52 रघुनाथ बाल्या	से	74 दिपक गजानंद तक अन्य पिछडा वर्ग 4
4		4	75 गोगल भागीरथ	से	97 शाबाना मौजूम तक अनारक्षित 10

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गावों के मकान नं.				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4				5	6	
1	भटयाणखुर्द	1	2	हसीना अब्दुल	से	16	कालु मुनीर	तक अ.जा.	2
2		2	17	मंजुर मोहम्मद	से	44	लखन नंदु	तक अ.ज.जा.	1
3		3	45	सुरेश फत्तु	से	66	महादेव राजाराम	तक अन्य पिछड़ा वर्ग	3
4		4	68	गुजर दशरथ	से	89	रिना पूनमचंद	तक अनारक्षित	5
5		5	90	आनंदराम भिलाजी	से	106	शिवकरण कडवा	तक महिला अ.जा.	1
6		6	106/1	कंचन रामलाल	से	117	छममी हमीद	तक महिला अ.ज.जा.	1
7		7	118	मुबारिक मुनीर	से	135/1	सोनू दशरथ	तक महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
8		8	135/2	प्रेमबाई आनंदराम	से	150	रेखा मिश्रीलाल	तक महिला अनारक्षित	2
9		9	151	शिवराम हिरालाल	से	161	नरेन मोहन	तक	
10		10	162	नानूराम तापीराम	से	175/2	सुनिल प्रहलाद	तक	
11		11	176	मंशाराम मोतिराम	से	195	मनीषा महेश	अंततक	
-	चकरिया विरान	-							
-	भरनिया विरान	-							

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गावों के मकान नं.				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4				5	6	
1	झिरन्या	1	4	शांता कनकसिंह	से	15	पुजा चंदरसिंह	तक अ.जा.	0
2		2	16	समोतीबाई शोभाराम	से	29	दयाराम नानस्या	तक अ.ज.जा.	12
3		3	30	मंगलीया बाथु	से	38	रिना रमेश	तक अन्य पिछड़ा वर्ग	0
4		4	39	केसरया बुदु	से	46	सलीता प्रेमसिंह	तक अनारक्षित	0
5		5	46 / 4	हासरी छतरसिंह	से	60	रमतु हिरा	तक महिला अ.जा.	0
6		6	63	काल्या हिरा	से	77	आशा देवराम	तक महिला अ.ज.जा.	6
7		7	78	फुलसिंग रायसिंग	से	90	मनिषा सिगदार	तक महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	0
8		8	91	गेंदा नानुराम	से	107	रुखडिया गुलाब	तक महिला अनारक्षित	0
9		9	109	जवानसिंह पहाडसिंग	से	117	अरुणा तुकाराम	तक	
10		10	118	रामकरण कुतरिया	से	130	ताराचंद सरदार	तक	
11		11	131	ईडी अनस्या	से	156	हाजरी केशरिया	तक	
12		12	161	जुगन बिसन	से	213क	देवकीबाई कृष्णा	अंततक	

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गावों के मकान नं.				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4				5	6	
1	सांगवी	1	2	सडया रतन	से	21	सुनिता मुकेश	तक अ.जा.	5
2		2	22	गुलाब एडु	से	32/2	श्याम कसरत	तक अ.ज.जा.	1
3		3	32/3	पुन्या मंगत्या	से	51	अमोल शांतीलाल	तक अन्य पिछड़ा वर्ग	0
4		4	52	कडवाजी धिसीलाल	से	74	ममता रविन	तक अनारक्षित	5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5		5	75 कमल किशन	से 89	बलिराम शेरु तक महिला अ.जा.
6		6	91 भागा राघोराम	से 108	रितेश बंशीलाल तक महिला अ.ज.जा.
7		7	113 धन्नालाल नराण	से 127	संजय मंगत तक महिला अन्य पिछडा वर्ग
8		8	128 राजाराम भुरा	से 150	रेशम हुकुम तक महिला अनारक्षित
9		9	151 गुलाब देवराम	से 168	विनोद जगदीश तक
10		10	168 देवराम गोपाल	से 188	सारिका राजेश तक
11		11	189 अमरसिंह हिरा	से 82क	अंगुर टंडुलाल तक

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	खामखेडा	1	गुलाबबाई देवेसिंग	से 40 /1 अजय सरदारसिंह तक अ.जा.
2		2	41 सुमन गजराजसिंह	से 82 सीमाबाई गोरेलाल तक अ.ज.जा.
3		3	83 मिश्रलाल बंदुजी	से 114 /1 ममताबाई ललीत तक अन्य पिछडा वर्ग
4		4	115 मथुरालाल गेंदालाल	से 151 नानीबाई जितेन्द्र तक अनारक्षित
5		5	152 सखाराम भिकाजी	से 193 अनिता जयपाल तक महिला अ.जा.
6		6	194 सेवकराम रेवाराम	से 228 ज्योति गेंदालाल तक महिला अ.ज.जा.
7		7	230 पन्नालाल तुलाराम	से 268 दिपीका केशरिलाल तक महिला अन्य पिछडा वर्ग
8		8	269 भागवत रमेशचंद्र	से 309 ममता गोपाल तक महिला अनारक्षित
9		9	310 कमलसिंह शोभाराम	से 329 रूपेश भाईराम तक
10		10	330 राजाराम सिताराम	से 361 सावित्री यशवंतसिंह तक
11		11	362 कडवी प्रेमलाल	से 399 पिकीबाई मुकेश तक
12		12	401 गोविंद रूखडुजी	से 450 प्रवीण मयाराम तक
13		13	451 मिश्रीलाल बालुजी	से 485 भावना प्रकाश तक
14		14	486 बाबुलाल दयाराम	से 527 अनिता महेश तक
15		15	530 भगवान विठठल	से 562 सकुबाई गजानंद तक
16		16	563 /1 दगडु पुन्या	से 606 भारती राजेन्द्र तक
17		17	606 /3 ननु बोंदर	से 625 गणेश जियालाल तक
18		18	625 /1 प्रेमलाल गोकुल	से 642 लक्ष्मी परसराम तक
19		19	643 नानुराम औकारनाथ	से 677 जीवनबाई फत्तु तक
20		20	678 बालुनाथ सिंधनाथ	से 720 तेजसिंह केशरसिंह तक
—	बलवाडी विरान	—		

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण
1	2	3	4	5
1	दुर्गापुर	1	इन्दरसिंह महेश	से 15 रूपेश पंढरी तक अ.जा.
2		2	17 कैलाश भागु	से 41 ललीता केशव तक अ.ज.जा.
3		3	42 सीता किशनलाल	से 61 शांती राधेश्याम तक अन्य पिछडा वर्ग
4		4	62 रमेश नरसिंह	से 87 संजय भागीरथ तक अनारक्षित
5		5	90 शिवराम रामचंद्र	से 117 सिमा कडवा तक महिला अ.जा.
6		6	118 उत्तम रमेश	से 134 /1 रंजना मिठाराम तक महिला अ.ज.जा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7		7	135 राजाराम कालु	से 125 जायमति हुकुम	तक महिला अन्य पिछडा वर्ग 2
8	भनगावं	8	2 लटुबाई कल्याण	से 24 रजनी गणेश	तक महिला अनारक्षित 5
9		9	27 चम्मालाल राजु	से 66 राजा तुलसीराम	तक
10		10	66क बोखार पदम	से 94 माधव हिरालाल	तक
11		11	96 पदम फत्तु	से 123 सुरेश सीताराम	तक
12		12	124 झबरसिंह गंगाराम	से 147 क रत्नबाई तेरसिंह	तक
13		13	148 भारत मोतिराम	से 168 /2 भुपेन्द्र शंकर	तक
14		14	169 शिवराम मांगीलाल	से 188 /1 बंशी भावसिंग	तक
15	कवडी	15	2 कला दयाराम	से 18 सचिन ताराचंद	तक
16		16	19 रामकरण रामसिंह	से 33 सुनिता मुकेश	तक
17		17	34 जगदीश मांगीलाल	से 54 ज्योति भारत	तक
18		18	55 जगदीश तोताराम	से 73 सुमन बलीराम	तक
19		19	74 रमेश नत्थु	से 106 दिनेश रामलाल	तक
20		20	106 गायत्री दिनेश	से 122 विनोद सोहन	तक
—	गिरडगावं (विरान)	—			
—	पंचदेवली (विरान)	—			

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गावं के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण	
				प्रवर्ग	संख्या
1	2	3	4	5	6
1	बोरावां	1	1 रामकिशन छोगालाल	से 30 रितेश अम्बाराम	तक अ.जा. 3
2		2	31 अमित राजेन्द्र	से 51 अशुबाला हेमेन्द्र	तक अ.जा. 3
3		3	51 /1 अखिलेश राजाराम	से 94 काली सजन	तक अन्य पिछडा वर्ग 5
4		4	95 दगडीबाई धन्नालाल	से 116 अरुण काशीराम	तक अनारक्षित 9
5		5	117 नानुराम बाउ	से 140 कला वल्लभ	तक महिला अ.जा. 2
6		6	141 लक्ष्मीबाई रणछोड	से 173 करण देवराम	तक महिला अ.जा. 2
7		7	174 आशाराम मयाराम	से 218 रामेश्वर केशरीलाल	तक महिला अन्य पिछडा वर्ग 2
8		8	219 रामसिंह फत्तु	से 256 /1 तुलसीराम माधव	तक महिला अनारक्षित 4
9		9	260 कृष्णलाल तोताराम	से 295 दुर्गा नटवरलाल	तक
10		10	297 तुकाराम नंदु	से 311 रिना सुरेश	तक
11		11	313 गजराबाई झापु	से 333 निशा संतोष	तक
12		12	334 शोभाराम नारायण	से 351 राधाबाई संतोष	तक
13		13	352 पवन बधुसिंह	से 389 /4 किरण भीमसिंह	तक
14		14	390 कैलाश बाबुलाल	से 393 /2 अविनाश कार्तिकप्रसाद	तक
15		15	393 /2 अनुपम विनोद	से 393 /2 गोपाल शिवराम	तक
16		16	393 /2 गोविंद शकरलाल	से 393 /2 जयपाल गबरु	तक
17		17	393 /2 बबलु सीतारामसिंग	से 393 /2 प्रियका संतोष	तक
18		18	394 दीपिका दिलीप	से 403 सलमा युनुस	तक
19	पिपलई	19	1 शांताबाई जंगत	से 40 चंदुबाई रूखडिया	तक
20		20	41 महेश रमल्या	से 61 अनिता कालु	तक
—	लश्करपुरा (विरान)	—			
—	सोमापुरा (विरान)	—			
—	धरमपुरी विरान	—			

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गावों के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
				प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4	5	6	
1	उटावद	1	1 तुलसीराम हीरालाल	से 25 /2	मंगत गबल तक अ.जा.	2
2		2	26 कन्हैयालाल रायचंद	से 55	सुरेशचंद्र मीठाराम तक अ.ज.जा.	6
3		3	56 /2 फकीरा जुम्मा	से 77क	राधाबाई सुरेशचंद्र तक अन्य पिछड़ा वर्ग	5
4		4	80 नानूराम सडुजी	से 102 /2	बलिरराम घीसीलाल तक अनारक्षित	7
5		5	102-1क घीसीलाल हरीराम	से 125	लक्ष्मीबाइ नरसिंग तक महिला अ.जा.	1
6		6	126 मंगत छितु	से 139	नानसिंह अमरसिंह तक महिला अ.ज.जा.	3
7		7	140 दारमीबाई वेसल्या	से 156 /2	फाजलिया मांगलिया तक महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
8		8	157 मथाराम हाबडा	से 175	रूपसिंग बदिया तक महिला अनारक्षित	3
9	उमरिया	9	1 गोपी राधेश्याम	से 25	सीताराम मांगीलाल तक	
10		10	27 सुरेश बाबु	से 54	रूपाबाई घिसीया तक	
11		11	55 बिसन ऐडु	से 70 /2	रफिक अल्लाबेली तक	
12		12	71 रामसिंह कालु	से 98	कलाबाई छगन तक	
13		13	100 मीठाराम रेवाराम	से 111 /1	कडवी शाकीर तक	
14		14	112 गुलमोहम्मद नुर मोहम्मद	से 126 /1	पडरी सडु तक	
15		15	127 हमीदा अ.सत्तार	से 144 /2	गीता भुवानसिंग तक	
16		16	144 /3 रूखडिया मल्या	से 182	सुन्दरबाई दिनेश तक	
17	सांगवी	17	1 किशोर बिसन	से 16	ममताबाई कमलेश तक	
18		18	17 शिवराम बाउ	से 39	सुनील हरी तक	
19		19	40 ग्यारसी भीमा	से 59	सोरभ रेवाराम तक	
20		20	59 /3 रामणकरण बोखार	से 96 /1	मोहन शोभाराम तक	

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गावों के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
				प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4	5	6	
1	चंदनपुरी	1	1 मकसुद एहमद	से 14	पवन बाबु तक अ.जा.	2
2		2	15 मुबारिक कादर	से 30/3	जुबेदा सरजित तक अ.ज.जा.	5
3		3	31 जहर मोहम्मद	से 46	कंचन शिवकरण तक अन्य पिछड़ा वर्ग	4
4		4	47 भुवानीराम नत्थु	से 62	रूबीना इरसाद तक अनारक्षित	3
5		5	63 आशिक मोहम्मद	से 71	राधेश्याम विश्वनाथ तक महिला अ.जा.	1
6		6	71/1 पंकज कमल	से 84	उषा दिपक तक महिला अ.ज.जा.	2
7		7	85/1 शांता मथुसिंह	से 94/3	राकेश जगदीश तक महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
8		8	94/4 जयंती रमेश	से 110	सुमीत सुरेश तक महिला अनारक्षित	2
9		9	111 मुरार मकुंद	से 131	भुरेलाल रमेश तक	
10		10	132 भोलु हरिया	से 149	अनिता देवराम तक	
11		11	151 रघुनाथ गुलाब	से 159/1	निहाल भिम तक	
12		12	159/2 सिताराम सुरपाल	से 174	रायकी जुवान तक	
13		13	175 बालु वेलजी	से 185/5	रमिला रमेश तक	
14		14	186 बुचर मंगल्या	से 193/1	शर्मिला जगन तक	

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वाडों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वाडों की संख्या का विवरण	आरक्षित वाडों की संख्या का विवरण		
					प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4	5	6		
	लोहारी (मुरादाबाद)						
1		1	सुबीबाई एडु	से 21	सरजीत हमीद	तक अ.जा.	5
2		2	जाकीर बसीर	से 43	सुलेमान अब्दुल	तक अ.ज.जा.	1
3		3	प्रेमलाल छगनलाल	से 66	भारतसिंह गुलाबसिंह	तक अन्य पिछड़ा वर्ग	5
4		4	विक्रम नवलसिंह	से 67 / 1	कमलेश कृष्णराव	तक अनारक्षित	9
5		5	कालीबाई किशोर	से 92	तुकाराम सुक्या	तक महिला अ.जा.	2
6		6	बल्लु गिल्या	से 116	बालकृष्ण मोतीलाल	तक महिला अ.ज.जा.	1
7		7	सखावत बालकृष्ण	से 142	बिहारीलाल शिवजी	तक महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	3
8		8	मुकीम करीम	से 174	शंकरसिंह गलसिंह	तक महिला अनारक्षित	4
9		9	सतीश भोलूराम	से 206	साबिरअली रहमतअली	तक	
10		10	खुशीद कमरअली	से 248	जितेन्द्र नन्नु	तक	
11	साधुपुरा	11	भुवानीराम भीका	से 292	आसमा मजिद	तक	
12		12	हबीब दगडू	से 23 / 1	असगरअली हसनअली	तक	
13		13	मेहमुदअली हसनअली	से 44	बिसलिल्ला आबिदअली	तक	
14	जामला	14	मलीबाई भीमा	से 70	जलील वलीमो.	तक	
15		15	नजरमो. कालेखा	से 21	देवकुवर मांगीलाल	तक	
16	गुजारी	16	मनोहरसिंह गणपत	से 43	सीताराम गणपत	तक	
17		17	भगवानसिंह विठ्ठलसिंह	से 22	मदनसिंह सीताराम	तक	
18		18	पार्वती तोताराम	से 38	राजेश शंकर	तक	
19		19	राजेश शंकर	से 69 / 1	मयाराम नंदु	तक	
20		20	अमोलबाई शंकर	से 93	बल्लु मांगीलाल	तक	
—	बाबरचा विरान	—	94 / 1	ए	अंत		

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वाडों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वाडों की संख्या का विवरण	आरक्षित वाडों की संख्या का विवरण		
					प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4	5	6		
	बरसलाय						
1		1	गबरू चंपालाल	से 19	शिवराम नत्थु	तक अ.जा.	2
2		2	लीलाबाई राजाराम	से 34 / 2	तोताराम नत्थु	तक अ.ज.जा.	0
3		3	पंढरी औकार	से 57	आनंदराम किशन	तक अन्य पिछड़ा वर्ग	4
4		4	कैलाश फत्तु	से 70	नत्थीबाई बाबुलाल	तक अनारक्षित	9
5		5	शंकरलाल गोविंद	से 92 / 2	लखन लच्छीराम	तक महिला अ.जा.	1
6		6	दशरथ दयाराम	से 106	मीठाराम मंगत	तक महिला अ.ज.जा.	0
7		7	किशन फकीरा	से 117	कुसुमबाई ठाकुर	तक महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
8		8	रामसिंह कालु	से 133	मोतीराम नत्थु	तक महिला अनारक्षित	5
9		9	ग्यारसीबाई मोतीराम	से 156	सीताराम गंगाराम	तक	
10		10	हुकुमचंद नाथुलाल	से 169	रामसिंह गप्पु	तक	
11		11	सीताराम विठ्ठल	से 187	शिखरचंद हुकुमचंद	तक	
12		12	तुकाराम नंदु	से 200	कलाबाई घीस्या	तक	
13		13	सेवतीबाई बाबूलाल	से 221	भुरीबाई नारायण	तक	
14		14	कुंजीलाल रेवाराम	से 248	बाल्या परस्या	तक	
15		15	रमेश परस्या	से 282	कमलाबाई छननु	तक	
—	बलखडखुर्द विरान	—					
—	बलखडबुजुर्ग विरान	—					
—	मनचर विरान	—					

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.		आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
			से	तक	प्रवर्ग	संख्या		
1	2	3	4		5	6		
1	अवरकच्छ	1	1	लटु शंकर	से 18	मनिषा रमेश	तक अ.जा.	4
2		2	19	महेश रामेश्वर	से 34	रिना नत्थु	तक अ.ज.जा.	0
3		3	35	मंगत्या फत्तु	से 54/4	पवन उत्तम	तक अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	54/5	लिला नारायण	से 66/1	उसा प्रविण	तक अनारक्षित	9
5		5	66/2	माधव घुसाई	से 98	लाडकी सोभाराम	तक महिला अ.जा.	2
6		6	98/1	छज्जु छित्तु	से 119	राजश्री मुकेश	तक महिला अ.ज.जा.	0
7		7	120	हरिराम कालु	से 138	माया मोहन	तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
8	नागरला	8	1	रमेश टुटला	से 13	ग्यारसी जगन	तक महिला अनारक्षित	4
9		9	15/2	सकाराम पुनिया	से 30	मालती नानुराम	तक	
10		10	30/1	गणेश नानुराम	से 53	रंजना कडवा	तक	
11	रामपुरा	11	1	हाजी शशेरु	से 25	दुर्गा जगदीश	तक	
12		12	26	मथुरालाल गंगाराम	से 39	राहुल गोविंद	तक	
13		13	40	पूनी गंगाराम	से 65	अनिता राधेश्याम	तक	
14		14	66	कडवा उमरिया	से 100	मथुरा सोभारामा	तक	
15		15	102	कालुराम शिवराम	से 121	कुंती राजेश	तक	
16		16	122	फुदा विठठल	से 142	किरण गजानंद	तक	
17		17	142/1	ओमप्रकाश रामा	से 159	नानालाल छोगालाल	तक	
18		18	160	रमुबाई पंढरी	से 17	जाग्रती महेश	तक	
	रहिमाबाद विरान							
	—							
	बिलगावं विरान							
	रूपखेडा विरान							

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.		आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण			
			से	तक	प्रवर्ग	संख्या		
1	2	3	4		5	6		
1	बामखल	1	1	सुखलाल एडिया	से 18	रोशनी कालु	तक अ.जा.	2
2		2	18/1	शंकर बाउ	से 38	अर्जुन जगदीश	तक अ.ज.जा.	0
3		3	39	कडवा गोकुल	से 65	सुभद्रा कैलाश	तक अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	68	भोलु मयाराम	से 82	सुलेखा अशोक	तक अनारक्षित	13
5		5	84	रमेश मंगत	से 106	अजय रेवाराम	तक महिला अ.जा.	1
6		6	107	एडिया पून्या	से 125	धर्मन्द् बाबुलाल	तक महिला अ.ज.जा.	0
7		7	126	गोकुल किशन	से 140	अनिता श्रवण	तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	3
8		8	142	तुलसीराम गंगाराम	से 169	यशसवंत तुसलीराम	तक महिला अनारक्षित	6
9		9	170	नरसिंह गंगाराम	से 188	शारदाबाई महेश	तक	
10		10	190	मंगत शंकर	से 213	फरीन वाहिद	तक	
11		11	214	नानुराम रूखडिया	से 241	लिमडा करसन	तक	
12		12	242	पुन्या रामा	से 266	आयसा जहीर	तक	
13		13	267	मेहमुद अब्दुल	से 308 /1	जयश्री जितेन्द्र	तक	
14		14	308 /4	राहुल सुरेश	से 308 /28	शब्बु मुरिलम	तक	
15		15	308 /9	शबनम फरीद	से 308 /61	ममता महेश	तक	
16	गोल	16	2	अम्बरकाबाई नत्थु	से 15	संगीता राजेश	तक	
17		17	16	मीठाराम गंगाराम	से 29	ममताबाई सुभाष	तक	
18		18	30	सुरेश राधेश्याम	से 45	मन्जुलाबाई पंढरी	तक	
19		19	46	कमलाबाई हरिराम	से 61	अर्चना बिहारीलाल	तक	
20		20	63	नानीबाई मयाराम	से 102	चम्पा निरज	तक	

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गावों के मकान नं.				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4				5	6	
1	कोण्डापुरा	1	1क	इस्माईल उस्मान	से	12	खलिल लिम्बा	तक अ.जा.	4
2		2	13	मेमूना सलेमान	से	27क	इनूदा मुस्ताक	तक अ.ज.जा.	0
3		3	29	शायजां जब्बार	से	40/2	रुखसार अजीत	तक अन्य पिछडा वर्ग	4
4		4	41	अमीर अब्दुल	से	49	खुर्शिद गफुर	तक अनारक्षित	9
5		5	50	रुस्तम हाजी	से	65	संजीदा अफसर	तक महिला अ.जा.	2
6		6	66	मालिक्या हासिर	से	98	बिहारी मिश्रीलाल	तक महिला अ.ज.जा.	0
7		7	99	सुपडिया माग्या	से	120	मनु संतोश	तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
8		8	121	अकलीम युसुफ	से	135	रितेश रघुनाथ	तक महिला अनारक्षित	5
9		9	135/1	मांगीलाल पून्या	से	152	हसरी इब्राहिम	तक	
10		10	153	सरदार कायम	से	169	बदू मुंशी	तक	
11	रायपुरा	11	2	हिरू विठठल	से	20	बलिराम जोगीलाल	तक	
12		12	21	लक्ष्मी बाई गप्पल	से	34	मोनिका सुभाष	तक	
13		13	35	राधेश्याम लक्ष्मण	से	50	दीपक मयाराम	तक	
14		14	51	मीसर गंगाराम	से	64	अंजु मंगलसिंह	तक	
15		15	66	कमल भीमा	से	79	संतोश रमेश	तक	
16		16	80	कडवा मंशाराम	से	87	भागू तुलसीराम	तक	
17		17	89	सुखलाल सिताराम	से	50	संतोशी पंढरी	तक	

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गावों के मकान नं.				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
							प्रवर्ग	संख्या	
1	2	3	4				5	6	
1	सिपटान	1	2	चंपालाल गट्टु	से	13/1	राहुल रामकिशन	तक अ.जा.	4
2		2	13/2	नानकराम दगड्डु	से	33	लंकेश देवराम	तक अ.ज.जा.	1
3		3	35	गेदा बाबु	से	52	रंजनी गुलाबचंद	तक अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	53	धनु सकाराम	से	79	कविता पन्नालाल	तक अनारक्षित	8
5		5	80	दशरथ धनिया	से	94	यशपाल विठठल	तक महिला अ.जा.	2
6		6	95	लोभीराम सबल	से	108	ललित हिरालाल	तक महिला अ.ज.जा.	1
7		7	110	रमति मोतिराम	से	127	शारदा संजय	तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
8		8	128	पेमलाल छोगालाल	से	151/1	लखन दयाराम	तक महिला अनारक्षित	4
9		9	152	छित्तर सुपडिया	से	173	लतिफ अजिफखां	तक	
10		10	174	रेवाराम भुरिया	से	194	रोशनी रेवाराम	तक	
11		11	194	मेहमूद टंटु	से	210	जयंती संजय	तक	
12		12	211	रसिद नल्थुखा	से	231	दुर्गा कालु	तक	
13		13	232/1	कैलाश कालु	से	242	सुनिल सरदार	तक	
14		14	243	केशर बुदर	से	ए	आकाश मोहन	तक	
15	भूलगांव	15	2/1	सुशिला आनंदराम	से	13/2	दिपक मनोहर	तक	
16		16	14	शोभाराम जयसिंग	से	37	किर्ती दिनंश	तक	
17		17	38	राधेश्याम रामसिंग	से	47/3	गायत्री मुकेश	तक	
18		18	48	मधु सकाराम	से	73	ज्योति अनार	तक	

सारणी

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण					
				प्रवर्ग	संख्या				
1	2	3	4	5	6				
1	सोनखेडी	1	1	रामलाल देवचंद	से	14	माधुरी मुकेश	तक अ.जा.	4
2		2	15	गोदावरी बाबु	से	33	गायत्री रूपेश	तक अ.ज.जा.	0
3		3	34	कडुबाई सबल	से	52	केशव धन्नालाल	तक अन्य पिछडा वर्ग	4
4		4	53	छोगालाल तुकाराम	से	75	पन्नाबाई हरीराम	तक अनारक्षित	6
5		5	76	पारुबाई शोभाराम	से	88	विक्रम सुपडिया	महिला अ.जा.	2
6	मकुन्दपुरा	6	1	बिरम नत्थु	से	28	तारुबाई औकार	तक महिला अ.ज.जा.	0
7		7	29	झलुबाई फकिरचंद	से	39	पंडु उमराव	महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
8	मथडाय	8	1	वालीबाई बाबु	से	17	राधा चंपालाल	तक महिला अनारक्षित	3
9		9	18	दला कालु	से	38	रेखाबाइ प्रेमचंद	तक	
10		10	39	रूपाबाई लक्ष्मण	से	55	शारदाबाई दिलीप	तक	
11		11	56	नत्थु जंगल्या	से	64	पुजा मोतीराम	तक	
12		12	65	मंगीबाई मोहन	से	85	सरस्वती दुलीचंद	तक	
13		13	86	रामलाल सुखलाल	से	102	मंजुला मुकेश	तक	
14		14	103	भगवान नंदु	से	115	फुलसिंग मालसिंग		

सारणी

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण					
				प्रवर्ग	संख्या				
1	2	3	4	5	6				
1	डेडगांव	1	1	तुलसीराम सिताराम	से	17	मायाबाई सोहन	तक अ.जा.	3
2		2	19	रामलाल मोतीलाल	से	36	जयंती सुरेश	तक अ.ज.जा.	5
3		3	38	कैलाश मांगीलाल	से	55	सुरेश कडवा	तक अन्य पिछडा वर्ग	5
4		4	56	संजय बंशीलाल	से	73	भारती कुलदीप	तक अनारक्षित	5
5		5	76	प्यारसिंह किशनसिंह	से	91	कविता धमेन्द्र	तक महिला अ.जा.	2
6		6	91 / 1	शेरसिंह नवलसिंह	से	107	ममता राकेश	तक महिला अ.ज.जा.	3
7		7	108	रामलाल पुनमचंद	से	131	जयपालसिंह टंटुसिंह	तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
8		8	132	मांगीबाई धनसिंह	से	144	सुमनबाई जगदीश	तक महिला अनारक्षित	2
9		9	146	द्वारकीबाई घिसालाल	से	161	कोमलबाई जयपालसिंह	तक	
10		10	163	शेरसिंह बाबुसिंह	से	184	मनिषा जितेन्द्र	तक	
11		11	186	जगदीश धन्नालाल	से	203	बिनु बिरजु	तक	
12		12	203 / 1	अनारबाई बलीराम	से	209 / 2	मुकेश कालु	तक	
13		13	211	शेरु तोताराम	से	224	राकेश डालुराम	तक	
14		14	225	बलीराम शेरसिंह	से	300	मीरा बादशाह	तक	
15	वायतेल	15	1	चंपाबाई भोलु	से	11	राधिका बबलु	तक	
16		16	12	मंगल्या बाथु	से	21	रेखा सरदार	तक	
17		17	22	जोगीलाल दितु	से	27क	झेंदुबाई धुमसिंग	तक	
18		18	28	मालसिंग मेहताब	से	42ख	प्रमिला बलवंतसिंह	तक	

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गावों के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण				
				प्रवर्ग	संख्या			
1	2	3	4	5	6			
1	मुलठान	1	2	लक्ष्मी ऐडु	से 22	नमिता सदाशिव	तक अ.जा.	4
2		2	23	राजेन्द्र सुखलाल	से 38	रानी सिताराम	तक अ.ज.जा.	1
3		3	39	बसंतीबाई तुकाराम	से 71	सतीश राधेश्याम	तक अन्य पिछड़ा वर्ग	5
4		4	72	गोकुल रामा	से 103	मितेश गजानंद	तक अनारक्षित	10
5		5	104	बसंती नाना	से 123	गजानंद बलीराम	तक महिला अ.जा.	2
6		6	123 / 1	मोतीराम कालु	से 148	देवकीबाई महेश	तक महिला अ.ज.जा.	1
7		7	150	परसराम गजानंद	से 180	गौरव रामरतन	तक महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
8		8	181	फुलबाई बालु	से 202	मंजुला राजेश	तक महिला अनारक्षित	5
9		9	205	श्रीराम रामलाल	से 237	दिपिका निर्मल	तक	
10		10	238	मनोहरलाल मकुदराम	से 290	शिवकुमार बाबुलाल	तक	
11		11	291	ग्यारसी राजाराम	से 318क	रचना सुनिल	तक	
12		12	325	राधेश्याम झापडु	से 350	इमरान हनीफ	तक	
13		13	351 / 1	अखिलेश बाबुलाल	से 378	रोशनी पंडरीनाथ	तक	
14		14	379	नाना बाबु	से 399	माया तुलसीराम	तक	
15		15	400	सुशिला चंपालाल	से 435ख	रोहित शंकरलाल	तक	
16		16	435ग	बसंत गजानंद	से 469	लक्ष्मी मनोहर	तक	
17		17	471	राधेश्याम कन्हैया	से 498	चंदा प्रेमलाल	तक	
18		18	499	राघोराम छोगालाल	से 536	संतोष मांगीलाल	तक	
19		19	538	रामकौर भिक्या	से 564	राजीव जाधव	तक	
20		20	565	धन्नालाल दशरथ	से 703	सुनिल बाका	तक	

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गावों के मकान नं.	आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण				
				प्रवर्ग	संख्या			
1	2	3	4	5	6			
1	हीरापुर	1	1	छोगालाल छितु	से 21	गणेश बंदी	तक अ.जा.	3
2		2	23	बनारस राजाराम	से 44	रंजनी संजय	तक अ.ज.जा.	6
3		3	41क	रमेश मोतिराम	से 62	गिरजा दिनेश	तक अन्य पिछड़ा वर्ग	5
4		4	63	मखराम रसाल	से 80ख	उषा सुभाष	तक अनारक्षित	4
5		5	81	राधेश्याम बाल्या	से 99 / 1	पंकज मोहन	तक महिला अ.जा.	2
6		6	99 / 2	सिताराम दामा	से 123	रूपेश नानुनाथ	तक महिला अ.ज.जा.	3
7		7	124	फकिर कन्नुनाथ	से 141	रहिस शब्बीर	तक महिला अन्य पिछड़ा वर्ग	2
8		8	142	शेरू मखिया	से 162	कल्पना राजेश	तक महिला अनारक्षित	2
9		9	162क	असरफ रमजान	से 171क	बबलु मगननाथ	तक	
10		10	173ख	छगन मोतिनाथ	से 182	राधा विश्राम	तक	
11		11	183	सुमन उंकार	से 195	अमर दाया	तक	
12		12	195ख	मगत रमाराम	से 213क	दिलीप कृष्णा	तक	
13		13	213ख	नंदु बाबु	से 220 / 14	रेखा जितेन	तक	
14		14	230 / 17	दिनेश कन्हैया	से 230	राधा मांगीलाल	तक	
15		15	231	सोमली दितिया	से 244	रमु महेश	तक	
16		16	244क	छगन भावला	से 256	अजय देवेसिंह	तक	
17		17	258	नल्लु भिकिया	से 267	सोनु किशोर	तक	
18		18	267क	महेन्द्र रामलाल	से 276क	राजू कालु	तक	
—	भातुड विरान	—						
—	नानकुण्ड विरान	—						
—		—						
—	डोमवाडाखुर्द विरान	—						

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
			3	4	5	6	प्रवर्ग	संख्या	
1	कमोदवाडा	1	1	प्रेमलाल नत्थु	से	23	विकास लखमसिंह	तक अ.जा.	3
2		2	24	सजनबाई दरियाव	से	40	भैयालाल मांगीलाल	तक अ.ज.जा.	3
3		3	41	लक्ष्मीबाई कालू	से	71	मटुबाई धन्या	तक अन्य पिछडा वर्ग	4
4		4	72	मंगा गोविंद	से	92	रेखाबाई करण	तक अनारक्षित	7
5		5	93	भूरीबाई शेरू	से	112	आशिष ओमप्रकाश	तक महिला अ.जा.	2
6		6	113	रामप्यारी लच्छीराम	से	147	सारिका महेन्द्र	तक महिला अ.ज.जा.	2
7		7	148	गिरजाबाई चंदरसिंह	से	168	राहुल हेमराज	तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
8		8	169	मोतीराम सिताराम	से	190	गणेश नानुराम	तक महिला अनारक्षित	3
9		9	192	प्रेमचंद काशीराम	से	215	परमानंद दशरथ	तक	
10		10	216	राधाकिशन नत्थु	से	238क	कलावती विश्राम	तक	
11		11	238ख	मांगी अमृतलाल	से	260	कविता महेन्द्र	तक	
12		12	261	सुरभान वाक्या	से	277	माया चेताराम	तक	
13		13	278	भोकार भुलिया	से	306	प्रवीण सीताराम	तक	
14	भनगाव	14	1	सुनीताबाई आशाराम	से	33	भवनीराम हिरालाल	तक	
15	सहेजला	15	1	गबरू दगडीया	से	17क	उमा किशोर	तक	
16		16	17ग	बिनुबाई रूमसिंग	से	33	राकेश घिसीलाल	तक	
17		17	35	सुरेश किशन	से	46	सावित्री मोहन	तक	
—	मोराला विरान	—							
—	खेडीखुर्द विरान	—							

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गांव के मकान नं.				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
			3	4	5	6	प्रवर्ग	संख्या	
1	भोपाडा	1	1	ज्योतिबाई नयनसिंह	से	8	संतोष प्रहलाद	तक अ.जा.	2
2		2	9	राधाबाई चैनसिंग	से	25	पुनिया राघोराम	तक अ.ज.जा.	8
3		3	25क	सुनिल अम्बाराम	से	38	ममता गोलु	तक अन्य पिछडा वर्ग	0
4		4	38क	सजनसिंह फततुसिंह	से	52	अखिलेश राघोराम	तक अनारक्षित	6
5		5	55	शंकरसिंह नरसिंग	से	64	ज्ञानसिंह अनोकसिंह	तक महिला अ.जा.	1
6		6	65	शंभु भागचंद	से	84	रुकमणी मोहन	तक महिला अ.ज.जा.	4
7		7	86	तुलसीराम मोहन	से	105	शिवकन्या रामेश्वर	तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	0
8		8	105क	राजेश राजाराम	से	122	सिमाबाई मोहन	तक महिला अनारक्षित	3
9		9	123	राजाराम नत्थु	से	138	सुमनबाई मांगीलाल	तक	
10		10	138क	नरसिंग रूमसिंग	से	155	मांगीलाल शंकर	तक	
11	डेहरिया	11	1	हिम्मतसिंह लखमसिंह	से	56	राकेश भीमसिंग	तक	
12	खराडीबुजुर्ग	12	1	सरदार हगरिया	से	9	झुमकाबाई मनोहर	तक	
13		13	10	मांगीलाल फुलसिंग	से	22	दिनेश रामलाल	तक	
14		14	23	तात्या औकार	से	30	सोनु छगन	तक	
15		15	31	काल्या ऐरांग	से	48	ग्यारसीबाई गलीया	तक	
16		16	49	डुंडीबाई बांडू	से	187क	संजय गणपत		

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गावों के मकान नं.				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
			1	2	3	4	प्रवर्ग	संख्या	
1	खेडीबुजुर्ग	1	1	सुपपिया दला	से	30	लोकेन्द्र राधेश्याम	तक अ.जा.	1
2		2	31	अनोखी केशव	से	60	छन्दु गंगाराम	तक अ.ज.जा.	9
3		3	61	भगवान बाबु	से	84	प्रमिला कातीलाल	तक अन्य पिछडा वर्ग	0
4		4	84क	रामकुवर गजानंद	से	106	बस्कर विष्णु	तक अनारक्षित	6
5		5	108	किशोर बाबु	से	128	जसोदा राघुराम	तक महिला अ.जा.	1
6		6	129	प्यारा कौलु	से	153	कामल देवकरण	तक महिला अ.ज.जा.	4
7		7	153 / 1	प्यारा गंगाराम	से	188 / क	राजनाथ जगदीश	तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	0
8		8	189	सलीता भलु	से	219	रानु जितेन्द्र	तक महिला अनारक्षित	3
9		9	219क	मकुन्द्र रामप्रसाद	से	246	सुनिता राधेश्याम	तक	
10		10	246क	सुकलाल जगलीया	से	272	ममताबाई राजेन्द्र	तक	
11		11	274	सुरल्या वेरसिळ	से	299 / 1	सुकलाल पिंगलसिंह	तक	
12	खराडीखुर्द	12	1	ममता रमेश	से	16	सोनु लच्छीराम	तक	
13	उमरदड	13	17	गंगाराम कुवरसिंह	से	38	महेश ब्रामसिंह	तक	
14		14	38क	सातिराम ब्रामसिंह	से	57	रेखा मेसरसिंह	तक	
15	पाण्डुखाल	15	2	मंगल्या भुचर	से	31	श्याणी गुलाबसिंह	तक	
16		16	35	तेरसिंह गुलाबसिंह	से	57	कालीबाई आशाराम	तक	
-	बोराला विरान	-							
-	जामन्या विरान	-							

सारणी

अनु. क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गावों के मकान नं.				आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण		
			1	2	3	4	प्रवर्ग	संख्या	
1	सुर्वा	1	1	खुमसिंग नानसिंग	से	14	अजुन भुवानसिंग	तक अ.जा.	2
2		2	15	कैलाश बाथु	से	28	पारु जितेन	तक अ.ज.जा.	12
3		3	28क	केकडिया विश्राम	से	43	रिना संजय	तक अन्य पिछडा वर्ग	0
4		4	43क	मुकेश सुखलाल	से	55	हेमराज कैलाश	तक अनारक्षित	2
5		5	56	देवेसिंग भगवान	से	67	जिवन बाल्या	तक महिला अ.जा.	1
6		6	68	शेरु चुन्नीलाल	से	86	सावित्री बाबुलाल	तक महिला अ.ज.जा.	6
7		7	87	चंपाबाई मगल्या	से	98	सरदार मांगीलाल	तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	0
8		8	98 / 2	ग्यारसीग छगन	से	108	रंगली रणसिंग	तक महिला अनारक्षित	1
9		9	111	नुरली बहादर	से	124	बोंदरसिंग माध्या	तक	
10		10	128	राधेश्याम सदिया	से	155क	मंज सोहन	तक	
11	डोमवाडाबुजुर्ग	11	1	दौलत रूगला	से	9	लिला सुरसिंग	तक	
12		12	10	सिता नाकु	से	21	फुदा बबलु	तक	
13		13	22	नथी रामसिंग	से	42	जमना राजेश	तक	
14		14	43	नराण लक्ष्मण	से	56	सुभद्रा रेवाराम	तक	
15		15	56 / 2	सरदार फत्तु	से	71	राधा नरसिंग	तक	
16		16	72	लालसिंह गटला	से	71	पिंकी श्यामलाल	तक	

सारणी

अनु क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	वार्डों के क्रमांक	सीमा गावों के मकान नं.		आरक्षित वार्डों की संख्या का विवरण				
					प्रवर्ग	संख्या			
1	2	3	4			5	6		
1	किरगाव	1	1	कलाबाई बुदिया	से	22	मेथु भावला	तक अ.जा.	1
2		2	22क	दुर्गाबाई सरदार	से	35	शिवराम कालू	तक अ.ज.जा.	6
3		3	36	राजाराम नंदु	से	49	मांगीलाल नत्थु	तक अन्य पिछडा वर्ग	4
4		4	50	रामईबाई नत्थु	से	63	बसुबाई रामसिंह	तक अनारक्षित	5
5		5	64	सुरेश शंकर	से	73	चंदरसिंह काल्या	तक महिला अ.जा.	1
6		6	73क	गंगाराम फुलसिंग	से	85	धनसिंह मोलू	तक महिला अ.ज.जा.	3
7		7	86	मोत्याबाई मोलू	से	94	डोगरसिंह चैनसिंह	तक महिला अन्य पिछडा वर्ग	2
8		8	95	राजलबाई अमरसिंह	से	109	हिराबाई बाबु	तक महिला अनारक्षित	2
9		9	110	किसन हिसालाल	से	122	भागचंद नरसिंह	तक	
10		10	123	कुवरसिंह नरसिंह	से	135	बाबू लक्ष्मण	तक	
11		11	136	तुलाबाई मोतीराम	से	142क	नथीबाई नत्थु	तक	
12		12	144	दरयावसिंह गंगाराम	से	148	तुलसीराम फाचरिया	तक	
13		13	149	प्रेमसिंह मंगल्या	से	167	गुरलीबाई अनसिंह	तक	
14		14	168	चंदरसिंह दल्लु	से	182	जयमल दरबार	तक	
15		15	183	चूनाबाई दरबार	से	204	शंकर रामसिंह	तक	
16		16	206	धनसिंह बाथू	से	229क	केलाबाई किशोर	तक	

नीरज दुबे, कलेक्टर.